

JOH-B
JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLA, No. 8



General Editors .

Dr. A. N. Upadhye & Dr. H. L. Jain

BHATTĀRAKA SĀMPRADĀYA

(A History of the Bhattāraka Pīthas especially of Western
India, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh)

By

Prof V. P. Jōhrapurkar, M. A.

Lecturer in Sanskrit, Nagpur Mahavidyalaya, Nagpur

Published By

Gulabchand Hirachand Doshi

Jaina Samskriti Samrakshaka Sangha, Sholapur

1958

All Rights Reserved

Price Rupees 8 only

First Edition: 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Samskrita
Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavan,
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs. 8/- per copy, exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपंथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन सस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे 'जैन संरक्षक सस्कृति संघ' की स्थापना की और उसके लिये ३०००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,००० दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी ग्रंथमालाका अष्टम पुष्प है।

प्रकाशक
गुलाबचंद हिराचंद दोशी,
जैन संस्कृति संरक्षक संघ,
सोलापुर.

मुद्रक
फुलचंद हिराचंद गाह,
वर्धमान छापखाना,
१३५, शुक्रनागपेट, सोलापुर.

भङ्गारक-संप्रदाय



स्व. ब्र. जीवराज गौतमचन्द्रजी

भट्टारक सम्प्रदाय

अर्थात्

मध्ययुगीन दिगम्बर जैन साधुओंके संघ
सेनगण, बलात्कारगण और काष्ठासंघका
सम्पूर्ण वृत्तान्त



सम्पादक

श्री. विद्याधर जोहरापुरकर, एम्. ए.
(सस्कृतके व्याख्याता, नागपुर महाविद्यालय, नागपुर)

वीर संवत् २४८४)

मूल्य ८ रुपये

(सन १९५८

सम्पादकीय

गिलाखेल, ताम्रपट व ग्रंथ-प्रगस्तियां इतिहास-निर्माणके अमृत्य और सर्वोपरि प्रामाणिक साधन है, यह बात अब सर्व स्वीकृत है। जैनधर्म संबंधी ये प्रमाण अभी तक पूर्णरूपसे मुलभ नहीं हो सके इसी कारण जैनधर्मका इतिहासभी अभी तक प्रामाणिकरूपसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सौभाग्यसे इन कमीकी अब धीरे धीरे पूर्ति होनेकी आशा होने लगी है। अनेक प्रकाशन संस्थायें अब इस ओर अपना ध्यान दे रही हैं। माणिकचन्द्र ग्रथमालाकी तीन जिल्दोंमें डॉ. गरीनो द्वारा संकलित सूचीमें उल्लिखित प्रायः समस्त जैन लेखका संग्रह हिन्दी भावानुवाद सहित प्रकाशित हो गया है। औरभी अनेक छोटे बड़े लेखसंग्रह प्रकाशित हुए हैं। हमारी यह ग्रंथमालाभी इस दिशामें प्रयत्नशील है। अभी अभी जो इस ग्रंथ मालामें *Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs* शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है वह इस बातका प्रमाण है कि इन लेखोंसे कैसा अज्ञात इतिहास प्रकाशमें आता है।

प्रस्तुत पुस्तकमें प्रो. विद्याधर जोहरापुरकरने मट्टारकसम्प्रदाय संबंधी ७६६ लेख संग्रह किये हैं। और उनका हिन्दी भावार्थभी लिखा है, तथा ऐतिहासिक टिप्पणियां भी जोड़ी हैं। नामादि वर्णानुक्रमणियोंसे ग्रंथका उपयोग करनाभी सुलभ बना दिया गया है। यद्यपि इनमेंके बहुतसे लेख पहलेसे हमारी दृष्टिमें चले आ रहे हैं। किन्तु यहां जो उन्हें व्यवस्थासे कालक्रमानुसार रखा गया है उसमें अनेक तथ्य प्रकट होते हैं। जिनका विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तावनामें संकल्पनकर्त्ताने अनेक सूचनाएं की हैं जिनपर ऊहापोह व मतभेद संभव है। किन्तु अपने प्राक्कथनमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि “इस पुस्तकके अगले भाग प्रकाशित होने पर इस विषयपर विस्तारसे लिखनेका सम्पादकका विचार है।” इसपरसे हमें धैर्यपूर्वक ग्रंथके अगले भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये। हमें इस उदीयमान साहित्यसंघीन भविष्यके लिये बहुत बड़ी आशाएँ हैं।

हीरालाल जैन
आ. ने. उपाध्ये

प्राक्कथन

मध्ययुगीन जैन समाजके इतिहासमें भट्टारक सम्प्रदायका स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस सम्प्रदायसे सम्बद्ध इतिहाससाधन पट्टावलिया, प्रतिमालेख, ग्रन्थ-प्रशस्तिया आदि विपुलमात्रामें प्रकाशित हुए हैं। किन्तु इन साधनोंका व्यवस्थित उपयोग करके कोई ग्रन्थ अब तक नहीं लिखा गया था। इस कमीको अंशतः दूर करनेके उद्देश्यसे ही प्रस्तुत पुस्तकका सम्पादन किया गया है।

अनेकान्त, जैन सिद्धान्त भास्कर, आदि सगोधनपत्रिकाओंमें प्रकाशित सामग्रीके अतिरिक्त, नागपुर, कारंजा, अंजनगाव तथा कुछ अन्य स्थानोंके अप्रकाशित इतिहाससाधनोंका भी इस पुस्तकमें उपयोग किया गया है। इनमें नागपुरके समस्त मूर्तिलेखोंका संग्रह हमें देवलगाव निवासी श्रीमान् शान्तिकुमारजी ठवली द्वारा प्राप्त हुआ। शेष साधन हमने स्वयं सकलित किए हैं।

इस पुस्तकका स्वरूप एक तरहसे इतिहास-साधनसूची जैसा है। पहले मूल लेख दिए हैं, फिर उनका हिंदी सारांश टिप्पणियों सहित दिया है, तथा इस परसे फलित कालानुक्रम भी साथमें दिया है। भट्टारको द्वारा निर्मित ग्रंथोंका परिचय, मूर्तिकलाका विकास तथा जातीयसंघटन आदि जो विषय विस्तृत विवेचनकी अपेक्षा रखते हैं उनका प्रस्तावनामें निर्देश मात्र कर दिया गया है। इस पुस्तकके अगले भाग प्रकाशित होने पर इस विषय पर विस्तारसे लिखनेका सम्पादकका विचार है।

पट्टावलियों आदिमें जो बातें बहुत ही सदिग्ध हैं उनका हमने विवेचन नहीं किया है, सिर्फ कहीं कहीं निर्देश भर कर दिया है। जहां तक हो सका, सुस्थापित तथ्योंका ही निवेदन किया है। कुंदकुंद, उमास्वाति आदि आचार्योंके गणगच्छादिका क्या सम्बन्ध रहा इस विषयमें भी हम ने चर्चा नहीं की है क्योंकि इस विषयके लिए पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं।

इस पुस्तकके लिए बाबू कामताप्रसादजी, मुनि कान्तिसागरजी, पंडित मुख्तारजी तथा परमानंदजी आदि विद्वानों द्वारा प्रकाशित सामग्रीका उपयोग हुआ है। इसके वर्तमान स्वरूपके लिए श्रीमान् डॉ. उपाध्येजीकी प्रेरणा, श्रद्धेय प. प्रेमीजीके आगीवाद् तथा श्रीमान् डॉ. हीरालालजी जैनका प्रोत्साहन ही कारणभूत हुए हैं। 'जैनमित्र' के वयोवृद्ध संपादक श्रीमान् कापडियाजी ने भ


सुरेन्द्रकीर्ति आदिके फोटो भेजने की कृपा की है । पुस्तकके मुद्रण कार्यका निरीक्षण जीवराज ग्रंथमालाके सुयोग्य कार्यवाह श्री. अक्कोळेने सुचारुरूपसे किया है । इन सब महानुभावोंके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ।

हमे खेद है कि इस ग्रंथमालाके सस्थापक श्रद्धेय ब्र. जीवराज गौतमचन्द दोशी का इस पुस्तकके प्रकाशित होनेसे पहले ही देहान्त हो गया । सशोधनके विषयमे उन्हें बहुत रुचि थी । हम उन्हें हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं ।

पुस्तकके परिवर्धन तथा सुधारके विषयमें जो भी सुझाव दिए जायेंगे उनका स्वागत किया जायगा ।

नागपुर
ता. २-४-५८

—संपादक



अनुक्रमणिका

संपादकीय
प्राक्कथन
अनुक्रमणिका
संकेतसूची
Introduction
शुद्धिपत्र

प्रस्तावना -

१-२३

१ ऐतिहासिक स्थान	१
२ उत्पत्ति और पार्श्वभूमि	२
३ परंपराभेद और विभिन्न आचरण	४
४ स्थल और काल	६
५ कार्य-मूर्तिप्रतिष्ठा	७
६ ग्रन्थलेखन और संरक्षण	९
७ शिष्यपरम्परा	११
८ जातिसंघटना	१२
९ तीर्थयात्रा और व्यवस्था	१३
१० चमत्कार	१५
११ कलाकौशलका संरक्षण	१५
१२ अन्य सम्प्रदायोसे सम्बन्ध	१७
१३ परस्पर सम्बन्ध	१९
१४ शासकोसे सम्बन्ध	२१
१५ उपसंहार	२३

भट्टारकसम्प्रदाय -

१-२९९

१ सेनगण	१
२ बलास्कारगण-प्राचीन	३९
३ ,, कारंजागाखा	४८

४	”	लातूरशाखा	७९
५	”	उत्तरशाखा	८९
६	”	दिछी-जयपुरशाखा	९७
७	”	नागौरशाखा	११४
८	”	अटेरशाखा	१२६
९	”	ईडरशाखा	१३६
१०	”	भानपुरशाखा	१५९
११	”	सूरतशाखा	१६९
१२	”	जेरहटशाखा	२०२
		परिशिष्ट १ बलात्काराण की शाखावृद्धि,	२०९
		२ काष्ठासघ की स्थापना,	२१०
१३		काष्ठासंघ माथुरगच्छ	२१३
१४	”	लाडबागड-पुन्नाटगच्छ	२४८
१५	”	बागडगच्छ	२६३
१६	”	नन्दीतटगच्छ	२६४
		परिशिष्ट- ३ महारक-नामसूची	३००
”	४	आचार्यादि नामसूची	३०८
”	५	ग्रन्थनाम सूची	३१२
”	६	मन्दिर उल्लेखसूची	३१७
”	७	जाति-नामसूची	३१९
”	८	शासक-नाम सूची	३२०
”	९	भौगोलिक नामसूची	३२२
”	१०	नकशा	३२७

संकेतसूची

१ प्रकाशित साधन-

- अ. — अनेकान्त मासिक, सं. पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार आदि.
 च. — श्री. जिनदास ना. चवडे, वर्धा, द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ.
 दा. — दानवीर माणिकचन्द्र, ले. ब्र. धीतलप्रसादजी.
 भा. — जैन सिद्धान्त भास्कर त्रैमासिक, सं. डॉ. हीरालालजी जैन आदि.
 भा. प्र. — उपर्युक्त त्रैमासिकमें प्रकाशित ग्रन्थप्रशस्ति—संग्रह.
 भा. प्र. — उपर्युक्त त्रैमासिकमें प्रकाशित प्रतिमालेख—संग्रह.
 म. प्रा. — मध्यप्रान्त और बरार के हस्तलिखितोंकी सूची
 सं. रायबहादुर हीरालालजी.
 हि. — जैन हितैषी मासिक, सं. पं. नाथूरामजी प्रेमी आदि.
 जै. — जैन साहित्य और इतिहास, ले. पं. नाथूरामजी प्रेमी (प्रथम संस्करण.

२ अप्रकाशित साधन (मूर्तिलेख तथा हस्तलिखित) —

- का. — बलात्कारगण मंदिर, कारंजा.
 ना. — सेनगणमंदिर, नागपुर
 प. — काष्ठासंघमंदिर, अंजनगांव
 पा. — पार्श्वप्रसु (बडा) मंदिर, नागपुर
 ब. — बलात्कारगण मंदिर, अंजनगाव
 म. — श्री. मा. स. महाजन, नागपुरका संग्रह
 से. — सेनगण मंदिर, कारंजा

३ जिन ग्रंथों की प्रतिलिपियोंकी पुष्पिकाएं मूल लेखाकोंमें दी हैं उन लेखाकों के शीर्षकोंमें उन ग्रंथों के नाम त्रैकेटमें रखे गए हैं ।

INTRODUCTION

(A digest of Hindi Prastāvanā)

1. General Nature

Bhattāraka is a term applied to a particular type of Jaina ascetics. Unlike a Muni or Yati, these ascetics assumed the position of a religious ruler. They managed large estates donated to some temple and enjoyed supreme authority in religious matters. Their tradition is very much similar to that of the Śankarāchāryas.

2. Extent of the Subject

Bhattāraka tradition is found in both Digambara and Svetāmbara sects. Twentytwo seats of Digambara Bhattārakas are known today. Out of these, one seat of Senagana existed at Kāranja (Dist. Akola, Berar), ten seats of Balātkāra Gana existed at Jaipur, Nagore, Ater, Ider, Bhanpur, Surat, Jerhat, Karanja, Latur and Malkhed, and four seats of Kāsthāsaugha existed at Hisar, Surat, Gwalior and Karanja. The complete historical account of these fifteen seats is embodied in the present work. Remaining seats of Digambara Bhattārakas are situated at Kolhapur, Mudbidri, Karkal, Humbuch and Sravan Belgola. We hope to edit the account of these seats in the second volume of this work.

3 Age of the tradition

Traditions embodied in the Dhavalā, Harivamsapurāna etc. are unanimous about the line of pontiffs that existed during the first seven centuries after Mahāvira. Bhadrabāhu II and Lohārya II were the last two pontiffs in this line. Traditional Pattāvals of various seats of Bhattārakas generally begin with either of these two

Exact historical references to these seats are, however, found from eighth century A. D. To fill up the gap between these six centuries all traditions claim the famous pontiffs such as Kundakunda, Samantabhadra, Devanandi Pūjyapāda etc., according to their will.

Even these references found from eighth century onwards are not continuous. The later Bhattāraka traditions generally begin from the thirteenth century A. D., which continue upto the present day.

4. Literary Contribution

This volume contains references to about 400 compositions of various Bhattārakas. This literature is mainly divided into three topics . epics, stories and texts for worship. Epics and stories are generally smaller reductions of stories found in the Padmapurāna of Ravisena, Harivaṃśapurāna of Jinasena and Mahāpurāna of Jinasena and Gunabhadra. These are found in Sanskrit, Prākṛit, Apabhraṃśa, Hindi, Marathi, Gujarati, and Rajasthanī. Various Purānas by Sakalakīrti of Ider and numerous Vratākathās by Śrutasāgarasūri are noteworthy. References are also found to works on grammar, astrology, prosody, logic, metaphysics, medicine, mathematics and other allied subjects.

5. Contribution towards Art and Architecture

Installation of various images was considered to be the main work of a Bhattāraka. These ceremonies presented a good opportunity for large religious and social gatherings and to establish one's prestige in the society. Various titles such as Sanghapati, Seth etc , were conferred upon chief donators of the ceremony.

More than a thousand images were installed at a single ceremony by Jinachandra at Mudasa (Rajasthan) chief donator was Seth Jivarāj Pāpadīwāl. These images were later on sent to a large number of temples all over India. They are found right from Amritsar to Madras and from Girnar to Calcutta. This ceremony took place on the Aksaya Tṛitīyā of Sam. 1548 (1492 A. D.)

Some twenty types of images were installed during this age. The largest number of images were of Pārśvanātha, the twentythird Tirthankara. Temples, pillars and other monuments formed an important part of Bhattārakas' work.

6. Instruction

Preservation of manuscripts was the most valuable work done in this age. Works on grammar, medicine, mathematics

and similar technical subjects, which were written by Jain teachers of past, were regularly studied by the disciples of every learned Bhattāraka. Several copies of these works were prepared for this purpose only. The udyāpana ceremony of every Vrata usually consisted of a donation of some manuscript to some Bhattāraka.

7. Social activities

By virtue of their position as a religious teacher Bhattārakas were above the level of caste distinctions. But this aspect of Hindu Culture had so much influence on Jain society that it could not be ignored. Every seat of Bhattārakas was generally associated with one particular caste.

Bhattārakas often arranged long pilgrimages with a large number of followers. In this respect, Srutasāgara Sūri's visit to Gajapantha and various pilgrimages of Devendrakīrti (Third) of Karanja are noteworthy. Bhattārakas sometimes looked after the management of the holy places, for instance, Shri Mahaviṛji was managed by Bhattārakas of Jaipur.

Many times, non-Jain students came to receive in learning from Bhattārakas. The names of Pt. Hāji, Śaiva Mādhyava, Bhūpati Prājña Miśra and Dviya Viśvanātha are notable in this respect.

Bhattārakas were supposed to possess miraculous powers gained through some Mantras. To walk through air, to remove the effect of poison, to make stone-image speak are some of the miracles ascribed to various Bhattārakas.

The Mathas of Bhattārakas were centres of various social functions. This provided an occasion for preservation of various arts. Many references are found to music, painting, sculpture, dancing and other arts.

8. Interrelations

There was no principle for which there could be a serious dispute between different seats of Bhattārakas. Their inter-relations rested entirely on personal attitude. Śrībhūsana of Nanditaṭagāchchha had worst relations with Vādīchadra of Balātkāragana, but Indrabhūsana of the same line had good relations with all.

9. Other religious sects

References are found to various disputes between these Bhattāraka Institution and Vedic scholars, Svetāmbara sect and the Terāpantha. The last was particularly against the system of Bhattārakas. Disputes with Svetāmbaras often resulted from the question of possession of some holy places.

10 Relation with Rulers

No king was following Jainism in the age of Bhattārakas. Some ministers, no doubt, were from Jaina families. There was no hostility with any particular ruler. Jaina society continued its work peacefully even during the reign of all Moghul emperors. Akbar received special honour for his sympathetic attitude. Relations with the Tomar dynasty of Gwalior also seem to be notably good. Visits to courts of various Hindu and Muslim rulers are often referred to.

11. Conclusion

Thus it would be clear that the Bhattāraka tradition played an important part in the history of Mediaeval Jaina society. This book, though containing the account of only a part of the tradition contains references to some 400 Bhattārakas, their 175 disciples, 809 literary compositions, 90 temples, 81 castes; 100 rulers and 200 places. With more sources utilised, their figures can be easily doubled.

The age, as it was, was not very glorious. But some personalities deserve attention. Jaina history will remain incomplete without the mention of Sakalakīrti, Subhachandra and Jnachandra. History of rise gives inspiration. History of downfall gives lessons. Both are necessary for a growing society. With this view, we hope, this topic will receive due attention, though it was so far completely neglected.

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
प्रस्तावना १४	१३	इन्द्रसूयग	ज्ञानसूयग
३०	१९	सि. मा. वर्ष १ ने श्री. गोडे का लेख	सि. मा. वर्ष ४ ट. ९ ने श्री. गोडे का लेख
११२	४	पद्यार्वाद्य ह्युप ।	सुलेन्द्रकीर्ति पद्यार्वाद्य ह्युप ।
११२	८	सुलेन्द्रकीर्ति	सुलेन्द्रकीर्ति
१८७	२०	लघुंक्त ट. ७१२	लघुंक्त ट. २७१
२६१	१४, १५	गोन्देन जयदेन	गोन्देन मावदेन जयदेन
२६३	१३	अ. २ ट. ६०६	अ. २ ट. ६८६
२६९	१०	मा. ७ ट. १६	न. ४९
३०२	२७	वर्नचन्द्र (विद्यालकीर्ति के शिष्य) ५१२-५१३	X
३२३	३०	चिन्तुर ६९	चिन्तुर ३९

प्रस्तावना

१. ऐतिहासिक स्थान

जैन समाज के इतिहास में सामान्य तौर पर तीन कालखण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद करीब ६०० वर्ष तक जैन समाज विकासशील था। अपने मौलिक सिद्धान्तों का विकास और प्रसार करनेके लिए उस समय जैन साधु अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। जनसाधारण से सम्पर्क कायम रहे इस उद्देश से वे परित्रज्या-निरन्तर भ्रमण का अवलम्ब करते थे। मठ, मन्दिर या वाहन, आसनों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तपश्चर्या के उनके नियम भी भगवान् महावीर के आदर्श से बहुत कुछ मिलते जुलते थे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के रूप में साधुओं में बलघारण की प्रथा यद्यपि उस समय भी थी तथापि भगवान् के आदर्श जीवन को वे भूल नहीं सके थे।

ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी से जैन समाज व्यवस्थाप्रिय होने लगी। व्यवस्थापन का यह युग भी करीब ६०० वर्ष चलता रहा। इस युग के आरम्भ में कुन्दकुन्द और घरेसेन आचार्य ने विशाल जैन शास्त्रों को सूत्रबद्ध करने का आरम्भ किया। पाचवीं सदी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने भी अपने आगम शास्त्रबद्ध किये। अनुश्रुति से चली आई पुराण कथाएं इसी समय विमलसुरि, संघदास, कविपरमेश्वर आदि के द्वारा ग्रन्थबद्ध हुईं। तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में भी समन्तमद्र और सिद्धसेन के मौलिक विवेचन को अकलङ्क और हरिभद्र द्वारा इसी युग में सुव्यवस्थित सम्प्रदाय का रूप प्राप्त हुआ। पल्लव, कदम्ब, गग और राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय से इसी युग में मठ और मन्दिरों का निर्माण वेग से हुआ तथा आचार्य परंपराएं सार्वदेशीय रूप छोड़ कर स्थानिक रूप ग्रहण करने लगीं।

नौवीं शताब्दी से जैन समाज का जनसाधारण से सम्पर्क बहुत कम होता गया। भारतके कई प्रदेशोंमें अब यह सिर्फ वैश्यसमाज के एक भाग के रूप में परिणत होने लगी। राजकीय दृष्टि से भी मुस्लिम शासकों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों में स्वभावतः विकास और व्यवस्था की प्रवृत्तिया पीछे रह गईं और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति को ही प्राधान्य मिलने लगा। किसी युगप्रवर्तक नेता के अभाव से यह संरक्षणात्मक प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यापक होती गईं और अन्त में उस ने विकासशीलता को समाप्त कर दिया। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप साधुसंघ में भट्टारकसम्प्रदाय उत्पन्न हुए और बड़े। भट्टारकों के

पूरे कार्य पर इसी मनोवृत्ति का प्रभाव मिलता है। एकदृष्टि से यह प्रवृत्ति समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी थी। यह प्रवृत्ति न होने के कारण ही बौद्ध धर्मावलम्बी समाज भारत से नष्ट हो गईं यद्यपि उस का सामर्थ्य जैन समाज से अपेक्षाकृत अधिक था।

२. उत्पत्ति और पार्श्वभूमि


उपर्युक्त तीन कालखंडों में पहले विकासशील युग के इतिहास के साधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। इस युग में दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों संघों में एक एक ही आचार्य परम्परा का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ है। स्थूलतः देखा जाय तो दक्षिणभारत में दिगम्बर सम्प्रदाय और उत्तर भारत में श्वेताम्बर सम्प्रदाय कार्यशील रहा था। दिगम्बर परम्परा में भगवान् महावीर के बाद गौतम-इन्द्रभूति, सुधर्मरवामी लोहार्य, जम्बूस्वामी, धिष्णुनन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, विगाख, प्रौष्ठिल, श्रत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजय, वुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन, कसाचार्य, सुभद्र, यज्ञोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य इन आचार्यों को श्रुतधर कहा जाता है और इन का सम्मिलित समय ६८३ वर्ष कहा गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रायः इतने ही समय में आर्य जम्बूस्वामी के बाद प्रभव, गन्धमव, यज्ञोभद्र, संभूतिविजय, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महागिरि, सुहस्ति, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, इन्द्रदिन, दिन्न, सिंहगिरि और वज्रस्वामी इन आचार्यों का उल्लेख पाया जाता है। इसी समय यद्यपि यापनीय संघ की तीसरी परम्परा भी हो गई है, तथापि उसकी ऐसी कोई व्यवस्थित परम्परा का निर्देश नहीं मिलता है।

इस पहले युग के अन्त से ही दूसरे युग की विभिन्न परम्पराओं का आरम्भ होता है जिन का आगे चल कर तीसरे युग के विभिन्न भट्टारकसम्प्रदायों में रूपांतर हुआ। इस परम्परा-विस्तार का प्रमुख कारण स्थानभेद था और कहीं कहीं कुछ आचरण के फरक से भी उसे बल मिला है। यद्यपि इस दूसरे युग का इतिहास इस ग्रन्थ का प्रमुख विषय नहीं है, तथापि पार्श्वभूमि के तौर पर इस परम्परा-विस्तार को निम्न तालिका के रूप में अंकित किया जा सकता है। यह तालिका प्रधानरूप से पट्टावलियों के अवलोकन से बनाई गई है और इस लिए अन्तिम

१ घबला भाग १ पृ ६६ आदि.

२ तपागच्छ पट्टावली (जैन साहित्य संगोष्ठी खंड १ अंक ३) आदि

रूप से निर्णीत नहीं है। फिर भी ज्ञान की वर्तमान स्थिति में यह काफी तथ्यपूर्ण कही जा सकती है।



उत्तरवर्ती सम्प्रदायों की पट्टावलियों से इस द्वितीय-युग की परम्परा निश्चित करना सम्भव नहीं है क्योंकि उन में अन्य सम्प्रदायों के अच्छे आचार्यों को अपनी ही परम्परा का घोषित करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वीरनन्दि, मेघचन्द्र आदि देशीयगण के आचार्यों के नाम बलात्कार गण की पट्टावलियों में तथा जिनसेन, वीरसेन आदि सेनगण के आचार्यों के नाम लाडबागड गच्छ की पट्टावली में पाये जाते हैं यह इसी का परिणाम है। दूसरी चीज यह है कि पट्टावली लेखकों का समय इन आचार्यों के समय से बहुत बाद का है और इस लिए कितनी ही चमत्कारिक कथाएं उन के द्वारा विभिन्न आचार्यों के लिए गढ़ी गई हैं। पट्टावलियों में दिया हुआ उन का समय और क्रम भी इसी लिए विश्वासयोग्य नहीं है।

इस ग्रन्थ के विभिन्न प्रकरणों के प्रारंभिक परिच्छेदों से ज्ञात होगा कि अधिकांश भट्टारक परम्पराओं के ऐतिहासिक उल्लेख नौवीं शताब्दी से प्राप्त होते हैं। इस लिए भट्टारकप्रथा अमुक आचार्य ने अमुक समय स्थापन की यह कहना असम्भव है। श्रुतसागर सुरि ने कहा है कि वसन्तकीर्ति ने यह प्रथा आरम्भ की है^१। किन्तु यह सिर्फ उस विशिष्ट परम्परा के लिए ही सही है। भट्टारक सम्प्रदाय की विशिष्ट आचरण पद्धतियों धीरे धीरे किन्तु बहुत पहले से ही अस्तित्व में आ चुकी थीं यह प्रस्तावना के अगले विभाग से स्पष्ट होगा। भट्टारक सम्प्रदाय में ये पद्धतियां तेरहवीं सदी के कनीब स्थिर हुई इतना ही कहा जा सकता है।

३. परम्पराभेद और विशिष्ट आचरण

साधुसंघ के साधारण स्थिति से यह परम्परा पृथक् हुई इस का पहला कारण वल्लधारण था। यह पद्धति बहुत पहले ही विवाद का कारण बन चुकी थी। भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य केशी कुमारभमण ने गणधर इन्द्रभूति गौतम से इस पद्धति के विषय में प्रश्न किया था। इस के परिणाम स्वरूप तात्कालिक रूप से यह विवाद शान्त हुआ। किन्तु वल्लधारी साधुओं का अस्तित्व बना रहा। आगे चल कर आर्य महागिरि और शिवभूति के समय फिर यह विवाद जाग्रत होता गया और अन्त में जब आचार्य कुन्दकुन्द के नेतृत्व में संघ ने दिगम्बरत्व का सम्पूर्ण समर्पण किया तब हमेशा के लिए श्वेताम्बर और दिगम्बर ये भेद दृढ़ हो गये। इस के बावजूद भी दिगम्बरसम्प्रदाय में फिर वल्लधारण की प्रथा शुरु हुई। इसे मुस्लिम राज्य काल में और अधिक बल मिला और आखिर वह भट्टारकों के लिए अपवाद मार्ग के रूप में मान्य कर ली गई। व्यवहार में यद्यपि वल्ल का उपयोग भट्टारकों के लिए समर्थनीय ठहरा दिया गया तथापि तत्त्व की दृष्टि से नम्रता ही पूज्य मानी जाती रही। भट्टारकपद प्राप्ति के समय कुछ क्षणों के लिए क्यों न हो, नम्र अवस्था धारण करना आवश्यक रहा। कुछ भट्टारक मृत्यु समीप आने पर नम्र अवस्था ले कर सल्लेखना का स्वीकार करते रहे^२। नम्रता के इस आदर के कारण ही भट्टारकपरम्परा श्वेताम्बर सम्प्रदाय से पृथक्ना घोषित करती गयी।

भट्टारकपरम्परा का दूसरा विशिष्ट आचरण मठ और मन्दिरों का निवास-स्थान के रूप में निर्माण और उपयोग था। इसी के अनुपंग से भूमिदान का

१ लेखांक २२५ देखिए.

२ उत्तराध्ययन सूत्र, केशीगोयमिज अध्ययन.

३ देखिए लेखांक १९०

स्वीकार करने और खेती आदि की व्यवस्था भी महारक देखने लगे थे। संवत् ५२६ में वज्रनन्दि ने द्राविड संघ की स्थापना की उस के ये ही मुख्य कारण थे ऐसा देवसेन ने कहा है।^१ शक ६३४ में रविकीर्ति ने ऐहोले ग्राम में जो मन्दिर बनवाया वह इस पद्धति का पर्याप्त पुराना उदाहरण है यद्यपि भूमिस्वीकार के उल्लेख इस से भी पहले के मिले हैं।^२

इन दो प्रथाओं के कारण महारकों का स्वरूप साधुत्व से अधिक शासकत्व की ओर हल्का और अन्त में यह प्रकट रूप से स्वीकार भी किया गया। वे अपने को राजगुरु कहलाते थे और राजा के समान ही पालकी, छत्र, चामर, गादी आदि का उपयोग करते थे।^३ वस्त्रों में भी राजा के योग्य जरी आदि से सुशोभित वस्त्र लट्ट हुए थे। कमण्डलु और पिच्छी में सोने चादी का उपयोग होने लगा था। यात्रा के समय राजा के समान ही सेवक सेविकाओं और गाड़ी घोड़ों का इंतजाम रखा जाता था तथा अपने अपने अधिकारक्षेत्र का रक्षण भी उसी आग्रह से किया जाता था। इसी कारण महारकों का पट्टाभिवेक राज्याभिवेक की तरह बड़ी धूमधाम से होता था।^४ इस के लिए पर्याप्त धन खर्च किया जाता था जो भक्त श्रावकोंमें से कोई एक करता था। इस राजवैभव की आकांक्षा ही महारक पीठों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण रही यद्यपि उन में तत्त्व की दृष्टि से कोई मतभेद होने का प्रसंग ही नहीं आया।

विभिन्न पिच्छियों का उपयोग विभिन्न परम्पराओं का प्रतीक रहा है। सेन गण और बलात्कार गण में मयूरपिच्छ का उपयोग होता था,^५ लाडबागड गच्छ में चामर का पिच्छी जैसा उपयोग होता था, नन्दीतट गच्छ में भी यही प्रथा थी^६ और माथुर गच्छ में कोई पिच्छी नहीं होती थी।^७ इतिहास से ज्ञात होता है कि अन्यान्य आचार्यों ने बलाकपिच्छ और गृध्रपिच्छ का भी उपयोग किया है^८ और उसे निन्दनीय नहीं माना गया किन्तु महारक काल में अक्सर इस छोटी सी चीज को लेकर कट्ट शब्दों का प्रयोग होता रहा है।

महारकों के कार्य के विषय में अगले विभागों में चर्चा की गई है। उन के अतिरिक्त एक विविष्ट रीति का उल्लेख कारंजा के म. शान्तिसेन के विषय में हुआ

१ दर्शनसार २४-२८. २ मर्करा ताम्रपत्र आदि. ३ देखिए लेखाक ७२५.
४ देखिए लेखाक ६७२. ५ देखिए लेखाक ५१. ६ देखिए लेखाक ६४३.
७ देखिए लेखाक ५४१. ८ जैनशिलालेख संग्रह भा. १ भूमिका पृ. १३१.

है। इस के अनुसार आप ने बड़े समारोह से समुद्रतट पर स्नान किया था।^१

४. स्थल और काल

साधुत्व के नाते भट्टारकों का आवागमन भारत के प्रायः सभी भागों में होता था। दक्षिण में मूडचिद्री, श्रवणबेलगोल, कारकल, हुंच इन स्थानों पर देशीय गण आदि शाखाओं के पीठ स्थापित हुए थे। प्रसूत ग्रन्थ में वर्णित भट्टारक भी यात्रा के लिए श्रवणबेलगोलतक आते जाते थे यद्यपि इस प्रदेश से उन के कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं थे। इस से दक्षिण में तमिलनाड और केरल ये दो प्रदेश प्राचीन समय जैनधर्म के प्रभाव क्षेत्र में रहे थे किन्तु भट्टारकों का कोई सम्बन्ध उन से नहीं था।

पूर्व भारत में सम्मेदगिखर, चम्पापुर, पावापुर और प्रयाग की यात्रा के लिए विहार होता था।^२ वैसे इस प्रदेश में न तो कोई भट्टारकपीठ था, न उन का शिष्यवर्ग था। आरा के नजदीक मसाद में काष्ठासंघ के कुछ उल्लेख मिले हैं।^३ उन के अतिरिक्त पूर्व भारत से प्रायः कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं था।

महाराष्ट्र में मलखेड का पीठ बलात्कारगण का केन्द्र था। इसी की दो शाखाएं कारंजा और लातूर में स्थापित हुईं, जिन का वर्णन प्रकरण ३ और ४ में हुआ है। कोल्हापुर में छदमीसेन और जिनसेन इन दो भट्टारकों की परम्पराएँ थीं किन्तु उन का इस ग्रन्थ में सम्मिलित करने योग्य वृत्तान्त हमें प्राप्त नहीं हो सका। ये दोनों भट्टारक अपने को सेनगण के पट्टाधीश मानते हैं। बलात्कारगण के अतिरिक्त कारंजा में सेनगण और लाडवागड गच्छ के भी पीठ थे। इन पीठ-स्थानों के अतिरिक्त विदर्भ के रिद्धिपुर, बाळापुर, रामटेक, अमरावती, आसगाव, एलिचपुर, नागपुर आदि स्थानों में तथा मराठवाडा के जिन्तुर, नादेड, देवगिरि, पैठन, शिरड आदि स्थानों में इन पांच पीठों के शिष्यवर्ग अच्छी संख्या में रहते थे। मूल उल्लेखों में इस भाग का उल्लेख प्रायः बराट, वैराट, वन्हाड आदि नामों से हुआ है। मलखेड को मलयखेड और कारंजा को कार्यरंजकपुर की संज्ञा मिली है।

गुजरात में सूरत बलात्कार गण का और सोबित्रा नन्दीतट गच्छ का केन्द्र था। समुद्रतटवर्ती इलाकों में नवसारी, भडौच, खंभात, जाबूसर, घोषा आदि स्थानों में भट्टारकों का अच्छा प्रभाव था। उत्तर गुजरात में ईडर का पीठ महत्त्व-

१ देखिए लेखाक ७५, २ देखिए लेखाक ५१४, १२५ आदि, ३ देखिए लेखाक ४३९ आदि, ४ देखिए लेखाक ५८६ आदि.

पूर्ण था। सौराष्ट्र में गिरनार और गनुंचय की यात्रा के लिए भट्टारकों का आगमन होता था किन्तु वहाँ कोई स्थायी पीठ स्थापित नहीं हुआ।

मालवा में धारा नगरी प्राचीन समय में जैन धर्म का केन्द्र था। उत्तरवर्ती काल में इसी प्रदेश में सागवाडा और अदेर के पीठ स्थापित हुए। सागवाडा की ही एक परम्परा आगे चल कर ईडर में स्थायी हुई। महुआ, झुंगरपुर, इन्दौर आदि स्थान इन्हीं पीठों के प्रभाव में थे। इसी के उत्तर में ग्वालियर और सोनागिरि में माथुर गच्छ और बलात्कार गण के केन्द्र थे। देवगढ़, ललितपुर आदि स्थानों में इन का प्रभाव था।

राजस्थान में नागौर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़, भानपुर और जेरहट में बलात्कार गण के केन्द्र थे। हिसार में माथुर गच्छ का प्रधान पीठ था। पञ्जाब में कुछ स्थानों में पाई जाने वाली मूर्तियों के अतिरिक्त भट्टारकों का कोई सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता। दिल्ली से समय समय पर प्रायः सभी पीठों के भट्टारकों ने अपना सम्बन्ध जोड़ा है। किन्तु मेरठ और हस्तिनापुर के कुछ ग्रामों के अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश से भी भट्टारकों का कोई खास सम्बन्ध नहीं था।

प्रत्येक पीठ के प्रकरण के अन्त में दिये गए कालपट से उन के समय का स्पष्ट निर्देश होता है। मोटे तौर पर देखा जाय तो सेनगण के उल्लेख नौवीं सदी से आरम्भ होते हैं तथा उस की मध्ययुगीन परम्परा १६ वीं सदी से ज्ञात होती है। बलात्कार गण के उल्लेखों का आरम्भ १० वीं सदी से तथा मध्ययुगीन परम्परा का आरम्भ १३ वीं सदी से होता है। काष्ठासंघ के विभिन्न गच्छों के प्राचीन उल्लेख ८ वीं सदी से एवं मध्ययुगीन परम्पराओं के उल्लेख १४ वीं सदी से प्राप्त हो सके हैं। प्रत्येक पीठ का विशेष प्रभाव किस कालाब्दी में रहा यह कालपटों में अच्छी तरह देखा जा सकता है।

५. कार्य-मूर्ति प्रतिष्ठा

मूल ग्रन्थ का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि भट्टारकों के जीवन का सब से अधिक विप्लव कार्य मूर्ति और मन्दिरों की प्रतिष्ठा यही था। इस पूरे युग में मूर्तिप्रतिष्ठा का यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आज के समाज को उन सब मूर्तियों का रक्षक करना भी दुष्कर हुआ है। इस का एक कारण यह है कि प्रतिष्ठा उत्सव को धार्मिक से अधिक सामाजिक रूप प्राप्त हुआ था। जिस प्रतिष्ठा का निर्देश इस ग्रन्थ के दो पंक्तियों के मूर्तिरेख में हुआ है उस के लिए भी कम से कम हजार व्यक्तियों को इकट्ठे आने का मौका मिलता था।

प्रतिष्ठाकर्ता को समाज का नेतृत्व अनायास ही प्राप्त होता था और उची, प्रतिष्ठा में यदि गजरथ भी हो तब तो संघपति का पद भी उसे विधिवत् दिया जाता था। सामाजिक मान्यता की इस अभिलाषा के साथ ही मुस्लिम शासकों की मूर्तिमंजकता की प्रतिक्रिया के रूप से भी जैन समाज में मूर्ति प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला।

इस युग में प्रतिष्ठित की गई मूर्तियां साधारणतः पापाण और धातुओं की होती थीं। धातु मूर्तियों का प्रमाण कुछ बढ़ता गया है। तीर्थंकर, नन्दीश्वर, पंचमेरू, सहस्रकूट, सरस्वती, पद्मावती आदि यक्षिणी, क्षेत्रपाल और गुरु ये मूर्तियों के प्रमुख प्रकार थे। तीर्थंकरों की मूर्तियां पद्मासन और कायोत्सर्ग इन दो मुद्राओं में होती थीं। इन में पार्श्वनाथ की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में और विविध रूपों में पाई जाती हैं। नागफणा के ऊपर, नीचे, आगे या वाजू में होने से पार्श्वनाथ की मूर्तियों में यह विविधता पाई जाती है। शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ और अरुनाथ इन तीन तीर्थंकरों की संयुक्त मूर्ति को रत्नत्रयमूर्ति कहा जाता है। किसी एक तीर्थंकर की मुख्य मूर्ति के ऊपर और दोनो ओर अन्य तेईस तीर्थंकरों की छोटी मूर्तियां हो तो उसे चौबीसी मूर्ति कहा जाता है। इसी प्रकार अनन्तनाथ तक के चौदह तीर्थंकरों की संयुक्त मूर्तियां भी पाई जाती हैं। और इसका खास उपयोग अनन्तचतुर्दशी पूजामें किया जाता है। सामान्य तौर पर इस युग की तीर्थंकर मूर्तियां सादी होती थीं। मूर्ति के साथ ही भामंडल, छत्र, सिंहासन आदि भी उकेरने की पहली पद्धति इस युग में प्रायः छुप्त हो गई। मूर्तियों का विस्तार दो इंच से बीस फुट तक विभिन्न प्रकार का रहा है फिर भी अधिकांश मूर्तियां एक फुट ऊंचाई की हैं। मूर्तियों का निर्माण मुख्य तौर पर राजस्थान में होता था।

यंत्रों की प्रतिष्ठा यह इस काल की विशेष निर्मिति है। दशलक्षण धर्म, रत्नत्रय, षोडशकारण भावना, द्वादशांग आगम, नव ग्रह, ऋषिमंडल और सकलीकरण के यंत्र ये इन के विविध प्रकार थे। सभी धर्मतत्त्वों को मूर्तरूप में बांधने की प्रवृत्ति ही इस यंत्रप्रतिष्ठा का मूलभूत कारण है।

पहले तीर्थंकरों के साथ अनुचरों के रूप में यक्ष आदि देवताओं की मूर्तियों का निर्माण होता था। इस युग में उन की रत्नत्रय मूर्तियां बनने लगीं। यक्षों में धरणेन्द्र और क्षेत्रपाल प्रमुख हैं। यक्षिणियों में चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, कृष्णाक्षिनी, अंबिका और पद्मावती ये प्रमुख हैं। ज्ञान का प्रमाण जैसे कम होता गया

वैसे इन सब की मूर्तियों को पञ्चावती के ही विभिन्न रूप माना जाने लगा, और अन्त में काली और दुर्गा जैसी अन्य या स्थानिक सम्प्रदाय की देवताओं के साथ भी इन की एकता होने लगी थी। कुक्कुट आदि वाहन, धनुष आदि शस्त्र इत्यादि बाह्य चिन्हों से यह गलत एकता आसानी से स्थापित हो सकी जिस का अब भी जैनसमाज में काफी प्रभाव है।

प्रतिष्ठाओं के लिए वैसे कोई महीना वर्ज्य नहीं था। फिर भी वैशाख में सब से अधिक प्रतिष्ठाएँ हुईं। इस का कारण शायद यह था कि अक्षय्य तृतीया एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना जाता था। उस दिन के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। यातायात आदि की दृष्टि से भी यही मौसम ऐसे उत्सवों के लिए अनुकूल भी होता है।

संख्या की दृष्टि से दिव्यी शाखा के म. जिनचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ सब से अधिक हैं। प्रतिष्ठाकर्ता सेठ जीवराज पापडीवाल के प्रयत्नों से ये हजारों मूर्तियाँ भारत के कोने कोने में पहुँची हैं। इन की प्रतिष्ठा संवत् १५४८ की अभयतृतीया को हुई थी। विशालता की दृष्टि से ग्वालियर और चंदेरी की मूर्तियाँ उल्लेखयोग्य हैं। कारंजा के उपान्त्य म. देवेन्द्रकीर्ति ने भी रामटेक, नागपुर आदि स्थानों में विशाल मूर्तियाँ स्थापित की हैं।

मूर्तियों के पादपीठ के लेख बहुधा द्वयी फूटी संस्कृत में लिखे जाते थे। क्वचित् हिन्दी, मराठी आदि लोकभाषाओं का भी उपयोग उन के लिए हुआ है। उन का विस्तार मूर्ति के विस्तार के अनुरूप होता था।^१ सर्वाधिक विस्तृत लेख में समय, प्रतिष्ठाकर्ता सेठ की वंशपरम्परा, प्रतिष्ठासंचालक भट्टारक की गुरुपरम्परा, स्थान, स्थानीय और प्रादेशिक शासक तथा एकाध मंगल वाक्य इन का निर्देश होता था।

६. कार्य-ग्रन्थलेखन और संरक्षण

भट्टारक युग का ग्रन्थलेखन मुख्य रूप से पिछले युग के ग्रन्थों के संक्षेप या सज्ञान्तर के रूप में था। कोई नई मौलिक प्रवृत्ति उस में नहीं थी। पुराण, कथा और पूजापाठ इन तीन प्रकारों की रचनाएँ संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं। कर्मशास्त्र, अध्यात्म आदि गम्भीर विषयों के ग्रन्थों पर कुछ टीकाओं के अतिरिक्त अन्य लेखन नहीं हुआ।

१ लेखों के विस्तारभेद का नमूना देखिए-जैन सिद्धान्त भास्करव. ७, पृ. १६.

पुराण और कथाएं साधारणतः जिनसेन कृत हरिवंशपुराण, रविषेण कृत पद्मपुराण तथा जिनसेन कृत महापुराण के आधार पर लिखी गईं। संस्कृत में ईडर शाखा के म. सकलकीर्ति और म. शुभचन्द्र के विभिन्न पुराण ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। अपभ्रंश में माथुर गच्छ के म. अमरकीर्ति, म. यशःकीर्ति और पंडित रघू की रचनाएं अच्छी हैं। हिन्दी में शालिवाहन, खुशालदास आदि कवि प्रमुख हैं। राजस्थानी में ब्रह्म जिनदास के रास ग्रन्थ बहुत सुन्दर हैं। गुजराती में सूरत शाखा के म. वादिचन्द्र, जयसागर और नन्दीतट गच्छ के धनसागर तथा म. चंद्रकीर्ति की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। मराठी में पार्श्वकीर्ति, गंगादास, जिनसागर और महतिसागर ये चार लेखक विशेष लोकप्रिय हो सके थे।

पूजापाठों में अष्टक, स्तोत्र, जयमाला, आरती, उद्यापन ये मुख्य प्रकार थे। जिन मूर्तियों और यंत्रों की प्रतिष्ठा भट्टारकों द्वारा हुई उन सब के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ये पूजापाठ नितान्त आवश्यक थे। पूजनीय व्यक्ति या तत्त्व की अपेक्षा पूजा के द्रव्य का अधिक वर्णन करना इस युग के पूजापाठों की विशेषता कही जा सकती है। इन की दूसरी विशेषता इन की गेयता है। छोटे बड़े विविध मात्राओं के छंदों में रची होने से बहुधा सामान्य आशय की पूजा भी बहुत आकर्षक मालूम पड़ती थी। गुजराती और राजस्थानी के पुराण ग्रन्थों में और खास कर रास ग्रन्थों में भी यह गेयता मौजूद है जिस से उन की लोकप्रियता बढ़ी है।

इन प्रमुख विभागों के बाद न्यायशास्त्र में म. धर्मभूषण कृत न्यायदीपिका और म. शुभचन्द्र कृत संग्रहियदनविदारण उल्लेखनीय हैं। आचारधर्म पर षट्कर्मोपदेश, धर्मसंग्रह और त्रैवर्णिकाचार ये ग्रन्थ इस युग के प्रातिनिधिक कहे जा सकते हैं। सकलकीर्ति के मूलआचारप्रदीप में मुनिधर्म का वर्णन हुआ है। कर्मशास्त्र पर ज्ञानभूषण और सुमतिकीर्ति की कर्मकाण्ड टीका एकमात्र उल्लेखयोग्य ग्रन्थ है। प्राकृत का एक व्याकरण म. शुभचन्द्र ने और दूसरा एक श्रुतसागरसूरि ने लिखा है। अकारान्त क्रम से लिखा हुआ संस्कृत शब्दों का कोष विश्वलोचन श्रीधरसेन की एकमात्र रचना है। हिन्दी में भगवतीदास ने अनंकार्यनाममाला कोष लिखा है। ज्योतिष और वैद्यक पर भी उन के ही ग्रन्थ हैं। गणितज्योतिष में म. ज्ञानभूषण के कार्य का उल्लेख मिलता है किन्तु उन के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। इन के अतिरिक्त कैलास, सप्रथसरण आदि अनेक स्फुट विषयों पर छोटी छोटी कविताओं की रचना की गई है।

प्राचीन ग्रन्थों के हस्तलिखितों की रक्षा यह भट्टारकों के कार्य का सब सं

श्रेष्ठ अंग है। व्रतों के उद्यापन आदि के अवसर पर नियमित रूप से एकाध प्राचीन ग्रन्थ की नई प्रति लिखा कर किसी मुनि या आर्यिका को दान दी जाती थी। गणितसारसंग्रह जैसे पाठ्य पुस्तकों की कई प्रतियाँ शिष्यों के लिए तैयार की जाती थीं। पुराने हस्तलिखित खरीद कर उन का संग्रह किया जाता था। पुराने संग्रहों को समय समय पर ठीक किया जाता था। ग्रन्थों की भाषा कठिन हो तो उन के समासों में टिप्पण लगा कर पढ़ने के लिए साहाय्य किया जाता था। हस्त-लिखितों की अन्तिम प्रणस्तियों का ऐतिहासिक महत्त्व सर्वमान्य है। इस ग्रन्थ में सम्मिलित समयसार और पंचास्तिकाय की प्रतियों की प्रणस्तियाँ नमूने के तौर पर देखी जा सकती हैं। गणितसारसंग्रह की प्रतियाँ भी प्रातिनिधिक हैं।

७. कार्य- शिष्यपरम्परा

जैन समाज में विद्याध्ययन की व्यवस्था कुलपरम्परा पर आधारित नहीं थी। शायद इसी लिए वह ब्राह्मणपरम्परा जितनी सुदृढ़ नहीं रह सकी। यह कमी दूर करने के लिए हमेशा शिष्य परम्पराओं के विस्तार का प्रयत्न जैन साधुओं द्वारा किया गया। भट्टारक सम्प्रदाय भी इस प्रवृत्ति को निभाता रहा। ग्रन्थ के मूल पाठ से स्पष्ट होगा कि इस कार्य में भट्टारकों ने काफी सफलता प्राप्त की। ब्रह्म जिनदास, श्रुतसागरसूरी, पण्डित राजमल्ल आदि भट्टारकशिष्यों के नाम उन के गुरुओं से भी अधिक स्मरणीय हुए हैं।

व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के फलस्वरूप जिस प्रकार भट्टारक पीठों की वृद्धि हुई उसी प्रकार शिष्य परम्पराओं का भी पृथक् अस्तित्व रह सका। अनेक बार देखा गया है कि भट्टारकों के जो शिष्य पट्टाभिषिक्त नहीं हुए थे उन की स्वतन्त्र शिष्य परम्पराएं छह सात पीढ़ियों तक चलतीं रहीं। गणितसारसंग्रह और शब्दार्णव-चन्द्रिका की प्रणस्तियों में इस के अच्छे उदाहरण मिलते हैं।

विभिन्न भट्टारक पीठों में सौहार्द की रक्षा करने में भी शिष्यपरम्परा का महत्त्वपूर्ण उपयोग हुआ। दक्षिण के पण्डितदेव और नागचन्द्र जैसे विद्वानों का उत्तर के जिनचन्द्र और ज्ञानभूषण जैसे भट्टारकों से सहकार्य हुआ वह इसी का उदाहरण है। ब्रह्म शान्तिदास के मूरन और ईडर इन दोनों पीठों से अच्छे सम्बन्ध थे। इसी प्रकार पण्डित राजमल्ल भी माथुर गच्छ की दो भिन्न शाखाओं से एक ही समय सम्बन्ध रह सके थे। क्राज के लाडबागड गच्छ के कथि पामो जैसे शिष्यों ने नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए थे। इस दृष्टि से परस्पर

सम्बन्ध और अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध इन दो विभागों में आगे और विचार किया गया है।

जैनेतर सम्प्रदायों के विद्वान भी कई बार भट्टारकों के शिष्य वर्ग में सम्मिलित हुए थे। द्विज विश्वनाथ म. इन्द्रभूषण के शिष्य थे। म. राजकीर्ति के शिष्यों में पण्डित हाजी का उल्लेख हुआ है। गोमटस्वामीस्तोत्र के कर्ता भूपति ग्राहमिश्र भी जैन विद्वान प्रतीत नहीं होते। इस दृष्टि का भी विशेष विवरण अगले विभागों में होगा।

जैनेन्द्र व्याकरण, गणितसारसंग्रह, कल्याणकारक जैसे शास्त्रीय ग्रन्थों को जैनेतर समाजों में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था जिस से उन का पठन पाठन कई बार छूतप्राय हो गया। इस संकट में से ये ग्रन्थ जीवित रह सके इसका अधिकांश श्रेय भट्टारकों के शिष्यवर्ग को ही है। इन्हीं ने इन ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करा कर उन का अभ्यास किया और उन की आयु की वृद्धि की।

८. कार्य-जातिसंघटना

जैन समाज में इस वक्त जो जातियों हैं इन की स्थापना दसवीं सदी के करीब हुई ऐसा विद्वानों का अनुमान है। इन जातियों में अधिकांश के नाम स्थान या प्रदेश पर आधारित हैं। बधेरा गाव से बधेरावाल, खड्डेला से खंडेलावाल, पद्मावती से पद्मावती पल्लीवाल इत्यादि नाम रूढ हुए हैं। इस युग के हिन्दू समाज के प्रभाव से जैन समाज में भी यह जातिसंस्था अति नियमित और कठोर हुई। खानपान, विवाहसंबन्ध, व्यवसाय और ऊँच नीच की कल्पना इन चारों बातों में जाति का ही निर्णायक महत्त्व होता था और बहिष्कार के शस्त्र से वह बराबर कायम रखा गया। अब इन चारों में सिर्फ विवाहसंबन्ध पर ही जाति का प्रभाव है और वह भी कई जगह ढीला पड़ चुका है।

साधुपद पर प्रतिष्ठित होने के नाते भट्टारक जातिभेद से ऊपर होते थे। फिर भी बिरुदावलियों में उन की जाति का अनेक बार उल्लेख हुआ है। जाति संस्था के व्यापक प्रभाव का ही यह परिणाम है। इसी प्रकार वद्यपि भट्टारकों के शिष्यवर्ग में सम्मिलित होने के लिए किसी विशिष्ट जाति का होना आवश्यक नहीं था, तथापि बहुतायत से एक भट्टारक पीठ के साथ किसी एक ही विशिष्ट जाति का संबन्ध रहता था। बलात्कार गण की मृत शाला से हुमड जाति, अंदर शाखा से लमेचू जाति, जेगट शाखा से परवार जाति तथा दिखी जयपुर शाखा से

खंडेलवाल जाति का विशेष सम्बन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार काष्ठासंघ के माथुर गच्छ के अधिकांश अनुयायी अगरवाल जाति के, नन्दीतट गच्छ के अनुयायी हूमड जाति के और लडवागड गच्छ के अनुयायी बघेरवाल जाति के थे।

अनेक जातियों में भाटों द्वारा जाति के सब घरानों का वृत्तान्त संग्रहित करने की प्रथा थी। ऐसे वृत्तान्तों में अक्सर किसी प्राचीन आचार्य के द्वारा उस जाति की स्थापना होने की कहानी मिलती है। नन्दीतट गच्छ के प्रकरण से ज्ञात होगा कि नरसिंहपुरा जाति की स्थापना का भय रामसेन को दिया जाता था तथा भट्टपुरा जाति उन के शिष्य नेमिसेन द्वारा स्थापित मानी जाती थी। ऐतिहासिक काल में भी सूत के भ. देवेन्द्रकीर्ति (प्रथम) को रत्नाकर जाति का संस्थापक कहा गया है। बघेरवाल जाति में मूलसंघ के आचार्य रामसेन द्वारा और काष्ठासंघ के आचार्य लोहद्वारा धर्म की स्थापना हुई थी ऐसी कथा मिलती है। कई स्थानों पर जैनतर समाजों में धर्मोपदेश दे कर नई जातियों की स्थापना की गई इसी का यह उदाहरण कहा जाता है। इतिहाससिद्ध न होने पर भी इन कथाओं को भावना की दृष्टि से कुछ महत्त्व अवश्य है।

प्रत्येक जाति में नियत सख्या के कुछ गोत्र थे। मूर्तिलेल आदि में बहुधा इन का उल्लेख हुआ है। बघेरवाल जाति के पच्चीस गोत्र काष्ठासंघ के और सत्ताईस गोत्र मूलसंघ के अनुयायी थे। नागौर शाखा के भट्टारक बहुधा लंडेलवाल जाति के विभिन्न गोत्रों से लिए गए थे। लमेचू, परवार, हूमड आदि जातियों में भी गोत्रों के उल्लेख मिलते हैं। हूमड जाति में लघुशाखा और वृद्धशाखा ऐसे दो उपभेद थे। इन्हें ही दस्सा और बीसा हूमड कहते हैं। इसी प्रकार परवार जाति में अठसले, चौसले आदि भेद थे। ये भेद विवाह के समय कितने गोत्रों का विचार किया जाय इस पर आधारित थे। श्रीमाल, ओसवाल आदि कुछ जातियां श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही हैं। किन्तु इन के भी कुछ उल्लेख दिगम्बर भट्टारकों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों के लेखों में मिलते हैं।

९. कार्य-तीर्थयात्रा और व्यवस्था

तीर्थक्षेत्रों की यात्रा और व्यवस्था ये मध्ययुगीन जैन समाज के धार्मिक जीवन के प्रमुख अंग थे। तीर्थक्षेत्रों के 'दो प्रकार किये जाते हैं। जहां किसी तीर्थंकर या मुनि को निर्वाण प्राप्त हुआ हो उसे सिद्धक्षेत्र कहते हैं। जहां किसी व्यक्ति, मूर्ति, या चमत्कार के कारण क्षेत्र स्थापित हुआ हो उसे अतिशयक्षेत्र

कहते हैं। सिद्धक्षेत्रों में पश्चिम में गिगनार और शत्रुंजय विशेष प्रसिद्ध थे। दक्षिण में गजपंथ और नांगीतुंगी 'प्रसिद्ध' थे। पूर्व में सम्पेदशिलर, चम्पापुरी और पावापुरी ये सर्वमान्य सिद्धक्षेत्र थे। मध्य भारत में सोनागिरि और चूलगिरि (बडवानी) को कुछ महत्त्व था। अतिशयक्षेत्रों में सुदूर दक्षिण में श्रवणबेलगोल की गोमेश्वर की महामूर्ति सब से अधिक प्रसिद्ध थी। गजस्थान में धूलिया के केशरियानाथजी की कीर्ति सर्वाधिक थी। हैद्राबाद राज्य के नागिक्यम्बामी भी काफी लोकप्रिय थे।

कांगड़ा के सेनगण के पट्टावीर्यों में म. जिनसेन और नंग्रसेन ने लम्बी यात्राएं कीं। वहीं के ब्याफार गण के पट्टावीर्य देवेन्द्रकीर्ति (तृतीय) ने पश्चिमी क्षेत्रों की छह यात्राएं कीं। इंदर शाला के म. मकरकीर्ति (प्रथम) और म. पद्मनन्दि की शत्रुंजय यात्राएं स्मरणीय रहीं। मानपुर शाला के म. ग्लकीर्ति के शिष्यों ने दक्षिण की यात्रा की। मूरत शाला के म. विद्यानन्दि, उन के शिष्य श्रुनसागरजी और म. इन्द्रभूषण ने विस्तृत यात्राओं का नेतृत्व किया। नन्दीनद गच्छ के म. चन्द्रकीर्ति और म. इन्द्रभूषण ने दक्षिण की विस्तृत यात्राएं कीं। इन के अतिरिक्त छोटी मोटी अनेक यात्राओं के उल्लेख मिलते हैं जो भौगोलिक नाम सूची में पूरी तरह संकल्पित किये गए हैं। परस्परसम्बंध के निरूपण में कुछ तीर्थयात्राओं पर प्रस्तावना के अगले विभागों में और विचार हुआ है।

नन्दीनद गच्छ के ब्रह्म ज्ञानसागर ने अपने समय के तीर्थक्षेत्रों का वर्णन स्पष्ट कवित्तों में किया है। इस में सिद्धक्षेत्र और अनिशय क्षेत्र मिला कर ७८ क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। इस का सागम अन्वय प्रकाशित हो चुका है। इन्हीं प्रकार जयसागर की तीर्थजयमाला, श्रुनसागर की गवित्रत कथा तथा पट्टाभूतटीका और छत्रसेन की पार्ष्णनाथपूजा में भी अनेक तीर्थक्षेत्रों के उल्लेख हैं। विस्तार भय से ये सब नूट ग्रन्थ में समाविष्ट नहीं किए जा सके। तीर्थक्षेत्रों के इतिहास की दृष्टि से इन का अग्रता महत्त्व है।

नहावीरजी क्षेत्र की व्यवस्था जयपुर शाला के भट्टारकों द्वारा, सोनागिरि की वहीं के भट्टारकों द्वारा तथा केशरियानाथ क्षेत्र की व्यवस्था काछासंघ के भट्टारकों द्वारा होती थी। इस दृष्टिसे विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु होने की संभावना अवश्य है।

१०. कार्य— चमत्कार

मन्त्र तन्त्रों की साधना द्वारा किसी देवी या देव को प्रसन्न कर लेना भट्टारकों का विशेष कार्य माना जाता था। ऐहिक दृष्टि से मुक्त होने के कारण और भावकों में कम सम्बन्ध होने के कारण मुनियों को मन्त्रसाधना करने का निषेध था। भट्टारकों का स्थान समाज के शासक के रूप में होने से उन के लिए मन्त्रसाधना ही समझी जाती थी। सूरत शाखा के म. मल्लिभूषण ने पद्मावती देवी की आराधना की थी, तथा लाहवागड गच्छ के म. महेंद्रसेन ने क्षेत्रपाल को सम्बोधित किया था, ऐसे उल्लेख प्राप्त हुए हैं।

मन्त्रसाधना द्वारा भट्टारकों ने जो चमत्कार किये उन के कुछ उल्लेख प्राप्त हुए हैं। इन में पालकी का आकाश गमन मुख्य है। म. सोमकीर्ति ने पावागढ में और म. मलयकीर्ति ने आतरी में यह चमत्कार किया था। मूरत के अन्तिम भट्टारकों के विषय में भी ऐसी ही अनुश्रुति प्राप्त हुई है। सरस्वती की पापाण मूर्ति के द्वारा दिगम्बर सम्प्रदाय का प्राचीनत्व सिद्ध किया गया यह भी चमत्कारों का अच्छा उदाहरण है। सामान्यतः यह चमत्कार आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा किया गया ऐसा मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वानों के मत से यह चमत्कार उत्तर शाखा के म. पद्मनदि द्वारा किया गया था। कारजा गाला के म. पद्मनदि की सृष्ट्य मुक्तागिरि क्षेत्र पर किसी चमत्कार के कारण हुई ऐसी लोकोक्ति है। कारजा के म. देवेन्द्रकीर्ति (उपान्त्य) ने भातकुली के प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर लगी हुई आग मन्त्रित जल द्वारा शान्त की ऐसी भी अनुश्रुति है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में चमत्कारों का कोई महत्त्व नहीं रहा है। किन्तु मध्ययुग की सामान्य लोगों की भावनाओं को देखते हुए उसे धर्म के क्षेत्र में जो स्थान मिला वह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

११. कार्य— कलाकौशल्य का संरक्षण

मध्ययुगीन समाज के जीवन में धर्म को जो महत्त्वपूर्ण स्थान था उस के कारण अन्यान्य अनेक क्षेत्रों का धर्म से सम्बन्ध स्थापित हो गया था। धर्म के नेता के नाते भट्टारकों ने विविध कलाओं को समय समय पर प्रोत्साहन दिया यह इसी का उदाहरण है। संगीत, शिल्प, चित्र, नृत्य आदि कलाओं के विषय में इस ग्रन्थ में अनेक उल्लेख प्राप्त हुए हैं।

पूजाप्रतिष्ठा भट्टारकों का प्रमुख कार्य था और इस में संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस युग के पूजापाठों में गेयता विधेय रूप से है इस का निर्देग पहले

किया जा चुका है। प्रतिष्ठा उत्सव के समय अक्षर दूर दूर से भजन या कीर्तन के लिए गायक जुलाए जाते थे। इसके अलावा अन्य समय भी हफ्ते में एकवार मन्दिरों में सामुदायिक भजन करने की प्रथा थी। भजनों के लिए भट्टारकों द्वारा रचे गए कई पद उपलब्ध होते हैं।

मूर्ति, चन्द्र और मन्दिरों की निर्मिति सं भट्टारकों द्वारा शिल्पकला के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला है। कई स्थानों पर मन्दिरों में पाषाण या लकड़ी के स्तम्भों या छतों पर विनोद जन्नाभियेक, सम्प्रेतशिल्पर आदि तीर्थक्षेत्र और अन्यान्य कथाओं की प्रतिकृतियां प्राप्त होती हैं। मृत के गोरीपुग मन्दिर की एक भेषमूर्ति पर चार भट्टारकों की मूर्तियां निर्मित हैं। विन्दूर के निकट नेमगिरी पर नेमिनाथ की विशाल मूर्ति के पादपीठ पर उस क्षेत्र के संस्थापक वीर संघपति और उनके कुटुंबियों की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर मन्दिरों के सामने विशाल मानदरम्भों का निर्माण हुआ है जिन पर समवसरणादि विविध दृश्य अंकित मिलते हैं। भट्टारकों के समाधिस्थानों पर निर्माण किये गए स्मारक भी कई स्थानों पर दर्शनीय बने हैं।

हस्तलिखितों की प्रतियां कगते वक्त कई भट्टारकों ने अपने चित्रकलाग्रंथ का परिचय दिया है। जिनसागर विरचित मुगन्धदशमी कथा की एक प्रति ७३ चित्रों से विभूषित है जो नागपुर के सेनगगनमन्दिर में उपलब्ध हुई है। अंजनगाव के बलात्कारागण मन्दिर में चौबीस तीर्थकरों के शास्त्रोक्त आसन, यज्ञ, यज्ञिणियों, वर्ण आदि से युक्त सुन्दर चित्र प्राप्त हुए हैं। नागपुर के त्रैलोक्यदीपक नानक हस्तलिखित में बड़े प्रमाण पर मानचित्रों का अंकन हुआ है। काश्यासंघ नामुर-गच्छ के म. श्रेमकीर्ति के उपदेश से वैगट नगर के जिनमन्दिर की विविध चित्रों से अलंकृत किया गया था। कई सुन्दर प्रतियों का लेखन सुवर्णाक्षरों द्वारा हुआ है। पूजा के लिए जो मण्डल बनाये जाने थे उन में भी कई बार चित्रकला के अच्छे नमूने प्राप्त होते हैं।

मध्ययुग में अन्य कलाओं की अपेक्षा मूल कला कुछ हीन स्त्रियों की कला मानी जाती थी। फिर भी विविध धार्मिक उत्सवों के अवसर पर स्त्रियों के लेख को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। न्यास कर विजयादशमी और पञ्चावती की रथायात्रा के अवसर पर निम्नपूर्वक इस का प्रयोग होता था।

इन सब कलाओं के केन्द्रित होने के कारण ही मध्ययुग में मन्दिरों को समाज जीवन के केन्द्रों का स्थान मिल सका। इस से इन कलाओं का अस्तित्व

बना रहा और साथ ही उन में गम्भीरता और पावित्र्य की भावना भी दृढ़ हो सकी। इसी लिए बाल और वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी प्रकार के व्यक्ति मन्दिरों की ओर आकर्षित हो सके। जैन समाज का अन्य समाजों से सौहार्द स्थापित करने में भी इन कलाओं का विशेष महत्त्व रहा।

१२. अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध

सेन संघ, कात्यायन और ब्रह्मकारण की परम्पराओं के आरंभ काल में जैन धर्म के प्रतिस्पर्धी वैदिक और बौद्ध ये दो धर्म प्रचलित थे। इस लिए बौद्ध दर्शन की अनेक मान्यताओं के खंडन का प्रयास जिनसेन, गुणभद्र आदि आचार्यों के ग्रन्थों में दिखाई देता है। किन्तु भट्टारक परम्पराएं दृढमूल हुई उस समय तक बौद्ध धर्म भारतवर्ष से प्रायः पूरी तरह निर्वासित हो चुका था। इस लिए भट्टारक पीठों से बौद्ध सम्प्रदाय के सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं उठता। अपवाद रूप से नन्दीतटगच्छ के भ. विजयकीर्ति द्वारा वसुधाया नामक बौद्ध तन्त्र विषयक रचना की एक प्रतिलिपि की गई थी जो हाल में ही उपलब्ध हुई है। पट्टावली आदि में कहीं कहीं बौद्धों के पराजय के जो उल्लेख हैं उन्हें प्रत्यक्ष आधार न होने से पुरानी परंपरा का अनुकरण मात्र समझना चाहिये। बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन या अध्यापन की प्रथा भी भट्टारक सम्प्रदाय में बिलकुल नहीं थी जो श्वेताम्बरों में कुछ हद तक कायम रह सकी।

इन परंपराओं के आरंभ काल में वैदिक सम्प्रदायों का अद्भुत प्रभाव जैन समाज पर पड़ा। इस से जैन समाज का ढांचा बिलकुल ही बदल गया। एक सन्नर्ण हिन्दू की तरह जैन भी जातिसिद्ध उच्चता पर विश्वास करने लगे। सामाजिक और वैधानिक मामलों में भी जैनो ने प्रायः पूरी तरह वैदिकों का अनुकरण किया। आरंभसे मठसंस्था कैसे उत्पन्न हुई इसका अभी पूरा संशोधन नहीं हुआ है, तो भी भट्टारक सम्प्रदाय के विकास पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है। जायद उस समयकी मांग ऐसी ही कुछ होगी। भट्टारक पीठों में भी कई दृष्टियों से वैदिक पद्धतियों का प्रवेश हुआ। पद्मावती आदि देवियों को काली, दुर्गा या लक्ष्मी का ही रूपान्तर माना जाने लगा। अध्यात्म-शास्त्रों के व्याख्यान में आत्मा के समान ही ब्रह्म का निरूपण होने लगा। कथा पुराणों में भी कई वैदिक कथाओं का समावेश किया गया। भट्टारकों के लिए शिक्षक या गिण्यों के रूप में कई चार वैदिक पण्डितों की योजना होती थी। इस से यह प्रभाव व्यापक हो सका। द्विज विश्वनाथ, भूपति प्राज्ञ मिश्र, शैव माधव

ये भट्टारकों के प्रभाव क्षेत्र के घटक बन सके ।

अप्रत्यक्ष रूप से यद्यपि इस प्रकार वैदिक सम्प्रदाय से समझौता किया गया तथापि प्रत्यक्ष रूप से अनेक बार उस से संघर्ष भी हुआ । विभिन्न वादविवादों में श्रुतसागरसूरि ने नीलकण्ठ भट्ट का, प्रतापकीर्ति ने केदारभट्ट का, विजयसेन ने चन्द्रतपस्वी का, चन्द्रकीर्ति ने कृष्णभट्ट का और धारसेन ने धनेश्वरभट्ट का पराजय किया था । ग्रन्थों में भी न्याय, वैज्ञेयिक, साख्य, वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों पर खंडनात्मक लेखन किया गया ।

बारहवीं सदी से मुस्लिम राजसत्ता भारत में दृढमूल हुई । नम्र मुनियों के स्थान पर भट्टारकों की स्थापना होने में इस परिस्थिति का बड़ा हाथ था । आगे चल कर भट्टारकों ने अनेक मुस्लिम शासकों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए । मुस्लिमों द्वारा इस युग में जैनों पर कोई विशेष अन्याय हुआ हो ऐसा ज्ञात नहीं होता । किन्तु मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म से जैनों का विशेष सम्बन्ध नहीं आता था । अपवाद रूप से भ. राजकीर्ति के शिष्य पं. हाजी अवश्य मुस्लिम प्रतीत होते हैं ।

भट्टारकों से श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे । शायद इस लिए कि इन दोनों के चाल रूप में कोई अन्तर नहीं रहा था, वे अपना विरोध अन्य मार्गों से प्रकट करते रहते थे । भ. श्रीभूषण ने एक विवाद में श्वेताचरों का एक मन्दिर गिरा कर उन्हें निर्वासित कराया था । स्थानकवासी सम्प्रदाय के मूर्तिपूजा विरोध के लिए श्रुतसागर सूरि ने जगह जगह उन की निन्दा की है । स्थानकवासी साधु उच्च नीच का विचार न करते हुए सब लोगों से आहार ग्रहण करते थे इस पर भी उन्हें काफी गुस्सा आता था । केवलियों का आहार, स्त्री मुक्ति और भ. महावीर का गर्भान्तरण इन श्वेताम्बर मान्यताओं के खण्डन के लिए भ. शुभचन्द्र ने संशयिचदनविदारण नामक ग्रन्थ लिखा । अपवाद रूप से कारंजा के भट्टारकों के विषय में श्वेताम्बर साधु शीलविजय ने प्रशंसार्थक उद्गार व्यक्त किए थे । किन्तु ऐसे प्रसंग बहुत ही कम बार आते थे । श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय के इस विरोध का एक प्रमुख कारण तीर्थक्षेत्रों का अधिकार था । माणिक्यस्वामी, केदारियाजी, चंदवाड, जीरापल्ली, आदि अतिगय क्षेत्र और प्रायः

* यह मतप्रणाली प्राप्त ऐतिहासिक आधारोंकी सीमाओंमें समझ लेनी चाहिए । यह अभी विचाराधीन है, और इस विषयमें मतभेद भी है ।

सभी सिद्धक्षेत्र दोनों सम्प्रदायों द्वारा पूज्य थे इस लिए उन पर अधिकार पाने के लिए प्रायः झगड़े होते रहते थे ।

सत्रहवीं शताब्दी में राजस्थानके आसपास जैन सम्प्रदाय में शुद्धीकरणवादी तेरापंथ की स्थापना हुई । नाटक समयसार आदि के कर्ता पण्डित बनारसीदास इस सम्प्रदाय के नेता थे । पूजा पद्धति को सादी करना, मूल अध्यात्मशास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन बढ़ाना तथा शास्त्रोक्त आचरण न करनेवाले भट्टारकों को पूज्य नहीं मानना ये इस सम्प्रदाय के प्रमुख लक्षण थे । भट्टारक सम्प्रदाय में शासनदेवताओं की पूजा को एक प्रमुख स्थान मिला था उसे भी तेरापंथ ने नष्ट करना चाहा । स्वभावतः भट्टारकों द्वारा इस पंथ का विरोध किया गया । अपवाद रूप से कारंजा के भ. देवेन्द्रकीर्ति (तृतीय) के सम्पर्क में आ कर आगरा निवासी जीवनदास ने तेरापंथ का अपना अभिमान छोड़ दिया ऐसा उल्लेख मिलता है ।

दक्षिण में श्रवणबेलगोल, कारकल, हुंबच और मुडविट्टी इन स्थानों पर देशीय गग आदि परम्पराओं के भट्टारक पीठ थे । ये दिगम्बर सम्प्रदाय के ही होने से इन के सम्बन्ध उत्तरीय भट्टारकों से प्रायः अच्छे रहते थे । पण्डितदेव, नागचन्द्रसूरि, श्रुतमुनि आदि दाक्षिणात्य विद्वान् भ. जिनचन्द्र, ज्ञानसूषण, श्रुतसागरसूरि आदि से सम्बन्ध स्थापित करते थे । कारंजा के भ. धर्मचन्द्र श्रवणबेलगोल पहुंचे तब भ. चारुकीर्ति से उन की मुलाकात हुई थी । नन्दीतटगच्छ के भ. चन्द्रकीर्ति ने नरसिंहपुर में एक विवाद में त्रिजय पाई उस समय भ. चारुकीर्ति उन्हें मिलने आए थे ।

१३. परस्पर सम्बन्ध

भट्टारक सम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्ध प्रायः व्यक्तिगत मनोवृत्ति पर निर्भर रहते थे । इसी लिए न तो उन में कोई स्थायी वैर दिखाई देता है, न स्थायी प्रेम । सहकार्य या झगड़े के लिए कोई तत्त्व आधारभूत नहीं था । इसी लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित हो सके ।

सेन गण के प्राचीन आचार्य वीरसेन और जिनसेन अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के कारण पुष्पाट संघ के आचार्य जिनसेन द्वारा सन्मानित हुए थे । उन ने जिन आचार्यों का पूज्य बुद्धि से स्मरण किया है उन में भी सम्प्रदायभेद की कोई झलक नहीं आती । आचार्य कुन्दकुन्द का अनुल्लेख अवश्य कुछ खटकता है ।

इसी परंपरा के पल्लपण्डित ने आचार्य शाकटायन पाल्यकीर्ति की व्याकरण-कुशलता का उल्लेख किया है। शाकटायन यापनीय संघ के थे यह सुप्रसिद्ध है।

सेनगण की उत्तरकालीन परम्परा में भ. वीरसेन (प्रथम) ने नन्दीतटगच्छ के भ. सोमकीर्ति के साथ एक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया था। इन के बाद भ. सोमसेन (चतुर्थ) ने धर्मरसिक की प्रशस्ति में महेन्द्रकीर्ति का गुरु रूप में उल्लेख किया है। इन के शिष्य भ. जिनसेन पूर्वाश्रम में ईडर शाखा के भ. पद्म-नन्दि के शिष्य रह चुके थे। इस परम्परा के अन्तिम भ. वीरसेनस्वामी का पट्टा-भिषेक कारंजा के ही बलात्कारण के पट्टाधीश भ. देवेन्द्रकीर्ति के हाथों हुआ था। इन के बाद भ. रत्नकीर्ति और भ. देवेन्द्रकीर्ति ये दो और भट्टारक बलात्कारण की कारंजा शाखा में हुए। वीरसेन स्वामी के इन के व्यभिचरित सम्बन्ध खास विरोध के नहीं थे। किन्तु इन के शिष्य वर्ग में परस्पर वैर की भावना बहुत तीव्र हो चुकी थी। अब नए युग के प्रभावसे यह विरोध क्षुप्तप्राय हो चुका है।

लातूर और कारंजा ये बलात्कारण की एक ही परंपरा की दो शाखाएँ होने से आरंभ में इन के सम्बन्ध काफी अच्छे थे। किन्तु बाद में लातूर के भ. नागेन्द्रकीर्ति का कारंजा के भ. देवेन्द्रकीर्ति (उपान्त्य) से एकबार अपने अधिकार क्षेत्र को ले कर कुछ विरोध भी हुआ था।

दिङ्गी शाखा के भ. जिनचन्द्र का प्रभाव व्यापक था। सूरत के भ. विद्यानन्दि, ईडर के भ. ज्ञानभूषण तथा अटेर के भ. सिंहकीर्ति और नागौर के भ. रत्नकीर्ति इन के प्रभावक्षेत्र में सम्मिलित होते थे। इसी शाखा के भ. चन्द्रकीर्ति का उल्लेख नागौर के भ. नेमिचन्द्र द्वारा लिखाई गई एक ग्रन्थप्रशस्ति में मिलता है।

ईडर के भ. सकलकीर्ति ने ज्ञानकीर्ति, धर्मकीर्ति और भुवनकीर्ति इन को भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित किया था। इन के शिष्य ब्रह्म जिनदास के अनेक शिष्य थे। इन में ब्रह्म ज्ञान्तिदास ने सकलकीर्ति की परम्परा के समान ही सूरत की भ. लक्ष्मीचन्द्र की परम्परा से भी सम्बन्ध स्थापित किए थे। अपने ग्रन्थों के कारण अन्य अनेक सम्प्रदायों द्वारा सकलकीर्ति सम्मानित हुए थे। ईडर शाखा के ही भ. शुभचन्द्र ने सूरत के लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र का स्मरण किया है।

मानपुर शाखा के भ. गुणचन्द्र के गुरु भ. सिंहनन्दी का सूरत शाखा के श्रुतसागरसूरि तथा ब्रह्म नेमिदत्त ने आदरपूर्वक स्मरण किया है। इसी शाखा के भ. रत्नचन्द्र (प्रथम) का पट्टाभिषेक हेमकीर्ति द्वारा हुआ था किन्तु उस समय

बड़ी शाखा के (सम्भवतः ईडर) कुछ श्रावकों ने विघ्न उपस्थित करने की कोशिश की थी।

मूरत शाखा के म. विद्यानन्दी ने काष्ठासंधीय श्रावकों के लिए भी मूर्ति-प्रतिष्ठाएं कीं। इन के शिष्य श्रुतसागर सूरि के विविध सम्बन्धों का उल्लेख पहले हो चुका है। इन की परम्परा के म. लक्ष्मीचन्द्र के शिष्यों में कारजा के वीरसेन और विशालकीर्ति भट्टारक प्रमुख थे। इन के प्रशिष्य म. ज्ञानभूषण के शिष्यों में भी काष्ठासंध के म. रत्नभूषण का समावेश होता था। मूरत के ही म. वादिचन्द्र का नन्दीतटगच्छ के म. श्रीभूषण के साथ एक बार वादविवाद हुआ था।

जेरहट शाखा के श्रुतकीर्ति ने दिल्ली के म. जिनचन्द्र के शिष्य विद्यानन्दि का स्मरण किया है।

माथुर गच्छ की दो विभिन्न परम्पराओं से छाटीसहिता और जम्बूस्वामी-चरित के कर्ता पण्डित राजमल्ल एक ही समय सम्बद्ध थे। एक ही गच्छ की होने पर भी इन परम्पराओं में अन्य विशेष सम्बन्ध नहीं पाए जाते।

लाहबागड गच्छ के म. पद्मसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन ने आशाधर को सघबाह्य कर दिया था तब उन ने श्रेणिगच्छ का आश्रय लिया था। इन की परम्परा के मलयकीर्ति ने तरसुम्बा में मयूरपिच्छ धारण करनेवालों का पराजय किया था। त्रिभुवकीर्ति के बाद इस शाखा में कोई भट्टारक नहीं हुए इन लिए इस के अनुयायी नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों द्वारा ही समस्त धार्मिक कार्य करते थे।

नन्दीतट गच्छ के म. श्रीभूषण और चन्द्रकीर्ति का मूलसंघ के प्रति बहुत ही विकृत दृष्टिकोण था। मयूरपिच्छ की उन ने खूब निन्दा की है। किन्तु इन्हीं के परम्परा के इन्द्रभूषण के समय फिर से सेनगण और बलात्कारगण के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गए थे।

१४. शासकों से सम्बन्ध

इस युग में किसी राजाने प्रत्यक्ष रूप से जैन धर्म धारण किया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपवाद सिर्फ गच्छकूट सम्राट अमोघवर्ष का हो सकता है। आदिपुराण आदि के कर्ता जिनसेन, गणितसारसग्रह के कर्ता महावीर एवं शाक-टायन व्याकरण के कर्ता पाल्यकीर्ति ने आप की बहुत प्रशंसा की है।

ईडर के गव भाणजी के मन्त्री भोजगज जैनधर्मीय थे। इन के कुटुम्बीयों ने श्रुतसागर सूरि के साथ गजपन्थ और मागीतुंगी तीर्थक्षेत्रों की यात्रा की थी।

इसी प्रकार विजयनगर के मन्त्री इरुग दण्डनायक जैन थे। आप ने म. वर्नभूषण के उपदेश से विजयनगर में कुन्थुनाथ का भव्य मन्दिर बनवाया था। जवपुर आदि राजस्थान के राज्यों में भी समय समय पर जैनधर्मीय मन्त्री हुए हैं।

जो राजा स्वयं जैन नहीं थे उन ने भी समय समय पर भट्टारकों की विद्वत्ता या मन्त्रप्रभाव से प्रभावित हो कर उन का सत्कार किया था। राजा भोज की समा में लाडबागड गच्छ के म. शान्तिपेग सत्कृत हुए थे। इसी गच्छ के म. विजयसेन कनौज के राजा हरिश्चन्द्र द्वारा सम्मानित हुए थे। ईडर के राव रणमल ने म. मलयकीर्ति का तथा कलवुर्गा के सुल्तान फिरोजशाह ने म. नरेन्द्र-कीर्ति का सम्मान किया था। मालवा के सुल्तान ग्यामुद्दीन द्वारा मूल शाखा के म. मल्लभूषण का आदर किया गया। इसी शाखा के म. लख्मीचंद्र और ईडर के म. ज्ञानभूषण ने कर्गाटक के देवराय, मल्लिराय, भैरवराय आदि कई स्थानीय शासकों से सम्मान पाया था। कन्नडा शाखा के पूर्व रूप के म. विद्याश्रीर्ति दिखी के सुल्तान सिकन्दर, विजयनगर के सम्राट विरूपाक्ष एवं आरग के दंडनायक देवप्य द्वारा सत्कृत हुए थे। इन्हीं के शिष्य विद्यानंद ने भी मल्लिराय आदि शासकों से सम्मान पाया था।

सेन गग, बलत्कार गग एवं पुजाट गग के प्राचीन समय के उल्लेख बहुधा दानपत्रों के रूप में प्राप्त हुए हैं। उत्तरकालीन चाळुक्यों ने राजा त्रिभुवनच्छ, रानी केतवदेवी, राजा त्रैलोक्यनक्ष आदि के दानपत्र उल्लेखनीय हैं। कच्छ-शासक वंश के राजा विक्रमसिंह ने म. विजयकीर्ति को नवनिर्मित जिनमन्दिर के लिए भूमिदान दिया था। उत्तरकालीन भट्टारकों के विषय में भी ऐसे अनेक उल्लेख प्राप्त हो सकेंगे यद्यपि ऐसे प्रत्यक्ष उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

इन प्रत्यक्ष सम्बन्धों के अनिश्चित ग्रन्थप्रशस्ति आदि ने तत्कालीन राजाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ग्वालियर के तानर वंशीय राजा वीरभद्र, हंगरसिंह, कीर्तिसिंह एवं मानसिंह का कालनिर्णय नाथुसगच्छ के भट्टारकों ने उन के जो उल्लेख किए हैं उन्हीं से हो सकता है। मुगल वंश के शवर से लेकर नहन्दशाह तक प्रायः सभी सम्राटों के उल्लेख अन्यान्य ग्रन्थप्रशस्तियों में मिले हैं। हिन्दुओं को भयभीत कर देने वाला औरंगजेब के समय भी जैन ग्रंथकर्ता अपना कार्य शान्तिपूर्वक जारी रख सके थे। इन उल्लेखों ने सम्राट अकबर के विषय में लखीसिंहवा क कर्ना पण्डित राजनक्ष ने लिखे हुए ७० श्लोक विशेष महत्त्व के हैं। इन में एक महाकाव्य के समान ही अकबर और उस की राजधानी आगरा का वर्णन किया है।

१५. उपसंहार

महारक सम्प्रदाय का इतिहास अब तक कुछ उपेक्षित सा रहा है। इस ग्रन्थ में उस के एक भाग का उपलब्ध वृत्तान्त संग्रहीत हुआ है। इस से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास का यह भाग भी काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी पद्धति से दिगम्बर सम्प्रदाय के मुढविद्रो, भवणबेलगुल, कारकल, हुंच और कोल्हापुर के महारक पीठों का वृत्तान्त तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के बीकानेर, दिल्ली, लखनऊ आदि अनेक महारक पीठों का वृत्तान्त संग्रहीत किया जाए तो जैन सम्प्रदाय का एक हजार वर्षों का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट और प्रामाणिक रूप ले सकेगा।

इस ग्रंथ में एक सीमित संख्या में ही साधनों का उपयोग हो सका है। अभी अनेक महारक पीठों के शालग्रामांडार, अनेक मूर्तिलेख एवं शिलालेखों का अवलोकन कर के नई सामग्री प्रकाश में लाई जा सकती है। इसी प्रकार ऐसे कई मूर्तिलेख आदि साधनों सन्दिग्धता के कारण इस ग्रन्थ में समाविष्ट नहीं किए हैं। अधिक साधन उपलब्ध होने पर इन की सन्दिग्धता भी दूर हो सकती है। इस तरह साधनों की मर्यादाओं के बावजूद इस ग्रन्थ में कोई ४०० महारकों का, उन के १७५ शिष्यों का, ३०० ग्रन्थों का, ९० मन्दिरों का, ३१ जातियों का, १०० शासकों का तथा २०० स्थानों का उल्लेख हुआ है एवं उन का ऐतिहासिक मूल्य निर्धारित हुआ है। यदि सब साधनों का पूरा उपयोग किया जाए तो यह संख्या आसानी से दुगुनी हो सकती है।

महारक सम्प्रदाय के इतिहास में जैनसमाज की अवनति का ही इतिहास छिपा है। किन्तु उस में कई उज्ज्वल व्यक्तिमत्त्व हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्थ हैं। भ. शुभचन्द्र और भ. सकलकीर्ति जैसे ग्रन्थकर्ता और भ. जिनचन्द्र जैसे मूर्तिप्रतिष्ठापक आचार्यों की सर्वथा उपेक्षा की जाए तो जैन समाज का इतिहास अधूरा ही रहेगा। उन्नति का इतिहास प्रेरक शक्ति के रूप में उपयुक्त होता है। उसी प्रकार अवनति का इतिहास भी अनेक शिक्षार्ण दे सकता है। महारक सम्प्रदाय के इतिहास में जो संरक्षणीयता दृष्टिगोचर होती है उस के परिणामों से सावधान हो कर यदि हम फिर एक बार विकासशील प्रवृत्ति को अपना सके तो जैन समाज फिर एक बार अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकती है।

१. सेनगण

लेखांक १ - षट्खंडागपटीका धवल

वीरसेन

अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जुत्रकम्मस्स चंदसेणस्स ।
 तह णत्तुवेण पंचत्थूहण्णयमाणुणा मुणिणा ॥
 सिद्धंतच्छंदजोइसवायरणपमाणसत्थणिवुणेण ।
 मट्टारएण टीका लिहिएसो वीरसेणेण ॥
 अट्टतीसम्हि सासिय थिक्कमरायम्हि एसु संगरमो ।
 पासे सुतेरसीए भावविल्लगे धवलपक्खे ॥
 जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे ।
 सूरु तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होंते ॥
 चावम्हि वरणिवुत्ते सिंघे सुक्कम्हि गेमिचंदम्हि ।
 कत्तियमासे एसो टीका हु समाणिआ धवला ॥
 वोहणरायणरिदे णरिदचूडामणिम्हि मुंजते ।
 सिद्धंतगंथमत्थिय गुरुप्पसाएण विगता सा ॥

(भाग १ प्रस्तावना पृ. ३६)

लेखांक २ - कसायपाहुडटीका जयधवला

जिनसेन

श्रीवीरसेन इत्यात्तमट्टारकपृथुप्रथः ।
 पारहश्चाधिविश्चानां साक्षादिव स केवली ॥
 यस्तप्तोद्दीप्तकिरणैर्भव्यांभोजानि बोधयन् ।
 व्यद्योतिष्ठ मुनीनेनः पंचस्तूपान्वर्यावरे ॥
 प्रशिष्यश्चंद्रसेनस्य यः शिष्योऽप्यार्यनंदिनाम् ।
 कुलं गणं च संतानं स्वगुणैरुदजिज्वलत् ॥
 तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमान् जिनसेनः समिद्धधीः ।
 -इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शिनी ।
 वाटग्रामपुरे श्रीमद्गूर्जरार्यानुपालिते ॥
 फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने दशम्यां शुक्लपक्षके ।
 प्रवर्धमानपूजोरुनंदीश्वरमहोत्सवे ॥
 अमोघवर्षराजेंद्रप्राज्यराज्यगुणोदया ।

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पांतमनल्पिका ॥
 एकोनषष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेद्रस्य ।
 समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥

(भाग १ प्रभाषना पृ. ६९)

लेखांक ३ - आदिपुराण

अहं सुधर्मो जंब्याख्यो निखिलश्रुतधारिणः ।
 क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य निर्वास्यामस्ततो वयम् ॥ १३९
 त्रयाणामस्मदादीनां कालः केवल्लिनामिह ।
 द्वापष्टिवर्षपिंडः स्याद् भगवन्निर्वृतेः परम् ॥ १४०
 ततो यथाक्रमं विष्णुर्नादिभिन्नोऽपराजितः ।
 गोवर्धनो भद्रवाहुरित्याचार्यो महाधियः ॥ १४१
 चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे ।
 पुराणं द्योतयिष्यन्ति कात्स्न्येन शरदः शतम् ॥ १४२
 विशाखप्रोष्ठिलाचार्यो क्षत्रियो जयसाह्वयः ।
 नागसेनश्च सिद्धार्थो धृतिपेणस्तथैव च ॥ १४३
 विजयो बुद्धिमान् गंगदेवो धर्मादिशब्दतः ।
 सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः स्युर्यथाक्रमम् ॥ १४४
 त्र्यशीतं शतमब्दानामेतेषां कालसंग्रहः ।
 तदा च कृत्स्नमेवेदं पुराणं विस्तरिष्यते ॥ १४५
 ज्ञानविज्ञानसंपन्नं गुरुपर्वान्वयादिदं ।
 प्रमाणं यच्च यावच्च यदा यच्च प्रकाशते ॥ १५२
 तदापीदमनुस्मर्तुं प्रभविष्यन्ति धीधनाः ।
 जिनसेनाप्रगाः पृज्याः कवीनां परमेस्वराः ॥ १५३

पर्व ३, (स्वाहाद ग्रंथमाला, इन्दौर १९१६)

लेखांक ४ - पार्श्वाम्बुदय

इति विरचितमेतत्काव्यभावेष्ट्य मेघं ।
 बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य काव्यं ॥

मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशांकं ।
 भुवनभवतु देवः सर्वदामोषवर्षः ॥
 श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृंगः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान् ।
 तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेतदूतम् ॥
 (प्रकाशक— नाथा रंगजी १९१०)

लेखांक ५ - दर्शनसार

गुणभद्र

सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी ।
 सिरिपडमनंदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ ३०
 तस्स य सीसो गुणवं गुणभहो दिव्वणाणपरिपुण्णो ।
 पक्खुववासुट्टमदी महातवो भावळिगो य ॥ ३१
 तेण पुणो विय मिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स ।
 सिद्धंतं घोसिच्चा सयं गयं सगलोयस्स ॥ ३२

(हि. १३ वृ. २५७)

लेखांक ६ - आत्मानुशासन

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसां ।
 गुणभद्रभदंतानां कृतिरात्मानुशासन ॥ २६९

(प्रकाशक— ज्ञानचद जैन, लाहौर, १८९८)

लेखांक ७ - आदिपुराण उत्तरखंड

निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्मभिः ।
 तच्छेषे यतमानानां प्रासादस्येष न. श्रमः ॥ ११
 अर्थं गुरुभिरेवास्य पूर्वं निष्पादितं परैः ।
 परं निष्पाद्यमानं सच्छंदोवन्नातिसुंदरं ॥ १३
 पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवय ।
 भवाब्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ ४०

(पर्व ४३, स्याद्वाद ग्रथमाला, इदौर, १९१६)

लेखांक ८ - उत्तरपुराण प्रशस्ति

लोकसेन

श्रीमूलसंघवारांशौ मर्णानामिव सार्चिषाम् ।
 महापुरुपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २
 तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमद्वारणः ।
 वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको यमौ ॥ ३
 सिद्धिभूपद्धतिर्यस्य टीकां मंघीक्ष्व मिश्रुभिः ।
 टीक्ष्यते हेलयान्येषां विपमापि पदे पदे ॥ ६
 अभवदिव हिमाद्रेंद्रेवासिधुप्रवाहो
 ध्वनिरिव सकलज्ञात्मवैशान्त्रिकमूर्तिः ॥
 उदयगिरितटाद्वा भास्करो भाममानो
 मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मान् ॥ ८
 यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्वारांतराधिर्भवन्-
 पादांभोजरजःपिङ्गमुक्कुटप्रत्यग्रत्नद्युतिः ॥
 संस्मर्ता स्वमभोववर्षेनृपतिः पृतोहमद्यत्यलं
 स श्रीमान् जिनमेनपूज्यभगवत्यादो जगन्मंगलं ॥ ९
 वनारथगुरुरासीत्तस्य धीमान् सवर्मा
 शशिन इव दिनेशो विद्वलोकैकचक्षुः ॥
 निखिलमिदमद्रीपि व्यापि तद्वाङ्मयूखैः
 प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥ १२
 प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्योपविद्यातिगः
 सिद्धांताव्यवसानयानजनितप्रागल्भ्यवृद्धेद्धधीः ॥
 नानानूननयप्रमाणानिपुणो गण्यैर्गुणैर्भूषितः
 शिष्यः श्रीगुणभद्रमूरिरनन्दोरामीज्जगद्धिश्रुतः ॥ १४
 कविपरमेद्वरनिगादिनगद्यकथामातृकं पुरोच्चरितं ।
 सकलच्छन्दोल्लङ्घनिलक्ष्यं मूक्ष्मार्थगूढपत्रचनं ॥ १५
 जिनमेनभगवतोक्तं मिथ्याकार्विदुर्पद्वलनमनिललितं ।
 सिद्धांतापनिबन्धनकर्त्रा भर्त्रा चिराद्दिनायामान् ॥ १७
 अनिविम्बरभीन्त्वाद्दृष्टांष्ट्रं संगृहीतममलधिया ।
 गुणभद्रमूरिणेत्रं प्रदीणकालानुरोधेन ॥ २०

विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः
 कविरविकलवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः ।
 सततमिह पुराणे प्राप्य साहाय्यमुच्चैः
 गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥ २८
 अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलाभिलां ।
 तस्मिन्निध्वस्तानिःशेषद्विपि वीध्रयशोजुषि ॥ ३१
 पद्मालयमुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहसि ।
 श्रीमति लोकादित्ये प्रभ्रस्तप्रथितशत्रुसंतमसे ॥ ३२
 चेष्टपताके चेष्टध्वजानुजे चेष्टकेतनतनूजे ।
 जैनैर्द्रघर्मवृद्धिविधायिनि विधुवीध्रयशसि ॥ ३३
 वनवासदेगमखिलं भुंजति निष्कण्टकं सुखं सुचिरं ।
 तत्पितृनिजनामकृते वंकापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३४
 शकनृपकालाभ्यंतरविशत्यधिकाष्टशतमिताह्वते ।
 मंगलमहार्थकारिणि पिंगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५
 श्रीपंचम्यां बुधार्द्राशुजि दिवसवरे मंत्रिवारे बुधांशे ।
 पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे वृश्चिकाकौ तुलायां ॥
 सूर्ये शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठिते भव्यवर्यैः ।
 प्राप्तेभ्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६
 (स्याद्वाद अथमाला, इंदौर १९१८)

लेखांक ९ -- मुळगुंद शिलालेख

कनकसेन

श्रीमते महते शान्त्ये श्रेयसे विश्ववेदिने ।
 नमश्चंद्रप्रभाख्याय जैनशासनमृद्वये ॥ १
 शकनृपकालेऽष्टशते चतुरत्तरविशदुत्तरे संग्रगते ।
 दुंदुभिनामनि वर्षे प्रवर्तमाने जनानुरागोत्कर्षे ॥ २
 श्रीकृष्णवल्लभनृपे पाति महीं विततयशसि सकलां तस्मात् ।
 पालयति महाश्रीमति विनयांबुधिनाम्नि धवळविषयं सर्व ॥ ३
 तस्मिन् मुळगुंदाख्ये नगरे वरवैश्यजातिजातः ख्यातः ।
 चंद्रार्यसत्पुत्रश्चिकार्योऽचीकरं जिनोन्नतभवनं ॥ ४

तत्तनयो नागार्थो नाम्ना तस्यानुजो नयागमकुशलः ।

अरसार्थो दानादिप्रोद्युक्तसम्यक्त्वसक्तचित्तव्यक्तः ॥ ५

तेन दर्शनाभरणभूपितेन पितृकारितजिनालयाय

चंद्रिकवाटे शे (से) नान्वयानुगाय नरनरपतियतिपतिपूज्यपाद-
कुमारशे (से) नाचार्य मी (मे) ख वीरसेनमुनिपतिशिष्य कनकशे (से) न
सूरिमुख्याय कंदवर्ममाळक्षेत्रे एवम्माना हस्तात् सहस्रवल्लीमात्रक्षेत्रं
द्रव्यसिंदुना गृहीत्वा नगरमहाजनविदेशे दत्तं ॥

(जैन शिलालेख सग्रह, भाग २ पृ. १५८)

लेखांक १० - अंगडि शिलालेख

वज्रपाणि

रवस्ति सकवर्ष ९२४ नेय जयसंवत्सरद चैत्रमासद सुद्ध दशमी.....
वार पुष्यनक्षत्रदंडु विनयादित्यपोयसळन राब्धं प्रवर्तिसे सूरस्तगणद
श्रीवज्रपाणिपंडितदेवर.....गंतियरप्प जाकियब्बे गंतियर् सोसधूरोळे नाडे
पोपणद दिसेयनरसर्गे वोक्कलंग पोन्नरे कोट्टु मण्णरेकोड्डु सोसवूर वसादिगे
विट्टर् निसिदिगे यडे वळ्ळेय..... एरड्डु हळ्ळद भेगण गण्ण वाल्ळु
मकरजिनालयके विट्टर् ॥

(उपर्युक्त, पृ. २२७)

लेखांक ११ - होनवाड शिलालेख

महासेन

श्रीमूलसंघे जिनधर्ममूले गणाभिधाने वरसेननाम्नि ।
गच्छेपु तुच्छेऽपि पोगर्यभिख्ये संस्तूयमानो मुनिरार्यसेनः ॥
अनेकभूपालकमौलिरत्न-शोणांशुवालातपजालकेन ।
प्रोज्जंभितश्रीचरणारविंद-श्रीमहासेनप्र(व्र)तिनाथशिष्यः ॥
तस्यार्यसेनस्य मुनीश्वरस्य शिष्यो महासेनमहामुनीन्द्रः ।
सम्यक्तवरत्नोज्ज्वलितांतरगः संसारनीराकरसेतुभूतः ॥
तज्जैनयोगीन्द्रपदाब्जभृंगः श्रीवानसाम्नायवियत्पतंगः ।
श्रीकोम्मराजात्मभवस्तुतेजः सम्यक्त्वरत्नाकरचांकिराजः ॥
तन्निर्मितं सुवनचुंमुकमत्युदात्तं लोकप्रसिद्धविभवोन्नतपोन्नवाडे ।
रंरम्यते परमशांतिजिनेंद्रगेहं पार्श्वद्वयानुगतपार्श्वसुपार्श्ववासं ॥

ॐ शकवर्ष ९७६ नेय जय संवत्सरद् वैशाखद् माराख्ये
सोमवारदंदिन सूर्यग्रहणनिमित्तदिं भीमनदिय तडिय मणियूर
अप्पयण वीडिनोळ् पोन्नवाडदोळ् चांकिमय्यन माडिसिद् श्रीशांतिनाथदेवर
त्रिभुवनतिलकचैत्यालयदलिर्प ऋषियर-ज्जियराहारदानके सर्वनमस्यवागि
श्रीमञ्चैलोक्यमल्लदेवर श्रीकेतलदेवियर विन्नपदिं मूवत्तुगेण गळेगोळ्
विट्टनेलमत्त (२) ३५ तोण्ट ॥

(उपर्युक्त, पृ. २२८)

लेखांक १२ - बळगावे शिलालेख

रामसेन

श्रीमत् त्रिभुवनमल्लदेवर श्रीमञ्चालुक्यविक्रमवर्ष २ नेय पिंगळ-
संवत्सरद् पुष्य सुद् ७ आदित्यवारदंदिनुत्तरायण- संक्रांतिथ पर्वनिमित्तं
राजधानि बळिळगावेयोळ् तम्मकुमार- गालदंडु माडिसिद् श्रीमञ्चालुक्य-
गंगपेर्मानडिजिनालयद् देवर्गर्चनपूजनाभिपेककं भोगकं ऋषियराहारदानकं
मेळे वसदिय खंडस्फुटितनवकर्मद् वेसकमागि . . ॥

अंतु समस्तशास्त्रपारावारपारग परमतपञ्चरणनिरतरप्प श्रीमूलसंघद् सेनगणद्
पोगरिगच्छद् श्रीमत् रामसेनपंडितर्गे धारापूर्वकं सर्वनमस्यं माडि कोट्ट
वनवसे पानिळोसिरद् कंपणं जिडुळिगे ७० र वळियवाडं मनेवने १०० श्रीमद्
गुणभद्रदेवर गुडुं चावुण्डमय्यं वरेदं मंगळमहाश्री ॥

(उपर्युक्त, पृ. ३१५)

लेखांक १३ - सोमवार शिलालेख

रामचंद्र

स्वस्ति भद्रमस्तु जिनशासनाय ॥ स्वस्ति शकवर्ष १०१७ नेय
युवसंवत्सरद् भाद्रपद् मासद् सुद्धसप्तमी गुरुवारदंडु मकरलक्ष गुरुदयदळ्
श्रीमत्सुराप्रणद् कल्नेलेय रामचंद्रदेवर शिष्यनियरण्ण अरसन्वे गंतियर् ॥

(उपर्युक्त, पृ. ३५१)

लेखांक १४ - हिरेआवलि शिलालेख

माधवसेन

स्वस्ति श्रीमत्तु विक्रमवर्षद् ४ [९] नेय साधा [रण] संवत्सरद्

भाषशुद्ध ५. बृहस्पतिवारदंष्टु श्रीनन्मूळसंबद्ध ननगगद् योगरिच्छद्
 चंद्रप्रमसिद्धांतदेवशिःपरण नाधननेनभट्टारण्— देवन
 मनदिं जितन परंगळोश्च अनुनर्दि निरिसि पंचपदनं ननयुनु ।
 अनुपममनाविविधियं युनिनाव...पदेदं ॥

(उच्युक्तः, पृ. ४३६)

लेखांक १५ - कंबदहळिक शिलालेख

पल्लपंडित

भट्टमनु जितशान्तस्य ॥

श्रीनूरस्यगणे जानश्रारुत्वारित्रभूवरः ।

मूषालानतदादाज्ञो राठानार्णवसागः ॥ १

आदावनंतवैर्यन्नच्छिप्यो शालचंद्रमुनिसुख्य- ।

न्तस्सुजितमदनः सिद्धांतांभानिधिः प्रभाचंद्रः ॥ २

शिष्य कल्लेदेवन्नस्यामूनन्ननीषिणः मूलुः ।

विश्वन्मदनदरौ गुणनगिरष्टोदनामिसुजितसुख्यः ॥ ३

तन्मौत्रो विबुधाधीशो देमनेदिसुनीश्वरः ।

राठान्तपारगो जानः सूर्यनगभास्करः ॥ ४

तद्वेत्तवानिनामाद्यो नाद्यतासिद्धिचद्विषाम् ।

यतिवित्तयनंदानि त्रिनेनामूचयोनिधिः ॥ ५

प्रवसनिनिगुदिगुपो जितमोहसर्गद्वो बुधन्सुतो ।

हनमदमायाद्वेयो यतिपतिनःसूनुरेकदेशेऽनूत् ॥ ८

तन्पानुजः सक्कलान्त्रमहाणेशेऽनूत् ।

भञ्ज्यात्तपंडितिनङ्गुनिपुंडरीका ॥ ९

विश्वन्मन्मथमदोऽमळगीतकीर्तिः ।

श्रीभट्टसिद्धयतिजितशरद्वः ॥ १०

पल्लकीर्निदथा कदः पुन व्यकरणं कृती ।

वथामिमानदानेषु प्रमिद्धः पल्लसिद्धिनः ॥ ११

...इक वरिम १०४६ विच्छेदि संवत्सरद्...

(उच्युक्तः, पृ. ३९९)

लेखांक १६ - विश्वलोचन कोश

श्रीधरसेन

सेनान्वये सकलतत्त्वसमर्पितश्रीः श्रीमानजायत कविर्मुनिसेननामा ।
 आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या यस्यास वादपदवी न दवीयसी स्यात् ॥ १
 तस्माद्भूदखिलवाङ्मयपारदृश्या विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम् ।
 श्रीश्रीधरः सकलसत्कविगुंफितत्वपीयूषपानकृतनिर्जरभारतीकः ॥ २
 तस्यातिशायिनि कवेः पथि जागरूकधीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य ।
 नानाकवीन्द्रचितानभिधानकोशानाकृष्य लोचनमिवायमदीपि कोशः ॥ ३

(प्रकाशक- नाथारगजी, बम्बई १९१२)

लेखांक १७ - पट्टावली

सोमसेन

नवलक्षधनुराधीश-सप्रलक्षकर्णाटकराजेद्रचूडामौक्तिकमालाप्रभाधुनी-
 जलप्रवाहप्रक्षालितचरणनखर्विव-श्रीसोमसेनमट्टारकाणाम् ॥ ३३

(म. १३१)

लेखांक १८ - पट्टावली

श्रुतवीर

अलकेश्वरपुराद् भरवच्छनगरे राजाधिराज-परमेश्वर-थवनरायशिरो-
 मणि-महम्मदपातशाहसुरत्राण-समस्यापूरणादखिलदृष्टिनिपातेनाष्टादशवर्ष
 प्राय-प्राप्तदेवलोकश्रीश्रुतवीरस्वामीनाम् ॥ ३४

(उपर्युक्त)

लेखांक १९ - पट्टावली

धारसेन

भंभेरीपुर-धनेश्वरभट्टभ्रष्टीकृतानलनिहित-यज्ञोपवीतादिविजितसिंह-
 ब्रह्मदेवसधर्मशर्मकर्म-निर्मलांतःकरणश्रीमच्छ्रीधारसेनाचार्याणाम् ॥ ३५

(उपर्युक्त)

लेखांक २० - (समयसार)

देवसेन

श्रीखणदेजे धरणप्रामचैत्याले श्रीआचार्यजी देवसेनजी ओसवाले

ज्ञाते सा कल्याणचंदसा भार्या दगडुवाड तत्पुत्र आडुसाजी भार्या मेनावाड
तत्पुत्र मंदासाजी पुस्तकपठनार्थ ॥

(से. २४)

लेखांक २१ - शिलालेख

सोमसेन

स्वरितश्री संवत् [१५४१ वर्षे शाके १४९१ (१४०६९)] प्रवर्त-
माने कोधीता संवत्सरे उत्तरगणे...मासे शुक्लपक्षे ६ दिने शुक्रवामरे स्वाति-
नक्षत्रे...योगे २ करणे मिथुनलग्ने श्रीवराटदेशे कारजानगरे श्रीसुपार्थनाथ-
चैत्यालये श्रीमूलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे श्रीमन् वृद्ध(वृषभ)सेनगणधराचार्ये
पारंपर्याद्गत श्रीदेववीरमहावादवादीश्वर रायवादियिकी महासकलविद्वज्जन-
सार्वभौमसामिमानवादीभसिहाभिनवत्रैविद्य सोमसेनभट्टारकाणामुपदेशात्
श्रीवघेरवालज्ञाति खमडवाड(खटवड)गोत्रे अष्टोत्तरशतमहोत्तुंगशिखरप्रासाद-
समुद्धरणे धीरः त्रिलोकश्रीजिनमहाविद्यौद्धारक अष्टोत्तरशतश्रीजिनमहा-
प्रतिष्ठाकारक अष्टादशस्थाने अष्टादशकोटिश्रुतभंडारसंस्थापक सवालक्षवंदी
मोक्षकारक मेदपाटदेशे चित्रकूटनगरे श्रीचंद्रप्रभजिनैत्रचैत्यालयस्याग्रे निज-
भुजोपार्जितवित्तवलेन श्रीकीर्तिस्तंभ आरोपक साहजिजा सुत साहपूनसिंहस्य ।

(अ ८ पृ. १४२)

लेखांक २२ - पट्टावली

तत्पट्टोदयाचलप्रभाकरवादीभसिहाभिनवत्रैविद्यश्रीमच्छ्रीसोमसेन-
भट्टारकाणाम् ॥ ३७

(म. १३१)

लेखांक २३ - पट्टावली

गुणभद्र

तत्पट्टवार्धिवर्धनैकपूर्णचंद्रायमान ..श्रीमद्गुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥ ३८

(उपर्युक्त)

लेखांक २४ - जलयंत्र

सं. १५७९ मगसरमाने शुक्ले पक्षे १० शुक्रवारे श्रीमूलमंघे महारिपभ-

सेनगणधरान्वये पुष्करगच्छे सेनगणे भ. श्रीगुणभद्रोपदेशान् हुंघड्ढान्नीयं
साह वदा भार्यारीगादे... ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८)

लेखांक २५ - पट्टावली

वीरसेन

तत्पट्टोदयाद्रिदिवाकरायमाणश्रीमत्कर्णाटकदेशस्थापितधर्माभृतवर्षण-
जलदायमानधीरतपश्चरणाचरणप्रवीणश्रीवीरसेनभट्टारकाणाम् ॥ ३९

(म. १३१)

लेखांक २६ - पट्टावली

श्री युक्तवीर

विगताभिमानतपगतकपायांगादिविधिवधग्रंथकरणैककुशलताभिमान-
श्रीयुक्तवीरभट्टारकाणाम् ॥ ४०

(उपर्युक्त)

लेखांक २७ - पट्टावली

माणिकसेन

तत्पट्टे सर्वज्ञधचनामृतस्वादकृतात्मकाय...श्रीमाणिकसेनभट्टारकाणाम् ॥४१

(उपर्युक्त)

लेखांक २८ - अरहंत मूर्ति

सके १४२४ मूलसंघे सेनगणे भ. माणिकसेन उपदेशान् गुजर
पल्लीवाल ज्ञाति...संघवी नेमा ॥

(ना. १८)

लेखांक २९ - पट्टावली

गुणसेन

तत्पट्टोदयाचलद्विवाकरायमाणश्रीगुणसेनभट्टारकाणाम् ॥ ४२

(म. २३३)

लेखांक ३० - पट्टावली

लक्ष्मीसेन

तदनु सकलविद्वज्जनपूजितचरणकमलभव्यजनचित्तसरोजनिवास-
लक्ष्मीसदृशलक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम् ॥

[उपर्युक्त]

लेखांक ३१ -

मूलसंघ साखा प्रवर सेनगण संघाभरण ।
सोमविजय एवं वदति लक्ष्मीसेन तारणतरण ॥
गुणभद्र गुण गच्छादिभरण उदधिचंद्र जगि जानिये ।
सोमविजय एवं वदति लक्ष्मीसेन वखानिये ॥

(ना. १४)

लेखांक ३२ - नंदीश्वरमूर्ति

[शके १५००] सर्वजीतसंवत्सरे माघमासे शुक्लपक्षे १३ दिने
श्रीमूलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे वृषभसेनगणधरान्वये भ. श्रमण(श्रीगुण)भद्र
तत्पट्टे श्रीलक्ष्मीसेनोपदेशात् वधेरवालझातीय... ॥

[कारजा, भा. १३ पृ. १२८]

लेखांक ३३ - अनंत यंत्र

सं. १५— श्रीमूलसंघे सेनगणे भ. श्रीगुणभद्रस्तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेन
उपदेशान् कसिमवास्तव्य घरकौ ज्ञातीये संघई हेमासा भार्या अंबा... ॥

[मैतपुरी, भा. प्र. पृ. १७]

लेखांक ३४ - पट्टावली

सोमसेन

विबुधविबिधजनमनइंदीवरविकागनपूर्णशशिसमानानां...श्रीसोमसेन-
भट्टारकाणाम् ॥ ४४

[म. १३१]

लेखांक ३५ - कृष्णपुरपार्श्वनाथस्तोत्र

अविरलकविलक्ष्मीसेनशिष्येण लक्ष्मी-
विभरणगुणपूतं सोमसेनेन गीतं ।
पठति विगतकामः पार्श्वनाथस्तवं यः
सुकृतपदनिधानं स प्रयाति प्रधानम् ॥ ९

[अ. १२ पृ. ३२९]

लेखांक ३६ - ? मूर्ति

संवत् १५९७ श्रीमूलसंघे सेनगणे भ. सोमसेन उपदेशान् कालवाढे
संघवी... ॥

[आर्वा, अ. ४ पृ. ५०३]

लेखांक ३७ - पट्टावली

माणिक्यसेन

मिथ्यामततमोनिवारणमाणिक्यरत्नसमदिव्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट्टा-
रकाणाम् ॥ ४५

[म. १३१]

लेखांक ३८ - पट्टावली

गुणभद्र

आशीविपदुष्टकर्कशमहारोगमद्गजकेसरिसिंहसमानानां अनेकनरपति-
सेवितपादपद्मश्रीगुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥

[उपर्युक्त]

लेखांक ३९ - रामपुराण

सोमसेन

वराटविषये रम्ये जित्वरे (जिन्दुरे) नगरे वरे ।
मन्दिरे पार्श्वनाथस्य सिद्धो ग्रन्थो शुभे दिने ॥ २६
श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरिः ।
पट्टे च तस्यैव सुसोमसेनो भट्टारकोभूद् विदुषां गिरोमणिः ॥ २३३
विक्रमस्य गने शाके षोडशशतवर्षके ।
षट्पञ्चाशत्संभ्रमायुक्ते मामे आबणिके तथा ॥ २१७

शुक्लपञ्चत्रयोदश्यां बुधवारे शुभे दिने ।

निष्पन्नं चरितं रम्यं रामचन्द्रम्य पावनं ॥ २१८

[कारजा]

लेखांक ४० - (शङ्करतनप्रदीप)

शुभमस्तु कल्याणं ॥ संवत् १६६६ शके १५३१ वार्ये श्रावणकृष्णपक्षे
तिथि प्रतिपदा ॥ १ ॥ शुक्रवाशरे ग्रंथ लिखिते ठा. गोपिचंद उदयपुरस्थानं
तिष्ठत्ये ॥ कल्याणं भवेत् ॥ अभिनव भ. श्रीसोमसेनस्येदं पुस्तकं ॥

[म. ५३]

लेखांक ४१ - धर्मरसिक त्रैवर्णिकाचार

अद्ये तत्त्वरसर्तुचंद्रकलिते श्रीविक्रमादित्यजे
मासे कार्तिकनामनीह धवले पक्षे शरत्संभवे ।
वारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगे सुपूर्णातिथौ
नक्षत्रेश्विनिनाम्नि धर्मरसिको ग्रंथश्च पूर्णांकृतः ॥ २१६
श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरिः ।
तस्यात्र पट्टे मुनिसोमसेनो भट्टारकोभूद्विदुषां वरेण्यः ॥ २१२
धर्मार्थकामाय कृतं सुग्राह्यं श्रीसोमसेनेन शिवार्थिनापि ।
गृहस्थधर्मेणु सदा रता ये कुर्वतु तेभ्यासमहो सुभक्त्याः ॥ २१३

[जैनेन्द्र प्रस, कोल्हापुर १९१०]

लेखांक ४२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शके १५६१ वर्षे प्रमाथीनामसंवत्सरे फाल्गुण सुदी द्वितीया मूलसंघे
सेनगणे पुष्करगच्छे भ. श्रीसोमसेन उपदेशान् प्रतिष्ठितं ॥

[चैतवाल मन्दिर, नागपुर]

लेखांक ४३ - संभवनाथ मूर्ति

शक १५६१ प्रमाथीसंवत्सरे फाल्गुन शुद्ध ५ -भ. श्रीसोमसेनेन
प्रतिष्ठापितं ॥

(कारजा, भा. १३ पु. १२८)

लेखांक ४४ - रघिव्रत कथा

पुष्करगच्छे अभिनव रंग ॥ ७२
गुणभद्र पटे पामे जय संघ सोमसेन गुरु दान दाता ।
तत्तिष्ठत्य अभयपंडित चंग करी कथा मनतनी रंग ॥ ७३

[ना. ५५]

लेखांक ४५ - पार्श्वनाथ मूर्ति

जिनसेन

शके १५७७ क्रोधनामसंवत्सरे मार्गशिर्ष सुदी १० बुधे मूलसंघे
पुष्करगच्छे सेनगणे भ. सोमसेनदेवा तत्पट्टे भ. श्रीजिनसेनगुरूपदेशात्
बघेरवाढ ज्ञात मावला गोत्रे वीरासाह भार्या हिराई . ॥

[पा. १]

लेखांक ४६ - पद्मावती मूर्ति

शके १५८० मूलसंघे सेनगणे भ. जिनमेनोपदेशात् कारंजाग्रामे सा
रतन... ॥

(पा. ने. जोहगपुरकर, नागपुर)

लेखांक ४७ - (समवशरणपीठिका-रत्नाकर)

शके १५८१ विकारीनामसंवत्सरे फाल्गुण शुद्धि १३ दिने श्रीमूलसंघे
पुष्करगच्छे सेनगणे वृषभसेनान्वये भ. श्रीसोमसेन तत्पट्टे भ. श्रीजिनसेनो-
पदेशात् कारंजाग्रामे सुपार्श्वनाथचैत्यालये चवर्या गोत्रे सं. श्रीमाणिकभार्ये
पद्मार्ई अंबार्ई पुत्र सं. श्रीसोयरा भा. रूपाई एतैर्बानावर्णिकर्मक्षयार्थ
लिखाप्य दत्तं पुस्तकं ॥

(ना. ८०)

लेखांक ४८ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सके १५८२ फाल्गुण शुद्ध ७ तिलक सेन भ. श्रीजिनसेन बघेर-
वालझातौ चवरिया गोत्रे सा.. ॥

(मा. स. महाबन, नागपुर)

लेखांक ४९ - ? मूर्ति

शके १६०७ क्रोधनामसंघत्सरे सुदि १० बुधे पुष्करगच्छे सेनगणे
वृषभसेनान्वये भ. सोमसेनदेवाः तत्पट्टे भ. जिनसेनगुरुपदेशात्, जालीग्रामे
धाकडजातीय कन्हा नित्यं प्रणमति ॥ (कोंदाळी, अ. ४ पृ. ५०५)

लेखांक ५० -

नगर अचलपुरमांही जैन सासन गळनायक ।
क्रीयो चडमास आड कहत सिद्धांत सुलायक ॥
रुसी सरप पग ढस्यो खस्यो विप सर्व सरीरह ।
ध्यान धरी मुनिराड पठ्यो पुनि विपापहारह ॥
निर्विप नन छिनमे भयो मकल विन्न दूरे क्य्यो ।
भट्टारक जिनसेनको प्रताप भारी ध्य्यो ॥ १ ॥
श्रावकके घर जाइ भावरी भोजन कीन्हो ।
शाक परोस वचनाग नाग धोके बहु लीनो ॥
ज्यायो जव सर्वांग सावधानी मन आनी ।
विपापहार सुचिति चित्त नहि चिंता मानी ॥
वमन करी विप टालियो सहियो परिसह जोर ।
भट्टारक जिनसेनकी कीरति भइ बहु ठौर ॥ २ ॥
रायमलसा पुत्र वंस हुंवड वडमंडन ।
राना वेस विख्यात नगर सावलि सुभ स्तंभन ॥
पद्मनंदि गुरु राय पाय सेवे वालापन ।
चौदह विद्यानिघान व्होतरी कलाभूषण ॥
कारंजे नगरे सुभग सोमसेन पट उद्व्य्यो ।
जिनसेन नाम परगट भयो भट्टारक जग उद्व्य्यो ॥ ३ ॥
संघप्रतिष्ठा पाच धर्म उपदेस सु कारी ।
श्रीगिरनारि समेदगित्तर तीरथ कियो भारी ॥
संघपति सोयरासाह निवासा माधवसंगवी ।
गनवा संगवी रामटेकमा कान्हा संगवी ॥
जिनसेन नाम गुरुरायणे संघतिलक एते दित्र ।
माणिक्यस्त्रामी यात्रा सफल धर्म काम बहु बहु किय ॥ ४ ॥
(ना. ६३)

लेखांक ५१ -

मूलसंघ कुञ्चितिलक गच्छ पुष्करमे सोहे ।
 चारिय गणमे मुख्य सेनगण महिमा मोहे ॥
 भट्टारक जिनसेन गुरु मोरपीछ हस्ते धरे ।
 पूरनमल यों कहे भन्व्यलोक तारण तरण ॥

(ना. ६३)

लेखांक ५२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

छत्रसेन

संवत् १७५४ मूलमंघे सेनगणे पुष्करगच्छे म. छत्रसेनोपदेशात्
 प्रतिष्ठितं ॥

(केळीवाग मन्दिर. नागपुर)

लेखांक ५३ - द्रौपदीहरण

उत्तम देग बराड मझारमे कारंज रंजक हे पुर नीको ।
 मत्य सुपारसदेव महा मूलनायक मूलसुसंघ सजीको ॥
 सेनगणाश्रीत पुष्करगच्छ प्रधान सदा अति ग्राह गुणीको ।
 श्रीछत्रमेन रचै कवि चौपद् द्रौपदीहरण चरित्र सुलीकौ ॥ २६

(ना. ६१)

लेखांक ५४ - समवशरणषट्पदी

कारंजा शुभ नगरमे श्रीपार्श्वनाथ चैत्यालये ।
 छत्रसेन गल्पति कहे खैरासा वचने किये ॥ ५१

(ना. ८७)

लेखांक ५५ - मेरुपूजा

इति त्रिभुवनसंस्थं श्रीजिनविभं योर्चति पुष्पमृतांजलिकैः ।
 सो ना जगतीष्टं लभति विगिष्टं छत्रसेनमुनिना कथितं ॥

(म. १०)

लेखांक ५६ - पार्श्वनाथ पूजा

इत्याद्यगणित अतिशय क्षेत्रं पार्श्वजिनं बंदे सुरवित्रं ।
पूज्यं सेनगणे त्ररचित्रं छत्रसेनसंततवरामित्रं ॥

(ना. ७८)

लेखांक ५७ - झूलना

महबूब शरीर सहरमे जी पातिसाहि वडा परब्रह्म है रे ।
पातिसा अंदर वैठि रहा अपने रस रंगमे खेलत रे ॥
मनराय बुलाय दीवान किया अखत्यार दिया सब तिसके रे ।
छत्रसेन जती धारधार कहे वडा सोर हुवा सब नगरमे रे ॥ १ ॥

(म. ७९)

लेखांक ५८ - अनंतनाथ स्तोत्र

भुवनविदितभावं देवदेवेंद्रबंधं परमजिनमनंतं स्तौति यो शुद्धभावैः ।
भवति सुभगसर्गी मुक्तिनाथश्च नित्यं स्तवनभिदमनिधं भाषितं छत्रसेनैः ॥११

(कारंजा)

लेखांक ५९ - पद्मावती स्तोत्र

पुत्रोहं तव मात मामक परि कृत्वा कृपामंभिके
देयं वाञ्छितवस्तु चितितफलं यत्प्रार्थनेयं मम ।
विघ्नानिष्टकरान् स्वपापजनितान् दुःखप्रदान् संततं
शीघ्रं संहर संहर प्रियतमे श्रीछत्रसेनस्य वै ॥ १४

(उपर्युक्त)

लेखांक ६० - अनिरुद्ध छप्पय

कारंज रंजक नगरमे मूल जिनेश्वर देव ।
छत्रसेन गच्छति कहे हीर करे तस सेव ॥ १
चतुर पंच सप्तैक वामगति गणितो दक्ष ।

संवत् एतु जाणि माघ असिताष्टमी वक्षं ॥
 वृधणपुर सुभ नगर चोक माणिक तहा सोभे ।
 मणिमाणिकमुक्तादि देखता जनमन थोभे ॥
 कडतसाह वचणे कन्यो अनिरुद्ध हरण उदार ।
 श्रीछत्रसेन पंडित कहे हीरा जगि जयकार ॥ ९९

(ना. १४)

लेखांक ६१ — छत्रसेन गुरु आरती

मूलसंघाचे शृंगार पुष्कर गळ मनोहार ।
 सुरस्थ गण विस्तार ऋषभसेनान्वय सार ॥ २
 सेनसंघाचे आमूषण समंतभद्र जाण ।
 तयाच्या पटी छत्रसेन वादीमदभंजन ॥ ३

(ना. ८७)

लेखांक ६२ —

श्रीमूलसंघमे गळ मनोहर सोभत हे जु अतिही रसाला ।
 पुष्करगळ सुसेनगणाश्रित पूज रचे जिनकी गुणमाला ॥
 समंतजुभद्रके पट प्रगट भयो छत्रसेन सुवादि विसाला ।
 अर्जुनसुत कहे भवि सु परवादीको मान मिटे ततकाला ॥

(ना. ८७)

लेखांक ६३ —

सेनगणेश रणेण महामुनि उज्ज्वल कीरति है अतिभारी ।
 सुंदर रूप सुजान मनोहर संजम बार धुरंधरकारी ॥
 काव्य पुराण महाशुभ भासित आगम ग्रंथ कथे सुविचारी ।
 छत्रयति छत्रसेन विराजित दास विहारी कहे गुणधारी ॥१२

(म. ११९)

लेखांक ६४ - ज्ञानयंत्र

नरेंद्रसेन

शके १६५२ साधारण संवत्सरे भ. श्रीनरिंद्रसेनाज्ञया गोपालजी गंगरढा सेनगणे पुष्करगच्छे आश्विनमासे ॥

(कलमेश्वर, जिला नागपुर)

लेखांक ६५ - (यशोधरचरित-पुष्पदंत)

शके १६५६ मिति आसोज वदि मंगलात्रयोदश्यां बुधवासरे श्रीमूळ-संघे सूरस्थगणे पुष्करगच्छे ऋषभसेनगणधरान्वये पारंपर्यागते भ. श्री १०८ सोमसेन तत्पट्टे भ. जिनसेन तत्पट्टे भ. समंतभद्र तत्पट्टे भ. श्री १०८ छत्रसेन तत्पट्टेदयाद्रिवर्तमान भ. नरेंद्रसेनैर्लिखितोयं जसोधरचरित्रं श्रीसूर-बंदरे आदिनाथचैत्यालये । संवत् १७५० ॥

(म. प्रा. पृ. ७४७)

लेखांक ६६ - नरेंद्रसेन गुरु पूजा

श्रीमज्जनमते पुरंदरतुत्रे श्रीमूलसंघे वरे ।
श्रीशूरस्थगणे प्रतापसिंहेते सद्भूखंडन्तुते ॥
गच्छे पुष्करनामके सनभवत् श्रीसोमसेनो गुरुः ।
तत्पट्टे जिनसेनसन्मतिरभून् धर्माभृतादेशकः ॥ ?
वज्रोभूद्वि समंतभद्रगुणवत् शास्त्रार्थपारंगतः ।
तत्पट्टेदयतर्कशास्त्रकुशलो ध्यानप्रमोदान्वितः ॥
मद्विद्याभृतवर्षणैकजलदः श्रीछत्रसेनो गुरुः ।
तत्पट्टे हि नरेंद्रसेनचरणौ संपूजयेहं मुदा ॥ २

(ना. ८७)

लेखांक ६७ - पार्श्वनाथ पूजा

नगर कारंजा सेनगणेशी श्रीमूलसंघ जयो गुणदेसी ।
मंगलपूरण ज्ञान सुभारी मविजनको बहु संपत्तिकारी ॥

अमरावलि पूजे सदा जिनवरके पद जाम ।
नरेंद्रसेन इम स्तुति करे हम हिरदे तुम नाम ॥

(ना. ७८)

लेखांक ६८ - वृषभनाथ पाळणा

गणपति मुनियों कहे मनुजेद्रसुसेन ।
आवागमन निवारियो कर्मक्षय करि दीन ॥ १९

(म. १२१)

लेखांक ६९ - कैलास छप्पय-सौरा

तस पट्टे सुखकार नाम भट्टारक जानो ।
नरेंद्रसेन पट्टघार तेजे मार्तंड वखानो ॥
जीती वाद पवित्र नगर चंपापुरमाहे ।
करियो जिनप्रासाद ध्वजा गगने जइ सोहै ॥ २६
देवळगाव पवित्र तिहा जिनमंदिर सोहे ।
चंद्रनाथनी मूर्ति देखि सुर नर मन मोहे ॥
सोलहसेतितरे अष्टापद वर्णन कियो ।
अर्जुनसुत इम उचारे सुगंधदशमी पुरो थयो ॥ २७

(ना. १४)

लेखांक ७० - चंद्रप्रभ मूर्ति

शांतिसेन

शके १६७३ फाल्गुण वदी १२ रविवारे सेनगणे वृषभसेनगणधरान्वये
भ. शांतिसेनोपदेशान कारंजा महानगरे प्रतिष्ठापितं ॥

(कारंजा, भा. १३ पृ. १२८)

लेखांक ७१ - षोडशकारण यंत्र

शके १६७५ वर्षे भाद्रपद मासे मीत १२ मूलमंघे पुष्करगच्छे मेन-

गणे भ. श्रीशांतिसेनोपदेशतः का. व. चिंतामण ॥

(ना. ६१)

लेखांक ७२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शक १६७८ माघ सुद १४ मूलसंघे भ. शांतिसेनोपदेशात् प्रतिष्ठितं कारंजा ग्रामवास्तव्येन नेवाह्वाति फु. गोत्र पु. चिंतामणसा नित्यं प्रणमंति ॥

(पा. ५०)

लेखांक ७३ - [हरिवंश रास]

संवत् १८१६ परमाथी नाम संवत्सरे श्रीदेवलप्राम श्रीचंद्रप्रम-
चैत्यालये श्री भ. श्रीनरेंद्रसेन तत्पुत्रे श्रीशांतिसेनजी भ. सार्थकनामधेय तस्य
शिष्य श्री अर्जुका श्री शिखरश्रीजी तस्य शिष्य पंडित वानार्शिदासजी स्वहस्ते
लिख्यतं पठनार्थं श्रीरस्तु ॥

(ना. २०)

लेखांक ७४ - शांतिनाथ विनंति

झारखंड एसो हर देस तस मध्य ए नगरी बिसेस ।
अमरपुरी सम सोमे ठाम रामटेक दिसे अभिराम ॥ २
हंसा सुत सितलसा नाम खटवड गोत धरमको घाम ।
सकल स्वन्यात कुटुंब सहित यात्रा करि मनमा धरि प्रीत ॥ १४
मूलसंघ पुष्करगछ धनी शांतिसेन विद्यागुणमनी ।
तत सेवक नित चरने रहे गोमासा सुत रतन कहे ॥ १६
सके सोलसेने डसार चडत्र कृष्ण नवमी रविवार ।
ए विनती जे भणे नरनार तेह घर मंगल जयजयकार ॥ १७

(ना. ६३)

लेखांक ७५ -

...तानु कहे शांतिसेन गछपति संघ चतुर्विध सोभत पासे ॥ २
...पाट नरेंद्रसुसेनके राजत दर्जनथी सुखमंपति पावे ॥ ३

...मूलकि वेदरीके जिनमंदिर बंदतही मन हर्खे न माथे ।
सागरस्नान कराथो महामुनि पुण्यप्रताप भले जु तहाथे ॥ ५
...फूटान सेठिको नंदन धन्य सु सांत चंदावाडे कूख विराजे ॥ ६

(म. १२३)

लेखांक ७६ - विरुदावली

अनेकदेशाधिपतिपारसकेश्वरसभारंजितविद्वज्जनसेवितचरणारविंद-
श्रीगुणभद्र-वीरसेन-श्रुतवीर-माणिकसेन-गुणसेन-लक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम् ॥
निखिलतार्किकशिरोमणि -श्रीसोमसेन-माणिक्यसेन-गुणभद्र-अभिनवसोम-
सेनभट्टारकाणाम् ॥ तत्पट्टे निखिलजनरंजनगुणात्मविद्यानिधिश्रीजिनसेन-
भट्टारकाणाम् ॥ तदन्वये श्रीसमंतभद्रभट्टारकाणाम् ॥ तद्वंशे श्रीछत्रसेनभट्टा-
रकाणाम् ॥ तत्पट्टे श्रीमन्नरेद्रसेनभट्टारकाणाम् ॥ स्वस्तिश्रीमद्रायराजगुरु-
श्रीमदभिनवशांतिसेनतपोराज्याभ्युदयसमृद्धयर्थ ॥

(प. ८)

लेखांक ७७ - ? मूर्ति

सिद्धसेन

संवत १८२६ (शाके १६१८) वैसाख वदि ११ सेनगणे श्रीसिद्ध-
सेनगुरुपदेशात्... ॥

(आर्वी, अ. ४ पृ. ५०५)

लेखांक ७८ - सिद्धसेन गुरु आरती

श्रीमूळसंघाचे मंडन सकळकळापरिपूर्ण ।
पुष्करगच्छाचे निधान गुरुगौतमसम जाण ॥ २
शांतिसेनजीचे कर सिरी करवीर कोलापुरी ।
तेथुन चालले निरधारी कार्यरंजकपुरी ॥ ३
सेनगणाचे पटधारी सर्वासी अधिकारी ।
श्रीसिद्धसेन गुरु सुखकारी तत्त्वातत्त्व विचारी ॥ ४
संमत अठरासे सवीस वैशाख कृष्ण पक्ष ।
द्वादश तिथीस चरणासी रत्नचा लय लक्ष ॥१०

(ना. १२४)

लेखांक ७९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शके १६९२ श्रीसिद्धसेनगुरुरूपदेशात् वैशाख वदि १२ सेनगण ॥

(कारजा, मा. १४ घ. २८)

लेखांक ८० - मुनिसुव्रत मूर्ति

संवत् १८४६ कार्तिक सुद १४ मूलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे भ. शांतिसेनजी तत्पट्टे भ. सिद्धसेनजी प्रतिष्ठितं सा भिकासो जोहरापुरकर प्रणमितं ॥

(ना. ६२)

लेखांक ८१ - उपदेशरत्नमाला

... .. शुभचंद्र भट्टारक थोरी ॥ ४४
तत्पट्टधारी दिव्यमूर्ति । नामे असे सुमतिकीर्ति ॥ ४५
तद्गुरुभ्रात सकलभूषण । उपदेशरत्नमालाभिधान ॥
संस्कृत केले असे पुराण । ते ज्ञानिया कारण सुगम असे ॥ ४६
या पंचमकालामाजि मती । उत्तरोत्तरहीन होती ॥ ४८
या संस्कृताचे नवि जाति वाटे । म्हणोनिया श्लोक करी मन्हाटे ॥ ४९
अमरावती पुण्यनगरी । श्रीआदिनाथ जिनर्मदिरीं ॥
ग्रंथ आरंभिला थोरी । साह्यकारी असे शारदा ॥ ६३
संमत अठरासे एकोन्याहत्तर । श्रीमुखनामे संवत्सर ॥
चैत्र शुद्ध नवमी शुक्रवार । पावला ग्रंथ सार पूर्णता ॥ ६४
इति श्रीभट्टारक श्रीसिद्धसेन त्रिचसिध्याचार्यरत्नकीर्तिरचित उपदेश-
रत्नमाला ग्रंथे पट्कर्मधर्मनिरूपण नाम प्रसंग चाळिसावा ॥ ४० ॥

(ना. ९१)

लेखांक ८२ - सिद्धसेनगुरु पूजा-माधव

विद्वज्जनाभीष्टतमप्रमेयं गुणाकरं सर्वजनैकबंधं ।
श्रीशांतिसेनस्य पदाधिसेवं श्रीसिद्धसेनाख्यगुरुं यजेहं ॥

(ना. ६१)

लेखांक ८३ - सिद्धसेन स्तुति

महानगर कारंजकपूर मनोहर विश्रांती ।
 भट्टारक श्रीसिद्धयती महंत अधिपती ॥
 सेनगणाम्नाये पट्टघारि जो परम गुरु निपुन ।
 पुष्करगच्छ निवासे नामे पार्श्वनाथ जिन ॥
 शांतिसेन पट्टांबुज महिवरि जाला उद्योत ।
 षट्शास्त्रादिक पूर्ण मनोहर गुणस्थानी श्रुत ॥
 मिळोनिया श्रीसंघ सदोदित जिनभुवना जाती ।
 त्रिकाळ पूजा विधिविधान न्हवनासी करिती ॥
 सहस्रकूट चैत्यालय मांडन काढोनि रंगविती ।
 ॐ व्ही वीजाक्षर हे दोन्ही अक्षर मध्ये वरती ॥
 या दो वचने जे प्रियकर ते वदा कृपामूर्ती ।
 कर जोढोनि म्हणे राघव करुणा असु द्यावी चित्ती ॥

(म. ९८)

लेखांक ८४ -

कामधेनुको ध्यान कामना पूर्णज कहि है ।
 ऐसे श्रीसिद्धसेन सेनगण गच्छपति है ॥
 पुष्कर सागर नगर कारंजा खासा ।
 अर्जुनसा हीरेका पारखी साच कहे येमासा ॥

(ना. ६३)

लेखांक ८५ - चरणपादुका

लक्ष्मीसेन

सं. १८९९ का वर्षे भित्ति चैत्र सुदि १० सौम्यवासरे गौतमस्वामी
 गणधरजीकी चरणपादुका स्थापिता नागपुरमध्ये कारंजा पट्टाधीश भ.
 श्रीलक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ठापिता सेनगणे ॥

(ना. ६३)

सेनगण

सेनगण भट्टारक-परंपरा के दो प्राचीनतम रूपों में से एक है^१। इस का सर्व प्रथम स्पष्ट उल्लेख उत्तरपुराण की प्रशस्ति में पाया जाता है [लेखांक ८]। इस प्रशस्ति के साथ पूर्ववर्ती साधनों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि सेन गण का पूर्वरूप पंचस्तूपान्वय था [ले. १]। कुछ उत्तर कालीन लेखों में सूरस्थ या शूरस्थ गण ऐसा इस का नामान्तर मिलता है [ले. ६१, ६५]। यदि शूरस्थ का अर्थ शूरसेन देश अर्थात् मथुरा के पास से निकला हुआ लिया जाय तो मथुरा के पांच स्तूपों के आधार पर पंचस्तूपान्वय नाम से इस का सामंजस्य हो सकता है। किन्तु सूरस्थ गण के प्राचीन उल्लेखों से वह एक पृथक् ही गण मालूम होता है [ले. १०, १५] जिस का संबंध संभवतः सौराष्ट्र से है [ले. १३]।

प्राचीन लेखों में सेन गण के साथ पोगरि गच्छ का उल्लेख आता है [ले. ११, १२]। उत्तर कालीन लेखों में इस का स्थान पुष्कर गच्छ में लिया है [ले. २१, २४, ३२ आदि]। ये दोनों नाम एक ही नाम के दो रूप हैं। पुष्कर शुद्ध संस्कृत रूप है, और पोगरि कनड़ी रूप है। आंध्र प्रदेश में पोगरि नामक स्थान है किन्तु उस के पुरातत्त्व का संशोधन नहीं हुआ है। राजस्थान के पुष्कर सरोवर का लोकभाषा में पोखर ऐसा रूपांतर हुआ है। इन दोनों में मूल रूप कौन सा है यह अनुसंधान की अपेक्षा रखता है।

सेनगण के साथ जुड़ा हुआ एक विशेषण ऋषभसेनान्वय है [ले. २१, २४, ३२ आदि] जो स्पष्टतः कुदकुंदाचार्यान्वय का अनुकरण मात्र है। इतिहास से ज्ञातकालमें ऋषभसेन नाम के कोई प्रसिद्ध आचार्य सेनगण में नहीं हुए हैं।

इस परंपरा का पहला उल्लेख आचार्य वीरसेन विरचित धवला टीका

१ दूसरा प्राचीन रूप पुत्राट संघ है।

की प्रशस्ति में आता है [ले. १] । आचार्य धरसेन से उपदेश पाकर आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलिने दूसरी सदीमें महाकर्मप्रकृतिप्राप्त अथवा पट्टखंडागम की रचना की थी । इस पर कुदकुद, समंतभद्र, तुम्बुल्लर, शामकुण्ड, वप्पभट्टि आदि आचार्योंने व्याख्याएं लिखीं थीं । चित्रकूट पुर के आचार्य एलाचार्यसे इस सिद्धान्तशास्त्र का अध्ययन कर के तथा अनेक सूत्र पुस्तकों का अवलोकन कर के उस के पहले पाच खंडों पर आचार्य वीरसेन ने संस्कृत तथा प्राकृत की मिश्र शैली में विशाल टीका लिखी तथा उपरिंतम निबंधन आदि प्रकारणों का एक छोटा खण्ड उसे जोड़ दिया । इस ग्रंथ का विस्तार ७२ सहस्र श्लोकों जितना हुआ । आचार्य वीरसेन के प्रगुरु आचार्य चंद्रसेन थे और गुरु आर्य आर्यनन्दि थे । उन के इस ग्रंथ की समाप्ति शक ७३८ की कार्तिक शुक्ल १३ को हुई जब महाराज बोद्धणराय सम्राट् थे^२ ।

आचार्य वीरसेन के बाद संभवतः आचार्य पद्मनदि पट्टाधीश हुए थे [ले. ५] । इन का कोई दूसरा उल्लेख नहीं मिलता ।

वीरसेन के ज्येष्ठ शिष्य विनयसेन थे [ले. ४] । किन्तु उन के प्रमुख शिष्य जिनसेन थे । आप की तीन कृतियां उपलब्ध हैं । आचार्य गुणधर ने दूसरी सदी में लिखे हुए कसायपाहुड ग्रंथ पर आचार्य वीरसेन ने टीका लिखना आरम्भ किया था जिसे वे पूरी नहीं कर सके । जिनसेन ने शक ७५९ की फाल्गुन शुक्ल १० को नदीश्वर महोत्सव में वाटग्राम में रहते हुए सम्राट् अमोघवर्ष के राजत्व काल में उसे समाप्त किया और आचार्य श्रीपाल द्वारा उस का संपादन कराया [ले. २] । इस की संज्ञा जयधवला है ।

२ प्रशस्ति का पाठ अशुद्ध है जिस का संपादक डॉ. जैन द्वारा किया गया रूपान्तर यहाँ दिया है । आप के अनुसार उस समय राष्ट्रकूट सम्राट् जगत्सिंग का साम्राज्य काल पूरा हो कर सम्राट् अमोघवर्ष ने हाल ही राज्य भार ग्रहण किया था तथा बोद्धणराय अमोघवर्ष का ही नामान्तर था । बाबू ज्योतिप्रसाद जैन ने प्रशस्ति का दूसरा अर्थ प्रस्तुत करते हुए उस का समाप्ति काल संवत् ८३८ माना है तथा उस समय जगत्सिंग गोविन्द सम्राट् थे ऐसा सूचित किया है (अनेकान्त ८ पृ. ९७) ।

आ. जिनसेन की दूसरी महत्त्वपूर्ण कृति आदिपुराण है जो महा-पुराण का पूर्वार्ध है। भगवान् ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत के इस पुराण के ४३ पर्व लिखने के बाद आप का स्वर्गवास हुआ था। इस पुराण के तीसरे पर्व में आप ने उस के उपदेश की परंपरा का विस्तार से वर्णन किया है जिस से प्रतीत होता है कि आप की रचना का मुख्य आधार कवि परमेश्वर रचित वागर्थसंग्रह पुराण रहा था [ले. ३]। आदिपुराण बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण, काव्य, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि का इस में सुंदर समन्वय मिलता है। समकालीन समाजजीवनका नेतृत्व करने की क्षमता उस में पद पद पर व्यक्त हुई है।^३

कालिदास विरचित मेघदूत के चरणों की समस्यापूर्ति कर के भगवान् पार्श्वनाथ की केवलज्ञान प्राप्ति का वर्णन करनेवाला पार्श्वाम्बुदय काव्य आ. जिनसेनने गुरुब्रंधु विनयसेन की प्रेरणा से लिखा। तब अमोघवर्ष सम्राट् थे [ले. ४]।

आ. जिनसेन की अधूरी कृति महापुराण उन के शिष्य गुणभद्र ने पूरी की [ले. ७]। आदिपुराण के ५ और उत्तरपुराण के ३० पर्व इतना उन की रचना का विस्तार है। आत्मानुशासन यह आप की दूसरी रचना है जो वैराग्यपर-सुभाषितों का अच्छा संग्रह है [ले. ६]।^४ देवसेन कृत दर्शनसार के अनुसार आप महातपस्वी, पक्षोपवासी और भावलिङ्गी मुनि थे [ले. ५]। उत्तर पुराण की प्रशस्ति में आप के गुरु के रूप में जिनसेन और दशरथगुरु का स्मरण किया गया है [ले. ८]।

आचार्य गुणभद्र के शिष्य लोकसेन थे। उत्तर पुराण की प्रशस्ति संभवतः आप की ही रची हुई है। यह प्रशस्ति शक ८२० के आश्विन

३ आ. वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र का विस्तृत परिचय पं. नाथूरामजी प्रेमी द्वारा दिया गया है (जैन साहित्य और इतिहास)।

४ गुणभद्र की एक और रचना जिनदत्तचरित्र, जो ९ सर्गों का संस्कृत काव्य है, प्रकाशित हो चुकी है (मा. दि. जै. ग्रंथमाला ७, चम्बई १९१६)।

शुक्र ५ को अकालवर्ष के सामन्त लोकादित्य की राजधानी वकापुर मे लिखी गई थी [ले. ८] । इस के अनुसार उत्तर पुराण की रचना में लोकसेन का भी साहाय्य मिला था ।

लोकसेन के बाद सेनसंघ का उल्लेख शक ८२४ के एक दान शासन में हुआ है [ले. ९] । यह दान श्रीकृष्ण वल्लभ के सामन्त विनयांबुधि के प्रदेश धवल में मुळगुंद नगर के जिनमंदिर के लिए अरसार्य ने दिया था । यह मंदिर उस के पिता चिक्कार्य ने बनाया था । दान कुमारसेन के प्रशिष्य तथा वीरसेन के शिष्य कनकसेन को दिया गया था ।

सूरस्थ गण के वज्रपाणि पंडितदेव को पोयसळ वंशीय विनयादित्य के राजत्व काल मे शक ९२४ की चैत्र शुक्र १० को कुछ दान दिया गया था वह इस परंपरा का अगला उल्लेख है [ले. १०] ।

इस के अनंतर ब्रह्मसेन के प्रशिष्य तथा आर्यसेन के शिष्य महासेन का उल्लेख मिलता है । इन्हें कोम्भराज के पुत्र चाकिराज ने पोन्नवाड नगर मे स्वनिर्मित शांतिनाथमंदिर के लिए चालुक्य वंशीय त्रैलोक्यमल्ल महाराज की सम्राज्ञी केतलदेवी से विज्ञप्ति कर के शक ९७६ की वैशाख अमावास्या को सूर्यग्रहण के निमित्त कुछ दान दिया [ले. ११] ।

इन के अनंतर चालुक्य वंशीय राजा त्रिभुवनमल्ल के समय संवत् ११३४ की पौष शुक्र ७ को उत्तरायण सक्रांति के दिन चालुक्य-गंग-पेरमनिडि जिनालय के लिए राजधानी ब्रळिगगावे में सेनगण के रामसेन पंडितदेव को कुछ दान दिया गया [ले. १२] । इसी लेख मे किन्ही गुणभद्रदेव की मूर्ति का उल्लेख है ।

सुराष्ट्र गण के रामचद्रदेव की शिष्या अरसव्ने का उल्लेख शक १०१७ की भाद्रपद शुक्र ७ के एक लेख मे किया है [ले. १३] ।

सेन गण के चद्रप्रभ सिद्धान्तदेव के शिष्य माधवसेन भट्टारक को संवत् ११८१ की माघ शुक्र ५ को कुछ दान दिया गया था [ले. १४] ।

सूरस्थ गण के पल्लपंडित का उल्लेख शक १०४६ के एक लेख में हुआ है जिस में उन्हें पाल्यकीर्ति^५ के समान प्रसिद्ध कहा है [ले. १५]। इन की गुरुपरंपरा अनंतवीर्य—बाळचंद्र—प्रभाचंद्र—कलनेलेदेव—अष्टोपवासी—हेमनंदि—विनयनंदि—एकवीर ऐसी है। पल्लपंडित एकवीर के गुरुबंधु थे।

मुनिसेन के शिष्य श्रीधरसेन ने संस्कृत शब्दों का एक कोष लिखा है जिस का नाम मुक्तावली या विश्वलोचन कोष है [ले. १६]। इस कोश की विशेषता यह है कि इस में अकारान्त क्रम से शब्दों की रचना की गई है। श्रीधरसेन का समय संभवतः १४ वीं सदी है।

सेन गण की पट्टावली^६ में उल्लिखित आचार्यों में सोमसेन से कुछ ऐतिहासिक स्वरूप दिखाई देता है^७। सोमसेन का वर्णन कर्णाटकराज द्वारा पूजित ऐसा किया गया है [ले. १७]।

इन के बाद श्रुतवीर का उल्लेख है [ले. १८]। आप अलकेश्वरपुर से भड़ौच गये थे जहां आप ने महमदशाह की सभा में समस्यापूर्ति की थी। इस के कारण सारे लोगों की नजर लग जाने से सिर्फ अठारह साल की आयु में ही आप स्वर्गस्थ हो गये।^८

५ शाकटायण व्याकरण, स्त्रीमुक्तिकेवल्लिमुक्ति प्रकरण आदि के कर्ता जो ९ वीं सदी में हुए थे।

६ इन के समय तथा मेदिनी और हेमचंद्र के प्रभाव के लिए देखिए जैन सि. भा. वर्ष ९ में श्री. गोडे का लेख।

७ इस की प्रकाशित प्रति के लिए देखिए जैन सि. भा. वर्ष १ पृ. ३८। यहाँ उपयुक्त प्रति कुछ भिन्न और अधिक अच्छी माध्यम होने से उसी का उपयोग किया गया है।

८ पहले जिन का उल्लेख आ चुका है उन के अतिरिक्त पट्टावली में इस के पहले लक्ष्मीसेन, रविषेण, रामसेन, कनकसेन, बंधुषेण, विष्णुसेन, मल्लिषेण, शिवायन, महावीर, भावसेन, अरिष्टनेमि, अर्हद्ब्रह्मि, अजितसेन, गुणसेन, सिद्धसेन, समन्तभद्र, शिवक्रोदि, नेमिसेन, छत्रसेन, लोहसेन, सूरसेन, कमलभद्र, देवेंद्रसेन, तुल्लभसेन, श्रीषेण और लक्ष्मीसेन इन का वर्णन किया गया है।

९ अलकेश्वर शायद अंकलेसर का रूपान्तर है जो गुजरात में है। उल्लिखित

इन के अनंतर धारसेन का उल्लेख है [ले. १९]। इन का भंभेरी के धनेश्वर मठ के साथ कुछ विवाद हुआ था ।^{१०}

इन के बाद देवसेन का उल्लेख है। इन के एक शिष्य ने समयसार की एक प्रति लिखि थी^{११}। इस का लेखन स्थान खानदेश जिले का धरणगांव था [ले. २०]।

इन के पट्ट पर सोमसेन अधिष्ठित हुए [ले. २१; २२]। विदर्भ स्थित कारंजा शहर मे इन के शिष्य बघेरवाल ज्ञातीय साह पूनाजी खटोड रहते थे। आप ने १०८ मंदिर बनवाये थे और १८ स्थानों पर शास्त्र मांडार स्थापित किये थे। चित्तौड किले पर चंद्रप्रभमंदिर के सामने आप ने एक कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया था।^{१२} आप का यह वृत्तान्त जिस लेख से मिलता है उस मे संवत् १५४१ और शक १४९१ के अंक हैं जो गलत हैं क्यो कि इन दोनो मे उक्त क्रोधिन संवत्सर नहीं आता है। यह विषय अनुसंधान की अपेक्षा रखता है।

इन के पट्ट पर गुणभद्र विराजमान हुए [ले. २३, २४]। आप ने संवत् १५७९ मे एक जलयंत्र प्रतिष्ठापित किया था।

आप के बाद क्रमशः वीरसेन और युक्तवीर पट्ट पर आए। वीरसेन ने कर्णाटक मे उपदेश दिया था^{१३} [ले. २५, २६]।

शासक संभवतः सुल्तान महमदशाह बेगडा है जिसका राज्य काल सन १४५८-१५११ ईसवी है।

१० यह गाव विदर्भ के अकोला जिले मे है।

११ यह प्रति संवत् १५१० की लिखी है। उस के ८० वे पृष्ठ पर यह लेख है। इस की पूरी प्रशस्ति के लिए (ले. ५६५) देखिए।

१२ इस के विषय मे मतान्तरो की चर्चा के लिए अनेकान्त वर्ष ८ पृ. १४२ में मुनि कान्तिसागर का लेख देखिए।

१३ संभवतः इन्ही का उल्लेख म. सोमकीर्ति के एक लेख मे हुआ है (ले. ६५१)। इनके एक और सम्भव उल्लेख के लिए देखिए नोट ८४।

युक्तवीर के पट्ट पर माणिकसेन प्रतिष्ठित हुए। इन ने शक १४२४ मे एक अरहंत मूर्ति स्थापित की [ले. २७, २८]।

इन के बाद क्रमशः गुणसेन और लक्ष्मीसेन पट्टाधीश हुए। गुणसेन का नामान्तर गुणभद्र था। लक्ष्मीसेन ने एक नंदीश्वर मूर्ति और एक अनंत यंत्र प्रतिष्ठापित किया किन्तु इन दोनों पर संवत् का निर्देश ठीक नहीं है [ले. २९-३३]। सोमविजय ने आप की स्तुति की है।

आप के बाद सोमसेन पट्टाधीश हुए। कृष्णपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र इन्हीं की रचना है^१। इन ने संवत् १५९७ में कोई मूर्ति प्रतिष्ठापित की (ले. ३४-३६)।

इन के बाद क्रमशः माणिक्यसेन और गुणभद्र महारक हुए (ले. ३७-३८)।

गुणभद्र के शिष्य सोमसेन दीर्घकाल तक पट्टाधीश रहे। इन ने संवत् १६५६ के श्रावणमें रविषेण कृत पद्मचरित के आधार पर संस्कृत में रामपुराण की रचना की (ले. ३९)। शब्दरत्नप्रदीप नामक संस्कृत कोश की संवत् १६६६ में उदयपुर में लिखी गई एक प्रति पर आप का नाम अंकित है (ले. ४०)। धर्मरसिक त्रैवर्णिकाचार नामक संस्कृत ग्रंथ आप ने संवत् १६६७ की कार्तिक पौर्णिमा को पूरा किया (ले. ४१)। शक १५६१ की फाल्गुन शुक्ल ५ को आप ने पार्श्वनाथ और संभवनाथ की मूर्तियां प्रतिष्ठापित कीं (ले. ४२, ४३)। आप के शिष्य अमय पंडित ने रविव्रत कथा लिखी है (ले. ४४)।

सोमसेन के पट्ट पर जिनसेन आसीन हुए। आप ने शक १५७७ की मार्गशीर्ष शुक्ल १० को पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की (ले. ४५)। शक १५८० में आप ने पद्मावती की मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. ४६)। यह

१४ अगले लेख को देखते हुए कृष्णपुर कालवाढा का संस्कृत रूप प्रतीत होता है। यह मूल जिले में है।

प्रतिष्ठा कारंजा मे हुई थी। शक १५८१ की फाल्गुन शुक्ल १३ को चववर्षा माणिक ने रत्नाकर विरचित समवशरण पाठ की एक प्रति आप को अर्पण की (ले. ४७)। शक १५८२ की फाल्गुन शुक्ल ७ को आपने एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ४८)। इसी प्रकार शक १६०७ मे जाली ग्राम मे आप ने एक मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. ४९)। अचलपुर मे आप को एक बार सर्पदश हुआ और दूसरी बार धोखे से भोजन मे वचनाग की बाधा हुई किन्तु दोनो बार विपापहार स्तोत्र के पठन से ही आप नीरोग हो गये। आप हूंबड जाति के रायमल साह के पुत्र थे। आप की जन्मभूमि खंभात थी। आप का विद्याभ्यास पद्मनद्विजी^{१५} के पास और पद्मभियेक कारंजा मे हुआ था। आप ने गिरनार, सम्मेद्र शिखर, माणिक्यस्वामी आदि यात्राएं कीं। आप के द्वारा सोयरासाह, निंवासाह, माधवसाह, गनबासाह और कान्हासाह इन पांच व्यक्तियों को सघपति पद प्राप्त हुआ। अंतिम समारोह रामटेक मे हुआ था (ले. ५०)। पूरनमल ने आप की स्तुति की है (ले. ५१) और आप की मयूरपिच्छी का उल्लेख किया है।

जिनसेन के उत्तराधिकारी समन्तभद्र हुए। इन का कोई उल्लेख नहीं मिला है। इन के बाद छत्रसेन भद्दरक हुए। आप ने संवत् १७५४ मे एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की (ले. ५२)। आप का निवास कारंजा मे था (ले. ५३)। द्रौपदीहरण, समवशरण पट्पदी, मेरुपूजा, पार्श्वनाथपूजा, झूलना, अनतनाथ स्तोत्र और पद्मावती स्तोत्र ये कृतियां आप ने लिखीं (ले. ५३-५९)। आप के शिष्य हीरा ने संवत् १७५४मे कडतसाह से प्रेरणा पाकर वृधणपुर^{१६} मे अनिरुद्धहरण की रचना की (ले. ६०)। छत्रसेन की एक आरती भी उपलब्ध है (ले. ६१)। अर्जुनसुत और त्रिहारीदास ने आप की प्रशंसा की है (ले. ६२, ६३)।

१५ संभवतः बलात्कार गण-ईडर शाखा के रामकीर्ति के पद्मभियेक पद्मनदि ही यहा उल्लिखित है।

१६ यह संभवतः बुन्हाणपुर का संस्कृत रूपांतर है।

इन के अनंतर नरेन्द्रसेन पट्टाधीश हुए। आप ने शक १६५२ मे एक ज्ञानयंत्र प्रतिष्ठित किया [ले. ६४]। सूरन मे रहते हुए आप ने संवत् १७९० मे आश्विन कृष्ण १३ को यशोधरचरित की प्रति लिखी [ले. ६५]। आप की पूजा से आप की गुरुपरंपरा की नामावली मिलती है [ले. ६६]। आप ने पार्श्वनाथ पूजा और वृषभनाथ पाळणा ये रचनाएँ लिखीं [ले. ६७, ६८]। आप के शिष्य अर्जुनसुत सोयरा ने कैलास छप्पय लिखे^{१०} जिन मे आप की चंपापुर यात्रा का भी उल्लेख है। कैलास छप्पय की रचना देवलगांव मे हुई थी [ले. ६९]।

नरेन्द्रसेन के पट्ट पर शान्तिसेन प्रतिष्ठित हुए। आप ने कारंजा मे शक १६७३ की फाल्गुन कृष्ण १२ को एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (ले. ७०)। शक १६७५ की भाद्रपद शुक्ल १२ को आप ने एक पोढश कारण यंत्र प्रतिष्ठित किया (ले. ७१)। शक १६७८ की माघ शुक्ल १४ को पार्श्वनाथ की एक मूर्ति आप के द्वारा प्रतिष्ठित हुई (ले. ७२)। आप की शिष्या शिखरश्री के शिष्य वानार्शिदास ने संवत् १८१६ मे देवलगांव मे हरिवंश रास की एक प्रति लिखी (ले. ७३)। आप के शिष्य रतन ने रामटोक यात्रा के समय^{११} शान्तिनाथ की एक त्रिनती बनाई थी (ले. ७४)। आप के एक शिष्य तानू के कवित्तों से पता चलता है कि आप फटानसेठ और चंदावाई के पुत्र थे तथा आप ने सागरस्नान किया और विठर कं जिन मंदिर के दर्शन किये थे (ले. ७५)।

शान्तिसेन के बाढ सिद्धसेन पट्टाधीश हुए। आप ने संवत् १८२६ की वैशाख कृष्ण ११ को कोई मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. ७७)।^{१२} इस के दूसरे ही दिन साह रतन ने आप की एक आरती बनाई जिस मे कहा

१० इन की रचना का शक प्रचलित मे दिया है। किन्तु उस का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

११ इस का शक निर्देश भी स्पष्ट नहीं है।

१२ इस का शक निर्देश गलत है।

गया है कि शान्तिसेन से आप की मुलाकात कोल्हापुर मे हुई और वहां से आप कारंजा पधारे थे (ले. ७८) । इसी समय आप के द्वारा एक पार्श्वनाथ मूर्ति भी स्थापित हुई थी (ले. ७९) । संवत् १८४६ की कार्तिक शुक्ल १४ को आप ने एक मुनिसुत्रत मूर्ति स्थापित की (ले. ८०) । आप के प्रिय शिष्य रत्नकीर्ति ने संवत् १८६९ की चैत्र शुक्ल ९ को सकलभूषण कृत पद्कर्मोपदेश रत्नमाला ग्रन्थ का मराठी श्लोकवद्ध अनुवाद अमरावती मे पूरा किया (ले. ८१) । आप की एक पूजा माधव द्वारा और एक स्तुति राघव द्वारा बनाई गई है (ले. ८२-८३) । येमासाह ने आप की प्रशंसा की है (ले. ८४) ।

सिद्धसेन के पट्ट पर लक्ष्मीसेन अभिपिक्त हुए । आप ने संवत् १८९९ की चैत्र शुक्ल १० को नागपुर मे गौतम गणधर पादुकाओं की स्थापना की ।^१

२० स्थानिक अनुश्रुति से पता चलता है कि लक्ष्मीसेन का स्वर्गवास संवत् १९२२ मे हुआ । उन के कोई तेरह वर्ष बाद मुडवित्री से आए हुए कुमार चंद्रय्या पट्टाभिपिक्त किये गये तथा आप का नूतन नाम वीरसेन रखा गया । आप की आयु उस समय २८ वर्ष थी । कोई ६० वर्ष तक पट्टाधीन रह कर आप ने कई मूर्ति प्रतिष्ठाएं कीं । इन मे नागपुर, कलमेश्वर, कारंजा, पिंपरी, भातकुली आदि स्थानों की प्रतिष्ठाएं विशेष महत्त्वपूर्ण रहीं । आचार्य कुदकुंद कृत समयसार पर आप की बहुत श्रद्धा थी तथा उस विषय पर आप के प्रवचन बहुत अच्छे हुआ करते थे । आप का स्वर्गवास ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया संवत् १९९५ मे हुआ । आप की समाधि कारंजा मे है ।

(सैनगण-कालानुक्रम)

- १ चन्द्रमेन
 २ आर्यनन्दि
 |
 ३ वीरसेन (संवत् ८७३)
 |
 ४ विनयसेन ५ जिनसेन (संवत् ८९४)
 |
 ६ गुणभद्र
 |
 ७ लोकमेन (संवत् ९५४)
 ८ कुमारसेन
 |
 ९ वीरसेन
 |
 १० कनकसेन (संवत् ९५८)
 ११ वज्रपाणि (संवत् १०५८)
 १२ ब्रह्मसेन
 |
 १३ आर्यसेन
 |
 १४ महासेन (संवत् १११०)
 १५ रामसेन (संवत् ११३४)
 १६ गमचंद्र (संवत् ११५१)
 १७ चंद्रप्रभ
 |
 १८ माधवसेन (संवत् ११८१)
 १९ अनन्तवीर्य
 |

- २० वाळचन्द्र
।
२१ प्रभाचन्द्र
।
२२ कल्पनेत्रे देव
।
२३ अष्टोपवासि देव
।
२४ हंसनन्दि
।
२५ विनयनन्दि
।
२६ णकवीर
२७ पल्ल पण्डित (मवत् ११८०)
२८ मुनिसन
।
२९ श्रीधरसेन
३० सोमसेन
।
३१ श्रुतवीर

३२ धारसेन
।
३३ देवसेन (संवत् १५१०)
।
३४ सोमसेन (मवत् १५४१)
।
३५ गुणभद्र (सवत् १५७९)
।
३६ वीरसेन
।
३७ युक्तवीर
।

- ३८ माणिकसेन (संवत् १५५८ ,
 |
 ३९ गुणसेन (गुणभद्र)
 |
 ४० लक्ष्मीसेन
 |
 ४१ सोमसेन (संवत् १५९७)
 |
 ४२ माणिक्यसेन
 |
 ४३ गुणभद्र
 |
 ४४ सोमसेन (सं. १६५६-१६९६)
 |
 ४५ जिनसेन (सं. १७१२-१७४२)
 |
 ४६ समन्तभद्र
 |
 ४७ छत्रसेन (संवत् १७५४)
 |
 ४८ नरेन्द्रसेन (सं. १७८७-१७९०)
 |
 ४९ शान्तिसेन (सं. १८०८-१८१६)
 |
 ५० सिद्धसेन (सं. १८२६-१८६९)
 |
 ५१ लक्ष्मीसेन (सं. १८९९-१९२२)
 |
 ५२ वीरसेन (सं. १९३६-१९९५)

२. बलात्कार गण - प्राचीन

लेखांक ८६ - पुराणसार

श्रीचंद्र

धारायां पुरि भोजदेवनृपते राज्ये जयत्युच्चकैः
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्जात्वा पुराणं महत् ।
मुक्त्यर्थं भवभीतिभीतजगतां श्रीनंदिशिष्यो बुधो
कुर्वे चारु पुराणसारममलं श्रीचंद्रनामा मुनिः ॥
श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे सप्तत्यधिकवर्षसहस्रे
पुराणसाराभिधानं समाप्तम् ॥

[अ. २ पृ. ५८]

लेखांक ८७ - उत्तरपुराण टिप्पण

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामग्नीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपद-
विवरणं सागरसेन परिज्ञाय मूलटिप्पणं चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं
आज्ञापातमीतेन श्रीमद् बलात्कारगणश्रीनंदाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्र-
मुनिना निजदोर्दण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य राज्ये ॥

[उपर्युक्त]

लेखांक ८८ - पद्मचरित टिप्पण

बलात्कारगणश्रीश्रीनंदाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना श्रीमद्वि-
क्रमादित्यसंवत्सरे समाशीत्यधिकवर्षसहस्रे श्रीमद्वारायां श्रीमतो भोजदेवस्य
राज्ये पद्मचरिते... ॥

[उपर्युक्त]

लेखांक ८९ - ब्रेळगामि शिलालेख

केशवनंदि

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयश्रीपृथ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्वरभट्टा-
रक-सत्याश्रयकुळतिलक-चालुक्याभरणं श्रीमत् त्रैलोक्यमद्भदेवर विजयराज्यं
प्रवर्तिसे तत्पादपद्मोपशोभितोत्तमांगं स्वस्ति समधिगनपंचमहागद्द-महा-
मंडलेश्वरं वनवासिपुरवरोश्वरं महालक्ष्मीलब्धवरप्रमादं श्रीमन्महामंडलेश्वरं
चाण्डरायरसर् वनवासिपन्निर छासिरमनाल्लुत्तमिरल राजधानिविद्विग्नायेच

नेले वीढिनोळ् शक वर्ष ९७० नेय सर्वधारीसंवत्सरद ज्येष्ठशुद्धत्रयोदशी
आदित्यवारदन्दु जजाहुति-श्रीगांतिनाथसंबंधियप्प वळ्गारगणद मेघनंदि-
भट्टारक शिष्यरप्प केशवनदि अष्टोपवासिभट्टारर वसदिगे पूजानिमित्तदि
धारापूर्वकं जिह्हुळिगे ७० र वळिय राजधानिवळ्ळिगावेय पुळ्हेय वयलोळ्
भेरुण्डगळेयोळ् कोट्ट गळ्दे मत्तरय्हु अदर सीमे... ॥

[जैन शिलालेख संग्रह भा. २ पृ. २२०]

लेखांक ९० - बलगाम्बे शिलालेख

केशवदेव

स्वस्ति श्रीचित्रकूटान्नायदावलि मालवद शांतिनाथदेवसंबंध श्रीवळा-
त्कारगण मुनिचंद्रसिद्धांतदेवर गिसिलु अनंतकीर्तिदेवरु हेगाडे केसवदेवगे
धारापूर्वकं माढिकोटेबु प्रथिष्टे पुण्य सांति... ॥

[उपर्युक्त पृ. २६५]

लेखांक ९१ - कोणूर शिलालेख

पद्मप्रभ

श्रीरमणीभासि वळ्त्कारगणांभोधि कोण्डनूरोळ् निधिगं ।
भूरमणीमकुटाळंकारदि नेसेदोप्पि तोर्पं जिनमंदिरसं ॥ १२
उदयगिरींद्रदोळेसेवय्त्तुदितोदयवागिवळेप चंद्रन तेरद-
न्तुदियिसिदं कुवळयकभ्युदयकरं तद्रणाद्रियोळ् गणचंद्रं ॥ १७
पक्षोपवासिदेवनघक्षय तन्मुनिपदाऽजमघुकरशीळं ।
रक्षितगुणगणनिळयमुमुक्षुजनानांदियप्प नयनांदिनुधं ॥ १८
आ नयनंदिय शिष्यं नानाविद्याविलासनूर्जिततेजं ।
श्रीनारीनाथनवोळ् सूनुतना श्रीधरार्थयतिपतितिळकं ॥ १९
तन्मुनिपदाऽजमघुकरनुमदमिध्याकथाविमथनं मुनिपं ।
सन्मार्गिचंद्रकीर्ति वियन्मार्गद चंद्रनंते कुवळयपूज्यं ॥ २०
अतिचतुरकविचकोर प्रततिदरस्मेरनयनमीटिदपुदुदं-
वितकर्णचंचुपुटदिं श्रुतिकीर्तिमुनींद्रचंद्रवाक्चंद्रिकेय ॥ २१
श्रीधरदेवं सुयशः श्रीधरनधिगतसमस्तजिनपतितत्त्व-
श्रीधरनेसेदं सद्वाक् श्रीधरना चंद्रकीर्तिदेवन तनयं ॥ २२
आ मुनिमुख्यन शिष्यं श्रीमच्चारित्रचक्रिसुजनविळ्ळसं

भूमिपकिरीटताडितकोमळनखरश्मिनेमिचंद्रमुनींद्रं ॥ २३
 श्रीधरवनजदसिरियं साधिपेनेवंतिरेसेव मधुपन तेरनं
 श्रीधरपदसरसिजदोळ् साधिपवोलेसेदु वासुपूज्यं पोस्तं ॥२४
 वृंहितपरमतमदकरिसिंहं त्रैविद्यवासुपूज्यानुजनुद्
 घांसस्संहरनेसेदं संहृतकामं यशस्विमळयाबुधं ॥ २७
 अतिचतुरकविकदंघकलुत्तपद्मप्रभमुनीशराद्धांतेशं ।
 श्रुतकीर्तिप्रियनेसेसं यतिपत्रैविद्यवासुपूज्यतनुजं ॥ २८
 स्वस्ति श्रीमन्बालुक्क्यविक्रमकालद् १२ नेय प्रभवसंवत्सरद् पौषकृष्ण-
 चतुर्दशी वङ्ग वारदुत्तरायण संक्रांतियंदु... ॥

(उपर्युक्त पृ. ३३६)

लेखांक ९२ - नेसर्गी शिलालेख कुमुदचंद्र

श्रीमूलसंघद् बलात्कारगणद् श्रीपार्श्वनाथदेवर श्रीकुमुदचंद्रभट्टारक-
 देवर गुड्ड वाडिगसात्ति सेट्टियरु मुख्यवागिनखरंगळु माडिसिद् नखर
 जिनालय ॥

(उपर्युक्त पृ. ३६४)

लेखांक ९३ - संभवनाथ मूर्ति देशनंदी

संवत् १२५८ श्रीबलात्कारगणे पंडित श्रीदेशनंदी गुरुवर्यवरान्वये साधु
 सीलेण तस्य भार्या हर्षिणी तयोः सुत साधु गासूल सांतेण प्रणमति नित्यं ॥

(पावागिरि, अ. १२ पृ. १९२)

लेखांक ९४ - सोनागिरि शिलालेख कनकसेन

मंदिर सह राजत भये चंद्रनाथ जिन ईस ।
 पोश सुदी पूनम दिना तीन सतक पैतीस ॥
 मूलसंघ अर गण करो बलात्कार समुहाय ।
 श्रवणसेन अर दूसरे कनकसेन दुड भाय ॥
 बीजक अक्षर वांचके कियो सुनिश्चय राय ।
 और लिख्यो तो ग्रहुतसो नहि पन्यो लखाय ॥

(भा. ५ पृ. १९५)

लेखांक ९५ - विंध्यगिरि शिलालेख

वर्धमान

श्रीमूलसंघपयःपयोधिवर्धनसुधाकराः श्रीबलात्कारगणकमलकलिका-
कलापविकचनदिवाकराः...वनवा...त कीर्तिदेवाः तत्शिष्याः रायमुजसुदाम
...आचार्यमहावादिवादीश्वर-रायवादिपितामह-सकलविद्वज्जनचक्रवर्ति-देवेंद्र-
विशालकीर्तिदेवाः तत्शिष्याः भट्टारकश्रीशुभकीर्तिदेवास्तत्शिष्याः कलिकाल-
सर्वज्ञभट्टारक-धर्मभूषणदेवाः तत्शिष्याः श्रीअमरकीर्त्याचार्याः तत्शिष्याः
मालिर्वा...तिनृपाणां प्रथमानल...रसित...नुतपा...यमुल्लासक...देमक
...चार्यपट्टविपुलाचला...करणमार्तण्डमण्डलानां भट्टारकधर्मभूषणदेवानां...
तत्स्वार्थैवार्धिवर्धमानहिमांशुना...वर्धमान-स्वामिना कारितोढं आचार्याणां
...स्वस्ति शकवर्ष १२८५ परिधावि संवत्सरे वैशाख शुद्ध ३ बुधवारे ॥

(जैन शिलालेख संग्रह १ पृ. २२३)

लेखांक ९६ - विजयनगर शिलालेख

धर्मभूषण

श्रीमूलसंघेजनि नंदिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणोतिरन्व्यः ।
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोभूदिह पद्मनदी ॥ ३
केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम् ।
जलघाविव रत्नानि धमूत्रुर्दिव्यतेजसः ॥ ५
तत्रासीच्चारुवारित्ररत्नरत्नाकरो गुरुः ।
धर्मभूषणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥ ६
शिष्यस्तस्य मुनेरासीदन्तर्गतपोनिधिः ।
श्रीमानमरकीर्त्याचार्यो देशिकाग्रेसरः शमी ॥ ८
श्रीधर्मभूषोजनि तस्य पट्टे श्रीसिहनंदाचार्यगुरोः सधर्मा ।
भट्टारकः श्रीजिनधर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीर्तिः ॥ ११
पट्टे तस्य मुनेरासीद् वर्धमानमुनीश्वरः ।
श्रीसिहनंदियोगीन्द्रचरणांभोजघट्पदः ॥ १२
शिष्यस्तस्य गुरोरासीद् धर्मभूषणदेशिकः ।
भट्टारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्जितः ॥ १३
आसीद्सीममहिमा वंशे यादवभूभृताम् ।
अखंडितगुणोदारः श्रीमान् बुकमहीपतिः ॥ १५

उद्भूद् भूश्रुतस्तस्माद् राजा हरिहरेश्वरः ।
 कलाकलापनिलयो विधुः क्षीरनिघेरिव ॥ १६
 आसीत्तस्य महीजानेः शक्तित्रयसमन्वितः ।
 कुलक्रमागतो मंत्री चैचदण्डाधिनायकः ॥ १९
 तस्य श्रीचैचदण्डाधिनायकस्योर्जितश्रियः ।
 आसीदिरुगदण्डेशो नन्दनो लोकनन्दनः ॥ २०
 स्वस्ति शकवर्षे १३०७ प्रवर्तमाने क्रोधनवत्सरे फाल्गुनमासे
 कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथौ शुक्रवासरे ।
 अस्ति विस्तीर्णकर्णाटधरामंडलमध्यगः ।
 विषयः कुंतलो नाम्ना भूकांताकुंतलोपमः ॥ २५
 विचित्ररत्नरुचिरं तत्रास्ति विजयाभिर्घं ।
 नगरं सौधसंदोहदर्शिताकांडचंद्रिकम् ॥ २६
 तस्मिन्निरुगदण्डेशः पुरे चारु शिलामयम् ।
 श्रीकुन्धुजिननाथस्य चैत्यालयमचीकरत् ॥ २८
 भद्रमस्तु जिनशासनाय ।

(भा. १ कि. ४ पृ. ९०)

लेखांक ९७ - न्यायदीपिका

मद्गुरोर्वर्धमानेशो वर्धमानदयानिधेः ।
 श्रीपादस्नेहसंबंधात् सिद्धेयं न्यायदीपिका ॥ १
 इति श्रीमद्वर्धमानभट्टारकाचार्यगुरुकारुण्यसिद्ध-सारस्वतोद्भयश्रीमद-
 भिनवधर्मभूषणाचार्यधिरचितायां न्यायदीपिकायामागमप्रकाशः समाप्तः ।
 (अ. १ पृ. २७२)

बलात्कार गण—प्राचीन

इस गण का नामकरण सत्रसे प्राचीन लेखोमे [लं. ८७, ८८] बलात्कार गण यही पाया जाता है । किन्तु इस का मूल रूप बलमार गण यही मालूम पड़ता है [लं. ८९] । इसके दूसरे रूप बलात्कार और बलत्कार भी हैं [लं. ९१] इस गण के प्राचीन उल्लेख ज्यादातर कर्णाटक के मिले हैं किन्तु इन्हीं में एकसे इस का सम्बन्ध चित्रकूट और मालवसे जोड़ा गया है [लं. ९०] । चौदहवीं सदी से इस के साथ सरस्वती गच्छ और उस के पर्यायवाची भारती, वागेश्वरी, शारदा आदि नाम जुड़े हैं [लं. ९६, १६७, १८१, आदि] । इस नाम का सम्बन्ध उस वादसे जोड़ा जाता है जिसमें द्विगम्बर संघ के आचार्य पद्मनन्दिने श्वेताम्बरोसे विवाद कर पापाणकी सरस्वती मूर्तिसे मन्त्रशक्ति द्वारा निर्णय कराया था । यह वाद गिरनार पर्वत पर हुआ कहा जाता है । ये पद्मनन्दि सम्भवतः आचार्य कुडकुद ही हैं । इन्हीं से इस गण का तीसरा विशेषण कुंडकुदान्वय प्रचलित हुआ है [लं. १०८ आदि] । कहीं कहीं इसे नन्दि-संघ या नद्याम्नाय भी कहा है (लं. २६७ आदि) ।

बलात्कार गण का सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य श्रीचन्द्र ने किया है । आप के टीक्षागुरु आ. श्रीनन्दि और विद्यागुरु आ. सागरम्बन थे । आप का निवास धारा नगरी में था जहाँ उस समय महाराज भोज राज्य कर रहे थे । आपने सत्रत १०७० में पुराणसार, संवत् १०८० में उत्तरपुराण टिप्पण और संवत् १०८७ में पद्मचरित टिप्पण की रचना की [लं. ८६-८८] ।

इस गण के दूसरे आचार्य केशवनन्दि थे । चालुक्य वंशीय त्रैलोक्यमल्ल देव के राज्यकाल में शक ९७० की ज्येष्ठ शुक्ल १३ को जनाहुति के शान्तिनाथ मन्दिर के लिये मडलेश्वर चावुण्डराय ने राजधानी वल्लिगांव से आप को कुछ दान दिया । आप अष्टोपवामी थे तथा मेषनन्दि मठारक के शिष्य थे (लं. ८९) ।

इन के अनंतर चित्रकूटाम्नाय के मुनिचंद्र के प्रशिष्य तथा अनन्तकीर्ति के शिष्य केशवदेव को दिये गये दान का उल्लेख मिलता है। इस लेखका समय १२ वीं शताब्दी माना गया है [ले. ९०]।

इन के बाद पद्मप्रभ आचार्य का उल्लेख आता है। आप की गुरु-परम्परा पक्षोपवासिमुनि-नयनन्दि-श्रीधर-चन्द्रकीर्ति-श्रीधर-नेमिचन्द्र-सहपाठी वासुपूज्य-पद्मप्रभ इस प्रकार कही गई है। संवत् ११४४ की पौष कृष्ण १४ को उत्तरायण संक्रान्ति के अवसर पर आप को कुछ दान दिया गया था [ले. ९१]।^{२१}

अगला उल्लेख भट्टारक कुमुदचंद्र की एक मूर्ति का है। जो पार्श्वनाथ के नगरजिनालय में स्थापित की गई थी। इस का समय भी बारहवीं सदी माना गया है [ले. ९२]।

इन के बाद पंडित देशानदि का उल्लेख मिलता है। आप ने संवत् १२५८ में एक संभवनाथ मूर्ति प्रतिष्ठापित की [ले. ९३]।

श्रवणसेन और कनकसेन इन दो बन्धुओं के द्वारा संवत् ३३५ की पौष शुक्ल १५ को प्रतिष्ठापित किये गये चन्द्रप्रभ मन्दिर का उल्लेख एक उत्तरकालीन लेख में मिलता है [ले. ९४] पं. प्रेमीजी का अनुमान है कि ये एक १३३५ होंगे।^{२२}

इन के अनन्तर स्वामी वर्धमान का शक १२८५ का उल्लेख प्राप्त होता है [ले. ९५]। आप की गुरुपरम्परा वनवा(सिवसं)तकीर्ति-देवेन्द्र-विशालकीर्ति-शुभकीर्ति-धर्मभूषण-अमरकीर्ति धर्मभूषण-वर्धमान इस प्रकार है।^{२३}

२१ कुंदकुटाचार्य विरचित नियमसार की संस्कृत टीका सम्भवतः इन्ही पद्मप्रभदेव की बनाई है।

२२ बलात्कार गण में सेनान्त नाम नहीं पाये जाते। सम्भवतः ये गृहस्थां के नाम हैं।

२३ वर्धमान विरचित वरागचरित के परिचय के लिये जयसिंहनंदि कृत वरागचरित की डॉ. उपाध्ये लिखित प्रस्तावना देखिए।

वर्धमान के शिष्य धर्मभूषण हुए। इन के समय शक १३०७ की फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को राजा हरिहर के मंत्री चैच दंडनायक के पुत्र इरुगप्प ने विजयनगर में कुन्थुनाथ का एक मन्दिर बनवाया [ले. ९६]। धर्मभूषण ने न्यायशास्त्रमें प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए न्याय-दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस के प्रथम प्रकाश में प्रमाणलक्षण का, दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाणों का तथा तीसरे प्रकाशमें परोक्ष प्रमाणों का अच्छा विवेचन किया गया है [ले. ९७]।

बलात्कार गण—प्राचीन—कालपट

१ श्रीनन्दि

२ श्रीचन्द्र [संवत् १०७०-१०८७]

३ मेघनन्दि

४ केशवनन्दि (संवत् ११०४)

५ मुनिचन्द्र

६ अनन्तकीर्ति

७ केशवदेव

८ पक्षोपवासी

- ९ नयनन्दि
|
१० श्रीघर
|
११ चन्द्रकीर्ति
|
१२ श्रीघर
|
१३ वासुपूज्य १४ नेमिचन्द्र
|
१५ पद्मप्रभ [संवत् ११४४]
|
१६ कुमुदचन्द्र
|
१७ देशनन्दी [संवत् १२५८]
|
१८ श्रवणसेन-कनकसेन [स.१३३५]
|
१९ वनवासि वसन्तकीर्ति
|
२० देवेंद्र विशालकीर्ति
|
२१ शुभकीर्ति
|
२२ धर्मभूषण
|
२३ अमरकीर्ति
|
२४ सिंहनन्दि २५ धर्मभूषण
|
२६ वर्धमान [संवत् १४१९]
|
२७ धर्मभूषण [संवत् १४४२]

३. बलात्कार गण - कारंजा शाखा

लेखांक ९८ - पट्टावली

अमरकीर्ति

श्रीनिदिसंघ-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारगणाप्रगण्यानां आचार्यवरेण्यानां
परंपराप्रवर्तितमहासिंहासनयोग्यानां श्रीमदमरकीर्तिराडलप्रियाप्रमुल्यानां ।

[ना. ८८]

लेखांक ९९ - दशभक्त्यादि महाशास्त्र

विशालकीर्ति

भट्टारको बलात्कारगणाधीशो महाताः ।
विशालकीर्तिवादीन्द्रः परमागमकोविदः ॥
सिकंदरसुरित्राणप्राप्रसत्कारवैभवः ।
महावादिजयोद्भूतयशोभूपितविष्टपः ॥
श्रीविरूपाक्षरायस्य श्रीविद्यानगरेशिनः ।
सभायां वादिसंदोहं निर्जित्य जयपत्रकम् ॥
म्बीकृत्य च महाप्रज्ञावलेन बुधभूसुजैः ।
मत्तं सरस्वतीमूलशासनं वा सदोज्ज्वलम् ॥
देवप्यदंडनाथस्य नगरे श्रीमदारगे ।
प्रकाशितमहाज्ञानधर्मोभाद्भूसुरार्चितः ॥

(मा. अ. पृ. १२५)

लेखांक १०० - पट्टावली

विद्यानंद

प्रचंडाशेषतुरखराजाधिराजअह्लावदीनसुलतानमान्यश्रीमदभिनववादि-
विद्यानंदस्वामिनां ।

(म. ५७)

लेखांक १०१ - दशभक्त्यादि महाशास्त्र

विशालकीर्तेः श्रीविद्यानंदस्वामीति श्रुद्धितः ।
अभवत्तनयः साधुर्महिरायनृपार्चितः ॥
कावेरीसरिदंबुवेष्टनलसच्छ्रीरंगमत्पत्तने

लक्ष्मीवल्लभरंगनाथमहिते श्रीवीरपृथ्वीपतेः ।
 आस्थाने विबुधव्रजं विजयवागवृत्तेर्विजित्यावनौ
 विद्यानंदमुनीश्वरो विजयते साहित्यचूडामणिः ॥
 वीरश्रीवरदेवरायनृपतेः सद्भागिनेयेन वै
 पद्मांबाकलगर्भवार्धिविधुना राजेद्रवंध्यांघ्रिणा ।
 श्रीमत्सालुवकृष्णदेवधरणीकांतेन भक्त्यार्चितो
 विद्यानंदमुनीश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥
 यो विद्यानगरीधुरीणविजयश्रीकृष्णरायप्रभो-
 रास्थाने विदुषां गणं समजयत्संचाननो वा गजम् ।
 सद्भागिभर्नखरैरुदात्तविमलज्ञानाय तस्मै नमो
 विद्यानंदमुधीश्वराय जगति प्रख्यातसत्कीर्तये ॥
 शाके वह्निस्वराब्धिचंद्रकलिते संवत्सरे शार्वरे
 शुद्धश्रावणभाक्कृतान्तधरणीतुग्मैत्रमेपे रवौ ।
 कर्कस्थे सुगुरौ जिनस्मरणतो वादींद्रवृन्दार्चितः
 विद्यानंदमुनीश्वरः स गतवान् स्वर्गं चिदानंदकः ॥

(भा. अ. पृ. १२६)

लेखांक १०२ - दशभक्त्यादि महाशास्त्र

देवेंद्रकीर्ति

स्वामिविद्यादिनंदस्य भारतीभाल्लोचनं ।
 सूनुर्देवेंद्रकीर्त्यार्यो जातो भट्टारकाग्रणीः ॥
 बलात्कारगणांभोजभास्करस्य महाद्युतेः ।
 श्रीमद्देवेंद्रकीर्त्याख्यभट्टारकशिरोमणेः ॥
 शिष्येण ज्ञातशास्त्रार्थस्वरूपेण सुधीमता ।
 जिनेद्रचरणाद्वैतस्मरणाधीनचेतसा ॥
 वर्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानंदार्यबंधुना ।
 कथितं दशभक्त्यादिशासनं भव्यसौख्यदं ॥
 शाके वेदस्वराब्धिचंद्रकलिते संवत्सरे श्रीप्लवे
 सिंहश्रावणिके प्रभाकरशिषे कृष्णाष्टमीवासरे ।
 रोहिण्यां दशभक्तिपूर्वकमहाशास्त्रं पदार्थोज्ज्वलं
 विद्यानंदमुनिस्तुतं व्यरचयत् सद्धर्मानो मुनिः ॥

(भा. अ. पृ. १२२)

लेखांक १०३ - पट्टावली

तत्पट्टोदयाद्रिदिवाकरायमान-नित्याद्येकांतवादि-प्रथमवचनखंडन-अव-
चनरचनाडंबर-षड्दर्शनस्थापनाचार्यपट्टर्कचक्रेश्वरश्रीमदेवेंद्रकीर्तिदेवानां ॥

(म. ५७)

लेखांक १०४ - पट्टावली

धर्मचंद्र

तत्पट्टोदयदेवगिरिपरमताभिल्यंजनतिमिरनिर्नाशनदिनकरसमानानां
सार्थकनामभट्टारकश्रीमद्धर्मचंद्रदेवानां ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक १०५ - पट्टावती मूर्ति

सक १४८७ प्रजापत संवत्सरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे
भ. धर्मचंद्राणाम उपदेशात् ज्ञाति वधेरवाल भुरा गोत्रे सा रतन भार्या
पुतली... ॥

(र. सुं. खेडकर, नागपुर)

लेखांक १०६ - पट्टावली

धर्मभूषण

तत्पट्टोदयाचलदिवाकरायमान भट्टारकश्रीधर्मभूषणदेवानां ॥

[म. ५७]

लेखांक १०७ - चंद्रग्रह मूर्ति

सके १५०३ वृषनाम संवत्सरे फागुण सुदि ७ श्रीमूलसंघे बलात्कार-
गणे भ. धर्मभूषणोपदेशात् वधेरवालज्ञाति ठवला गोत्रे सं. पासुसा... ॥

[अ. गु. मिश्रीकोटकर, नागपुर]

लेखांक १०८ - नेमिनाथ मूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

शके १५०३ वृषनामि संवत्सरे फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे ६ बुधवामरे
श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीधर्म-

चंद्रस्तपट्टे भ. श्रीधर्मभूषणस्तपट्टे भ. श्रीदेवेन्द्रकीर्त्युपदेशात् श्रीन्यात्रेरवाल-
जातीय खंडोरियागोत्रे... ॥

(व. १)

लेखांक १०९ - अंबिका रास

संवत् १६४१ वर्षे कार्तिक वदि ५ दिने श्रीपरंडवेलसुमस्थाने श्रीधर्म-
नाथचैत्यालये मुनिश्रीदेवेन्द्रकीर्तिं लक्षितं वाई हरपमती पठनार्थं ॥

[ना. ३५]


लेखांक ११० - द्वादशानुप्रेक्षा

शके १५१४ नंदननाम संवत्सरे पीपमासे शुक्लपक्षे त्रयोदसितिथौ
गुरुवारे वराहदेशे श्रीमूलसंघे... भ. धर्मचंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषण तत्पट्टे भ.
देवेन्द्रकीर्ति... गंगराबाज्ञाति लघु नंदिग्रामे आदशेटी... ताभ्यां स्वहस्ते
लिखितं ॥

[ना. १५]

लेखांक १११ - नेमिनाथ पूजा

जलार्च्यजेहं मुदार्षेण देवं
सुधर्मादिभूषं गुरुं भूपसेवं ।
परं प्राप्तकैवल्यराज्यं विगालं
सुदेवेन्द्रकीर्तिस्तुतं शर्मगालं ॥



(म. १०)

लेखांक ११२ - नंदीश्वर पूजा

सुभक्तिभाव पूजये परापरं त्रिणालये ।
सुधर्मभूषमायरं सुरेन्द्रकीर्तिचर्चितं ॥

(म. ८)

लेखांक ११३ - ? मूर्ति

कुमुदचंद्र

शक १५२२ सर्वरि नाम संवत्सरे मूलसंघे वैभारख मुद्दि १३ दिने
श्रीमूलसंघे... भ. धर्मचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीधर्मभूषण तत्पट्टे भ. श्रीदेवेन्द्रकीर्ति

तत्पट्टे भ. श्रीकुमुदचंद्र । भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति उपदेशान् सं. वसराज निलं प्रणमंति ॥

(आर्षी, अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ११४ - १ मूर्ति

शक १५३५ प्रमादि संवत्सरे फाल्गुण सुदि ५ श्रीमूलसंघे.....भ. श्रीधर्मचंद्रः धर्मभूयणः देवेंद्रकीर्तिः तत्पट्टे कुमुदचंद्रोपदेशान् सैतवालज्ञातीय स्तनसाह समरासाह नित्यं प्रणमंति ॥

(बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ११५ - पार्श्वनाथ पूजा

मल्यादिमृगपतिपीठमंडितधर्मभूयणवदितं
देवेंद्रकीर्तिमुनीन्द्रसंभवकुमुदचंद्रसुवदितं ।
श्रीसंघसारविशेषवरकृतभावभूतिविभूवरं
भजतु भावजनाशकारणपार्श्वनाथजिनेश्वरं ॥

[ना. ७८]

लेखांक ११६ - (पंचस्तवनावचूरि)

भ. श्रीकुमुदचंद्रैः ब्रह्मश्रीवीरदासाय दत्तमिदं पुस्तकं ॥

[ना. ४८]

लेखांक ११७ - सुदर्शन चरित्र

धर्मचंद्र

श्रीमूलसंघ बलात्कारण । सरस्वतिगळ प्रमाण ॥
विश्वास वंश कुल मंडन । वृषभ चिन्ह गोत्रासी ॥ ५३
सोहितवाल प्रथम याती । ते वंसी जया जन्म स्थिती ॥
धर्मचंद्र गुरु वीक्षापती । नाम स्थिती वीरदास ॥ ५४
पुढती वीक्षा महात्रती । गुरु धर्मचंद्र समर्थ ॥
मस्तकी ठेऊनी हस्त । पासकीर्ति नामना ॥ ५५
शके पंधरासे एकुनवचास । अभव संवत्सर नाम वर्ष ॥
फाल्गुण वद्य दशमी दिवस । गुरु वासर ते दिनी ॥ ५६

श्रवण नक्षत्र ते प्रमाण । सिद्धयोग तो शुद्ध जाण ॥
भद्रा सप्त नाम करण । ग्रंथ जाण समाप्त ॥ ५७

प्रसंग २५ [ना. ४]

लेखांक ११८ - बहुतरी

नमिला म्या गुरु । सत्य धर्मचंद्र ॥
श्रीसुद्धी हा घर । मज त्याचा ॥ ४०
येने पंथे पासकीर्ति म्हने जना ॥
सिद्ध सोहं गुना । सुअष्टभावे ॥ ४५

[ना. ५३]

लेखांक ११९ - कलिकुंड यंत्र

संवत् १६८६ श्रीमूलसंघे...भ. श्रीधर्मचंद्र तदाश्रीय आ. पासकीर्ति
तदुपदेशात् संघवी वरहरसाह गोलसिंधारा रामटेक सांतिनाथ प्रसादेनू
भ्येष्ट वच ५ .. ॥

(पा. २७)

लेखांक १२० - पद्मावती मूर्ति

संवत् १६९२ मिति वैशाख वदी ११ सोमवासरे भ. धर्मचंद्रजी...॥
(सैतवाल मन्दिर, नागपुर)

लेखांक १२१ - चरणपादुका

सं. १६९३ वर्ष शके १५५९ मनु नाम संवत्सरे भागसिर शुद्धा २ शनै
शुभमुहूर्ते श्रीमूलसंघे...भ. कुमुदचंद्रास्तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्रोपदेशात् जयपुर-
शुभस्थाने वधेरवालहाति सं. श्रीपासा...॥

[चम्पापुर, भा. १९ पृ. ५९]

लेखांक १२२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शके १५६१ प्रमाथीनाम संवत्सरे फाल्गुण शुदि २ वृहस्पतिवार

श्रीमूलसंघे ..भ. श्रीधर्मचंद्रोपदेशान् वधेरवालज्जातीय .. ॥

(का. ४)

लेखांक १२३ - चौबीसी मूर्ति

शके १५६७ पार्थिव नाम संवत्सरे श्रीमूलसंघे ..भ धर्मचंद्रोपदेशान् वधेरवालज्जातीय खंडारिया गोत्रे श्रावण .. ॥

(ड. मा. दर्यापुरकर, नागपुर)

लेखांक १२४ - १ मूर्ति

शके १५६९ सर्व ..जेष्ट ..श्रीमूलसंघे ..भ. श्रीधर्मभूषण तत्पट्टे भ. देवेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भ. कुमुदचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्र तदाज्ञायै धर्माचार्य पासकीर्ति तदुपदेशान् साहितवालज्जातीय .. ॥

(वालापुर, अ. ४ पृ. ५०४)

लेखांक १२५ - चौबीसी मूर्ति

ओं नम सिद्धेभ्यः गोमटस्वामी आदीश्वरमूलनाईक चौबीस तीर्थंकरकि परतीमा चारुकीरति पंडित धर्मचंद्र बलातकार उपदसा शके १५७० सर्वधारी नाम संवत्सरे वैशाख वदी २ मुकुटवार देहरांकी पती स्वहै ..गेरवाल चवरे गोत्र जीनासा .. ॥

श्रवणवेद्यगुल, [जैनशिलालेख संग्रह १ पृ. २२९]

लेखांक १२६ - धर्मचंद्र गुरु पूजा

(पूजा-) कुमुदचंद्रपदे प्रयजे वरं ।

सुगुणधर्मसुचंद्रमुनीश्वरं ॥ १ ॥

(स्तुति-) स भवतु वरभूत्यै धर्मचंद्रो मुनींद्रो

द्विजकुलमहिनोसौ वासुदेवेन वंद्यः ॥ १० ॥

[म. ६३]

लेखांक १२७ — पार्श्वनाथ मूर्ति

धर्मभूषण

शके १५७२ विक्रती संवत्सरे फाल्गुण शुद्ध ११ शुके भ. श्रीधर्मभूषणैः
प्रतिष्ठितं ॥

[का. ५]

लेखांक १२८ — षोडशकारण यंत्र

शक १५७६ वर्षे जयनाम संवत्सरे मार्गशिर्ष सुद १० श्रीमूलसंघे...
श्रीधर्मचंद्र भ. श्रीधर्मभूषणोपदेशात् नेवाज्ञातीय नहिया गोत्रे सा गणसा मुन
ढडुसा एते षोडशकारण यंत्र नित्यं प्रणमंति ॥

[अ. ४ पृ. ५०३]

लेखांक १२९ — १ मूर्ति

शके १५७७ वैसाख सुदि ९ शुके मूलसंघे ...भ. कुमुदचंद्र तत्पट्टे भ.
धर्मचंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषणोपदेशात् मीन सेठ भार्या चाणह... ॥

[कोंढाळी, अ. ४ पृ. ५०५]

लेखांक १३० — पार्श्वनाथ मूर्ति

सक १५७८ मूलसंघे भ. धर्मभूषण ।

[सु. हि. जोहरापुरकर, नागपुर]

लेखांक १३१ — चौवीसी मूर्ति

शके १५७९ वर्षे मार्गसिर सुदि १४ बुधे श्रीमूलसंघे . भ. देवेद्रकीर्ति-
देवाः तत्पट्टे भ. कुमुदचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. धर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ धर्मभूषण-
गुरुपदेशात् वधेरबालब्रातीय हरसौरा गोत्रे सा गंगासा भार्या चांगावाड... ॥

[नादगाव, अ. ४ पृ. ५०५]

लेखांक १३२ — नेमिनाथ मूर्ति

सके १५८० वर्षे विरोधिनाम संवत्सरे मार्गशिर शुदि ५ शुके श्रीमूलसंघे
...भ. श्रीदेवेद्रकीर्तिदेवा. तत्पट्टे भ. कुमुदचंद्रदेवा. तत्पट्टे भ धर्मचंद्रदेवा

तत्पट्टे भ. श्रीधर्मभूषणोपदेशात् वघेरवालज्ञातीय हरसौरा गोत्रे सं. मेघ तस्य भार्या... ॥

[का २]

लेखांक १३३ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शके १५८६ वर्षे क्रोधनाम संवत्सरे तिथी फागुण सुद ५ श्रीमूलसंघे...
भ. धर्मचंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषण महाराज प. नेमाजी भार्या राजाई पुत्र
सोकराजी ता प्रतिष्ठितं ॥

[पा. ४३]

लेखांक १३४ - श्रेयांस मूर्ति

शके १५९७ मूलसंघे बलात्कारगणे भ. धर्मभूषण...ॐ हरीसाध पुत्र
फकीचंद प्रणमंति ॥

[पा. १०६]

लेखांक १३५ - रत्नत्रयउद्यापन

दृग्बोधादिकशुद्धवृत्तजनितं रत्नत्रयं सद्रतं
तत्पूजा रचिता मुनेंद्रगणिना पुण्यात्मना सूरिणा ।
सद्भट्टारकधर्मचंद्रपदभृद् धर्मादिभूयात्मना
भव्योपासकशीतलेखविहितप्रभान् निजार्थात् वरं ॥

[ना. ९]

लेखांक १३६ - चौबीसी मूर्ति

धर्मचंद्र

शके १६०७ प्रभाष नाम संवत्सरे फाल्गुण वदि १० भ. धर्मचंद्र
उपदेशात्...नगरे ज्ञाते उज्वेली पल्लीवार गोदसा भार्या सेमाई...प्रणमंति ॥

(पा. १७)

लेखांक १३७ - [श्रुतस्कंध कथा]

सं. १७४३ वर्षे श्रावण शुदि ७ शुके भ. श्री ६ धर्मचंद्रः तस्य पंडित
गंगादास लिखितं । श्रीकार्यरंजकनगरे श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये ॥

(प. १)

लेखांक १३८ - पद्मावती मूर्ति

शके १६१२ ज्येष्ठ वदि ७ श्रीमूलसंघे...भ. धर्मभूषण तत्पट्टे भ.
विशालकीर्ति तत्पट्टे भ. धर्मचंद्रोपदेशात् वधेरवालज्ञाति खडासो गोत्रे सा
राघुसा सुत लपुसा अंबिकां नित्यं प्रणमंति ॥

(मा. ना. आगरकर, नागपुर)

लेखांक १३९ - पार्श्वनाथ भवांतर

सके सोलाशे वर बारा सुध पुस मास ।
प्रमोद संवत्सरे सुक्रवार त्रयोदस ॥
कीर्तन पूर्ण जाले धर्मचंद्रचा आदेस ।
त्याहांचा पंडित मेती गंगादास ॥
जिनगुणाचे कीर्तन । भवांतर केले डफगाण ॥
कवित्व केले गंगादासान । तुम्ही आयिका चित्त देऊन ॥ ४७

(ना. ६)

लेखांक १४० - आदित्यार कथा

विशालकीर्ति विमलगुण जाण जिनशासनकज प्रगट्यो भाण ।
तत्पदकमलदलमित्र धर्मचंद्र धृतधर्म पवित्र ॥ ११२
तेदूनो पंडित गंगादास कथा करी भवियण उल्लास ।
शक सोला शत पन्नर सार शुद्धि आषाढ वीज रविवार ॥ ११३

[ना. ५४]

लेखांक १४१ - मेरुपूजा

जलचंदनशालिजपुष्पचक्रप्रमुखेन सदधर्मरेण वरं ।
वृषचंद्रपदांबुजशृंगसुगंगवृधेन सदा नमितं सुकरं ॥

(म. १२)

लेखांक १४२ - क्षेत्रपाल पूजा

सूरिश्रीधर्मचंद्रप्रवरपदपयोजाम्रभृंगोपमानः
श्रीसान् सोभाभिधानो जिनभजनरतः पद्मसंघेशपुत्रः ।

तद्वाक्त्र्याङ्गदासैः प्रविरचितमिदं क्षेत्रपालार्चनं तत्
भक्त्या कुर्वतु तेषां वरतरकुञ्जलं क्षेत्रपाला दिशंतु ॥

(ना. ८५)

लेखांक १४३ - संमेदाचलपूजा

...ततोभवन् सूरिविशालकीर्तिः

पट्टे तद्दीये गुरुधर्मचंद्रः ॥

...तत्पादाब्जयरागलोलुपलसद्भृंगोतिभक्तेर्भरान्

चक्रे स्वापरचितितार्थफलदां गंगादिदासो बुधः ॥

(व. ३०)

लेखांक १४४ - त्रेपन क्रिया विनती

कारंजे सुख करण चंद्र जिन गेह विभूषण ।

मूलसंघ मुनिराय धर्मभूषण गतदूषण ॥

विशालकीर्ति तस पाट निखिलवंदितनरनायक ।

तस पट्टांबुजसूर धर्मचंद्रह सुखदायक ॥

तस पत्कज पट्टपट्ट मुद्रा गंगादास वाणी वदे ।

त्रिपंचास क्रिया सदा भविष्यत जन राखो हृदे ॥ ११

(ना. ४२)

लेखांक १४५ - जटामुकुट

धर्मचंद्र गुरु पट्ट नमी गंगादास बानी वदे ।

संघपति मेघा वचनथी जिन चित्तन चिलो हृदे ॥ ६

(म. ९९)

लेखांक १४६ - कैलास छप्पय

कीर्ति विशाल विशाल पदपंकज दल भासन ।

धर्मचंद्र भवतार सार शोभित जिनशासन ॥

कारंजे करुणानिधान चंद्रनाथ चित्ते धरी ।
हीरासाह आग्रह थकी अष्टापदनी स्तुति करी ॥ २१

(ना. ६७)

लेखांक १४७ - विरुदावली

...भट्टारकश्रीविशालकीर्तिदेवानां । तत्पट्टे...श्रीमलयखेडसिंहासना-
धीश्वरभट्टारकश्रीधर्मचंद्रदेवानां तपोराज्याभ्युदयसिद्धिरस्तु श्रीखोलापूरग्रामे
श्रीसुपार्वनाथचैत्यालये श्रीसंघपुण्यार्थ... ॥

(व. १३)

लेखांक १४८ - चौवीसी मूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

संमत १७५६ मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे देवेंद्रकीर्ति प्रतिष्ठा
मिती माघ सुद ५ ॥

(पा. ३७)

लेखांक १४९ - यात्रापूति लेख

सके १६४३ पौस वदि १२ शुक्रवारे भ. देवेंद्रकीर्ति सहित वघेरवाल
जाती हिरासाह सुत हाससा सुत चागेवा सोनावाई राजाई गोमाई राघाई
मनाई सहित जात्रा सफल करी कारंज कर ॥

श्रवणबेलगुल (जैन गिलालेख संग्रह १ पृ. ३४५)

लेखांक १५० - कल्याणमंदिर पूजा

गुणवेदांगचंद्राब्दे शाके १६४३ फाल्गुनमास्यदं ।
कारंजाख्यपुरे दृष्टं चंद्रनाथदेवार्चनं ॥
इति श्रीबलात्कारगलेयं भ. देवेंद्रकीर्ति विरचितं ।
कल्याणमंदिरपूजा संपूर्ण ॥

(ना. ७४)

लेखांक १५१ - विपापहारपूजा

साहारे निर्मितचारुशुभ्रा सद्विठलाख्याग्रहतो विचित्रा ।

श्रीशांतिनाथस्य गृहे गुणाढ्यं जीयात्सुपूज्या गुणधामसुद्धा ॥
इति भ. देवेंद्रकीर्तिकृत विपापहारस्तोत्रपूजा संपूर्णा ॥

(ना. ७४)

लेखांक १५२ -

नासिक त्रिवक गाम समीप महागजपंथ धराधर सारं ।
ध्यान बले वसु कोडि मुनीस गया जिह् कर्मजिती भवपारं ॥
षोडश पत्रास पोस समुज्ज्वल बीज तिथी दिननायकवारं ।
देवेंद्रकीर्तिं नमे जिनरत्नचंद्रांबुधिरूपविद्यार्थी संवारं ॥

(म. ७८)

लेखांक १५३ -

भागलदेस महेंद्रपुरी तस संनिधि मांगि गिरी तुंगि तुंगं ।
हलधर माधव कोडि तपोधन मुक्ति वरी करी कल्मषभंगं ॥
शून्यशरान्वितपद्मविभु पौष त्रयोदश शुक्ल गुरुदिन चंगं ।
देवेंद्रकीर्तिं नमे जिनरत्नचंद्रांबुधिरूपवीरादिकसंगं ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक १५४ - णायकुमार चरित

संवत् १७८५ वर्षे शाके १६५० कीलक नाम संवत्सरे माघमासि
प्रतिपत्तिथौ सोमघूसे नवमससंपदे सूरति बंदिरे वासुपूज्यचैत्यालये गिरनार-
थात्रांगमनसमये भ. श्रीधरमचंद्रपट्टधारिदेवेंद्रकीर्तिभ्यः रामजी. संघाधिप
पुत्र आणंदनाम्ना हूंबड श्रावकेण दत्तमिदं पुस्तकम् ॥

(प्रस्तावना पृ. १३, कारंजा जैन सीरीज)

लेखांक १५५ -

देश खडकमे धूलिय गाम युगादि जिनाधिप पुण्यपवित्रा ।
जाकी दिगंतर विश्रुतलज्वलकीर्ति जपे नर देव कलत्रं ॥
रूप शरान्वित षोडश वैशाख कृष्ण त्रयोदशि चंद्रमपुत्रं ।
देवेंद्रकीर्तिं नमे जिनरत्नचंद्रांबुधि रूपजी वीरजी छात्रं ॥

(म. ७८)

लेखांक १५६ -

गुज्जर देश सु तारंग पर्वत कोडिशिलोपरि कोडि मुनीसा ।
कोडि अचट्ट वली वरदत्त पुरःसर भेदि जवंजव खासा ॥
चंद्र शराधिक षोडश लज्जवल पंचमि भार्गव मार्गक वासा ।
देवेंद्रकीर्ति भट्टारक संग समेत नमे करि भूतल सीसा ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक १५७ -

सोरट देश सुरेवतकाचल नेमि मुनीश वहत्तर कोडी ।
काम पुरोग ऋषीशत शोगी शिवंगय संसृति बह्हरि तोडी ॥
पुष्प रवी वद वारसि इंदुशर्तुकलेश समा अतिरूडी ।
देवेंद्रकीर्ति भट्टारक संग समेत नमे करपंकज जोडी ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक १५८ -

सोरट देश अरिजय भूधर भूरिजिनेश्वर विव अचूपा ।
पांडु सुत त्रय मोक्ष गया वसु कोडि तथा वर लाड सुभूपा ॥
एकशरान्वित षोडश वत्सर कालिम माघ चतुर्थि उड्डपा ।
देवेंद्रकीर्ति भट्टारक भाव समेत नमे शांतिसागररूपा ॥

[उपर्युक्त]

लेखांक १५९ - कथाकोष

श्रीचंद्र

संवत १७८७ वर्षे भादवा शुदि ५ शुके ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीसुरति बंदरे
वासुपूज्यचैत्यालये लिखापितमिदं पुस्तकं श्रीमूलसंघे...मलयखेडसिंहासना-
धीश्वर-कार्यरंजक-पुरवासि भ. श्रीधर्मचंद्रदेवास्तत्पट्टे. भ. देवेंद्रकीर्तयस्तैर्लि-
खापितं आर्थिका श्रीपासमतिपरोक्षदत्तचित्तेन ॥

[म. प्रा. घृ. ७२७]

लेखांक १६० - नंदीश्वर आरती

नर्नत पूजन सहित इंद्रादिक यात्रा प्रति वर्षे ।
श्रीघुपचंद्र पदेश्वर देवेंद्रकीर्ति नमे हर्षे ॥ ३

(आरती संग्रह २, च. १९२५)

लेखांक १६१ -- देवेंद्रकीर्ति गुरु पूजा

सनशुद्धागमशास्त्रपाटनपदुश्रीकुंदकुंदो यती
तत्पट्टान्वयके वृषेंदुरभवद्धर्मादिभूपस्ततः ।
विल्यातः सुविशालकीर्तिरतुलः श्रीधर्मचंद्रस्ततः
तत्पट्टे जयति प्रसन्नहृदयो देवेंद्रकीर्तिर्मुनिः ॥
...धर्मचंद्र पट्टि रयन गणित सुभ शास्त्र बख्खाणो ।
देवेंद्रकीर्ति गच्छराज आंगि तृणांबर धरण ॥
वाग्वादिनी कंठी वसी गोतम सम गुरु अवतन्व्यो ।
बुद्धिसागर एवं वदति विकट भवार्णवते तन्व्यो ॥
...देवेंद्रकीर्ति मुनिपति परिग्रह तसु बहु अंगे ।
कह गुणवर्णन करु नही आवे मन संगे ॥
आत्मध्यान मोहित सदा सिव साधन आशा करी ।
सुरत शहर चवमाममे रूपचंदने स्तुति करी ॥
...ज्याको पिना बनारसी आगराको वासी
सुरत शहरमे उदीमके लीयते ।
बराडके मुनिद आवे रहे बरखाकालमाहे
बंदना नही कीनही देखी परीग्रहते ॥
सुदुब्रानसो निहार तुर्य काल मन विचार
काय मन वचनसो चिदानंद लहेते ।
ऐसे देवेंद्रकीर्ति जिवनदास करत विनती
संभाल लेवो परभवमे मोह निकट आयते ॥

(म. १२७)

लेखांक १६२ - अनंत आरती

रस सिंधु पद चंद्र शकसी ।

शीतचतुर्दशीसी भाद्रपद मासी ।
 शशिप्रभु सुवनी । रतली जिनचरणी ॥ ४ ॥
 पंचमकाली सम यती । गुरु देवेन्द्रकीर्ति ।
 लघुशिष्य श्रीमानिकनंदि । मंडलाचार्यपदी ॥ ५

(आस्तीसंग्रह २, च. १९२५)

लेखांक १६३ - आदित्यव्रत कथा

श्रीमत् सुकारंजकपूरवासी देवेन्द्रकीर्ति प्रिय सज्जनासी ।
 त्याचा लघू पंडित जैनदास त्याने कथेचा रचिला विलास ॥ ४३
 रसाब्धिपटूचंद्र जदा सकासी तई मधू मास सुकृष्णपक्षी ।
 सुपंचमी तो गुरुवार जेव्हा कथा असी हे परिपूर्ण तेव्हा ॥ ४४

(ना. १६)

लेखांक १६४ - जिनकथा

श्रीमत्कारंजपुरवासी । देवेन्द्रकीर्ति गुरुसी ॥
 अंतरी स्मरोनी आदरेसी । रचिली कथा ॥ २०७
 नृप सालिवाहन सके गनित । सोळासे एकोन पंचाशत ॥
 पूवंग नाम संवत्सरांत । पूर्ण कथा ॥ २०८
 वराह देस कारंजनगर । श्रीमशंभ्रनाथ मंदिर ॥
 तेथ कथा हे सुंदर । संपूर्ण केली ॥ २१०

(ना. १२)

लेखांक १६५ - पद्मावती कथा

...श्रीकुंदकुंदान्वय वंगि जाला ।
 देवेन्द्रकीर्ति जिनसागराला ॥ ६४
 नेत्र बाण रस इंद्रु सकेसी आश्विनात सित द्वादशि वीसी ।
 पूर्ण हे कथन माझे मतिने अधिक ते करि या जनि गाहने ॥ ६५

(व. ५२)

लेखांक १६६ - पुष्पांजलि कथा

श्रीकुंदकुंदान्वय त्याच वंसी देवेन्द्रकीर्ति प्रिय सज्जनासी ।

ऐसी कथा हे वरवी विधीने सांगितली हो जिनसागराने ॥ १०२
इति श्रीदेवेंद्रकीर्तिप्रिय सिष्य जिनसागर कृत
पुस्पांजलि व्रतकथा संपुर्ण ॥ शके सोळाशे साठ १६६० ॥

(म. ९१)

लेखांक १६७ - लवणांकुश कथा

खस्तिश्री वर मूलसंघ गन हा श्रीकुंदकुंदाग्रनी
श्रीमच्छारद गच्छ मंगल बलात्कारादि नामाग्रनी ।
त्या वंसी सुभ सक्रकीर्ति मुनि हा जाला जसा हो रवी
त्याचे सेवक जैनसागर कथा सांगे बुधाला नवी ॥ ७८
आहे वरा सीरड ग्राम जेथे राहे वहू श्रावक लोक तेथे ।
त्रिपुत्रपद्चंद्र शकासि जेव्हा कथा असी हे परिपूर्ण तेव्हा ॥ ७९

(म. ९०)

लेखांक १६८ - अनंत कथा

उपर्युक्त प्रशस्ति के समान ।

(ना. ८)

लेखांक १६९ - सुगंधदशमी कथा

देवेंद्रकीर्ति गुरु पुण्यराशी जैनादि हो सागर शिष्य त्यासी ।
ऐसी कथा परिपूर्ण सांगे श्रोत्यासि द्या चित्त म्हणौनि मागे ॥ १३६

(ना. ८)

लेखांक १७० - जीवंधर पुराण

श्रीमत् देवेंद्रकीर्ति मुनि । भावे वंदिला कर जोडूनि ॥
जिनसागराच्या ध्यानी मनी । जिवाहून आवडे ॥ १९०
कांदी गुजराती रास । पाहून केलें कथेस ॥
कांदी उत्तरपुराणास । पाहोनि ग्रंथास रचिलें ॥ १९२
शके सोळाशे सहासष्ट जाण । आनंद नाम संवत्सर महान ॥
वैशाखमास द्वादशी दिन । कथा पूर्ण ही झाली ॥ १९३
जेथे शिरड नाम नगर । शांतिनाथाचे मंदिर ॥

श्रावक लोक बसती अपार । सांगे जिनसागर श्रोतियांसी ॥ १९४

[अध्याय १०, च. १९०४]

लेखांक १७१ - नंदीश्वर उद्यापन

इति जैनेश्वरीं पूजां द्वीपे नंदीश्वराभिधे ।
देवैर्द्रुकीर्तिप्राप्त्यर्थं करोति जिनसागरः ॥

(म. ५४)

लेखांक १७२ - आदिनाथ स्तोत्र

या परी जिनराज चिंतुनि शक्रकीर्तिहि बंदिला ।
जाहला जिनसागराप्रति तोप अंतरि दाटला ॥ १०

(अष्टकप्रजासंग्रह, प्र. गो. गं. राऊळ, कारंजा)

लेखांक १७३ - शांतिनाथ स्तोत्र

या स्तोत्रपाठासि विसेस घोका । तुटेल हो संसृति पाप घोका ॥
पावाल त्यानंतर सककीर्ति । जैनाब्धि पापासि करा निवृत्ती ॥१०

(ना. ६४)

लेखांक १७४ - पार्श्वनाथ स्तोत्र

श्रीशक्रकीर्ति गुरु पत्कजपट्टपदाने ।
केली स्तुती न कळता मतिमंदनेने ॥००॥१७
...अत्यंत तोष हृदयी जिनपंडितासी ॥
श्रीपार्श्वनाथ विभु दे वर सज्जनासी ॥ १८

(म. १२६)

लेखांक १७५ - पद्मावती स्तोत्र

...आतामौन्य बरे विचार विसरे मी तो नसे शाहना ।
ऐसे हे जिनसागरे विनविले माझी असो बंदना ॥ १४

(उपर्युक्त)

लेखांक १७६ - क्षेत्रपाल स्तोत्र

हे जो स्तोत्र पढे अहो प्रतिदिनी काळत्रये जागृती
याचे दुर्घट रोग शोक पळती हे मी बद्धू पा किनी ।
ऐसे सांगतसे जिनाधि मुजना सद्भाव जे आदरी
शास्त्री देव गुरुसि भाव धरितो तोही फळे त्यापरी ॥ ९

(ना. ६४)

लेखांक १७७ - ज्येष्ठजिनवर पूजा

द्रव्य पूजा सुपरि स्तुति छंद रचू मनसा ।
देवेंद्रकीर्ति म्हणे जिनसिधु धीहीन पिसा ॥

(च. १००५)

लेखांक १७८ - शांतिनाथ आरती

सुंदर गिरडपूर जिनभुवनी शांतीश्वर मूर्ती ।
सद्गुणकीर्ति दिगंतरि व्यापक मुनि वामवकीर्ति ॥
देव गुरु बंधुनि जिनसागर मन भावे गाती ।
दारिद्रमंजन कमलारंजन ऐसी आरती ॥ ३

(आरतीसंग्रह २, च. १०२५)

लेखांक १७९ - पद्मावती मूर्ति

धर्मचंद्र

मंमत १७९३ प्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे सरम्बतीगच्छे बलात्काराणे म.
श्रीधर्मचंद्रना उपदेशान् ज्ञानवधेरवाल भोजसा भार्या नावाई ॥

(दि. १. न्वेरणे, नागपुर)

लेखांक १८० - पार्श्वनाथ मूर्ति

सके १६९२ मिति बैसाख वद ११ श्रीमूलसंघे ॥ म. धर्मचंद्र प्रतिष्ठितं ॥

(केळीनाग नन्दिन, नागपुर)

लेखांक १८१ - रत्नव्रत कथा

मूलसंघ भारति गडराज कुंदकुंडान्वय क्षितिनल गाज ।

शक्रकीर्ति गनधर सम मुनी तत्पट धर्मचंद्र गुणमनी ॥ २३
शांतमतींदुमती अजिका इन आम्रह वृषभे करी कथा ।
संवत् अठरासे विस आठ केतुत्साह तिथी दिन पाट ॥ २४

(म. ९३)

लेखांक १८२ - निर्दोष सप्तमी कथा

...नानाशास्त्रविशारदः परप्रवादीभेद्रपंचाननः
श्रीमद्धारककुंजरो गुणनिधिः सद्धर्मचंद्रोजनि ॥
वर्षे शून्यकृशानुनागविधुसंख्ये नीलपक्षे तिथौ
पचम्यां शुचि मासि चंद्रजदिने श्रुत्यक्षसंख्ये विधौ ॥
सद्भव्याश्रितकार्यरंजकपुरेनल्पोपमालंकृते
श्रीचंद्रप्रभदेवचैत्यनिलये पापौघविध्वंसिनि ॥
तच्छिष्यर्षभदासनामविदुपातीवाल्पबुद्धथा शुभं
यज्ञिर्दूषणसप्तमीत्रतवरिष्टोद्यापनं निर्मितं ॥

(प. २)

लेखांक १८३ - ऋषिमंडल यंत्र

संवत् १८३१ शके १६९६ श्रावण सुदि १३ शुक्र वासरे श्रीमूलसंखे
भ. श्रीधर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ देवेंद्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टधुरंधरश्रीमद्धारकधर्म-
चंद्रजि उपदेशात्... ॥

(व. ३)

लेखांक १८४ - नववाडी

कुंदकुंदमुनिवंश वास कारंज इक पुरी ।
धर्मचंद्रपदमित्र शक्रकीरति अनगारी ॥
तस पट्टे गुणसद्य धर्मचंद्राभिध स्वामी ।
तेह शिष्य मतिमंद विशद बुध वृषभ सुनामी ॥
तिणे शील छप्पय मुदा रच्या भाद्र सुदि पंचमी ।
नग नव रस चंद्रम शके पढत भव्य सुखसंगमी ॥ २५

(म. ७२)

लेखांक १८५ - रविवारव्रतकथा

विषय वराह मन्वारि सुनग्र कर्णखेट धनधान्य समग्र ।
 सुपार्श्वदेव चैत्यालय तुंग दर्शन पेखत पातकभंग ॥ १२०
 तपपट्टोदयशिखरि सूर्य शक्रकीर्ति भूमंडल वर्ध ।
 तत्पट्टभूषण श्रीगुरुराज धर्मचंद्र गळपति क्षिति गाज ॥ १२२
 तस सेवक वुध ऋपम घुरीन रची कथा व्यंजन स्वर हीन ।
 संवत अष्टादश तेतीस श्रावण सुदि वारसि रवि दीस ॥ १२३
 गंगेरवाल सु आंवढ्या हीरवा रघुजी भ्रात ।
 ते वचने कीधी कथा सुणता मंगल ख्यात ॥ १२५

[न. ५२]

लेखांक १८६ - अकृत्रिम चैत्यालय जयमाला

देवेंद्रकीर्ति

श्रीमद्धर्मसुचंद्रपट्टविलसदेवेंद्रकीर्तिस्तुतान्
 ये ध्यायंति सदाचर्यंति च वुधास्ते स्युः शिवश्रीप्रियाः ॥ ६४
 वर्षे नमोजलधिनागाहिमांशुमाने
 सार्धे सिते प्रवरपंचमिकां तिथौ वै ।
 कर्ताद्यसाख्यसद्गुपासकपुत्रवाक्यात्
 संनिर्मितावतु जनान् जयमालिकेयम् ॥ ६५

(ना. १२०)

लेखांक १८७ - नंदीश्वरपूजा

संवत १८४१ शके १७०६ मिति कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथौ
 सोमवारे भ. देवेंद्रकीर्तिना लिखितेयं पूजा स्वहस्तेन ॥

[ना. ४३]

लेखांक १८८ - अकृत्रिम चैत्यपूजा

शाके रसाभ्रनगचंद्रमिते सहजें
 मासे सिताष्टमितिथौ गुरुवासराद्ये ।
 श्रीधर्मचंद्रमुनिशक्रसुकीर्तिनामा

संनिर्ममेस्तु सुखदा जयमालिकेयम् ॥ ४८

(म. १०३)

लेखांक १८९ - चरणपादुका

संवत् १८५० शके १७१५ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे १० बुद्ध माध्याह्ने उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रे प्रीतियोगे अस्यां शुभवेलायां श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे कुंदकुंदाचार्यान्वये मलखेडसिंहासनाधीश्वरकार्यरंजकपुरवासी भ. श्रीधर्मचंद्रस्तत्पट्टे भ. श्रीमद्देवद्वेदकीर्तिनां देवलोकप्राप्ति जाता तत्पादुकेदं प्रतिष्ठापिता ॥

(का. ८)

लेखांक १९० - लावणी

मलयखेड सिंहासनपति जनतारक सन्मूर्ति ।
 पंचमकाळी भवतरला श्रीमुनि शक्रकीर्ति ॥ धृ. ॥
 तौलव देशामध्ये शोभे लवनपुरी टीका ।
 श्रेष्ठि भसे पायापा त्याची वनिता नेमाका ॥
 तिचे उदरीं उद्भवला जो ताराया लोका ।
 वाळदशा भग गेली असता पाहे विवेका ॥
 धर्मचंद्र भट्टारक पदि तो करि सेवा भक्ति ॥ पंचम. ॥ १
 ब्रह्मचारी तो कुशल कवि गुणसागर जाणून ।
 मुहूर्त पाहुनि चतुर्विध श्रीसंघ मिळवून ॥
 उत्सव करुनी कळश ढालुनी निज पदि सद्गुरुन ।
 स्थापुनिया भट्टारक केला जनानंदपूर्ण ॥
 वलात्कारगणनायक नामे देवद्वेदकीर्ति ॥ पंचम. ॥ ३
 कवित्व करुनी कथिला ज्याने पूजादिक धर्म ।
 बोधुनिया जन मार्गि लाविला दिधले व्रत नेम ॥
 हारुनि पंडित वादी ज्यासी भजती सप्रेम ।
 देश विदेश विजयी होउनि सज्जन विश्राम ॥
 करोनिया जिनयात्रा जाला उदास तो चिंती ॥ पंचम. ॥ ५
 सिरह आमोद्यानी वैसुनि करि संयमवृत्ति ॥ पंचम ॥ ६
 वस्त्ररहित नम मुद्रा पद्मासन युक्त ।

धूळि करोनि धूसर दीसे दिगंबर शांत ॥
 आत्मस्वरूपी मन लावुनी वचन करी गुप्त ॥
 निश्चळ काया केली ते सत्तपा करुनी तप्त ॥
 मृगादि वनचर विस्मय करुनी पाहाया येती ॥ पंचम. ॥ ७
 समाधि साधुनि धर्मध्यानी देह विसर्जीला ।
 देवगतीशी जाउनि उत्तम देव तो जाला ॥
 भक्तजनांचे वांछित सर्वहि पुरचू लागला ।
 जन दूर दूरचे येति पाहुका बंदावयाला ॥
 महतिसागर म्हणितो धन्य गुरुपद संप्राप्ति ॥ पंचम. ॥ १०

(महतिकाव्यकुच पृ. ९२)

लेखांक १९१ - रविवारव्रतकथा

शक्रकीर्ति गुरु मज भेटला तो कृपा करुनी वदवी मला ॥ २७
 हे कथा महती जलवी वदे ऐकित्ता सुजना सुख ठाव दे ॥
 आग्रहा करि पूतळसंघवी त्यास्तथे कथिली अनिलाघवी ॥ २८
 रिद्धिपूर शिवांगजधामनी शक्र वन्हियमाद्रिनिशामणी ।
 मास भाद्रव शुद्ध सुपंचमी अर्कवारि कथा करि पूर्ण मी ॥ २९

(उपर्युक्त पृ. ११८)

लेखांक १९२ - पंचकल्याणक कथा

मलयखेड सुकेशरिविष्टरी अधिप भारति गच्छपति सुरी ।
 सुगुरु तो मज वासवकीर्तिही वदवि भारति देउन उक्ति ही ॥ १४३
 महतिजलनिधीने पंचकल्याणिकाची ।
 शुभ कथिलि कथा हे पूर्ण त्या उत्सवाची ॥ ... ॥ १४६
 बाळापुरी नाभिजमंदिराते यमाभिसप्तेंदु शकाब्द पाते ।
 माघांध चातुर्दशि जीववारीं केली कथा हे परिपूर्ण सारी ॥ १४७

(उपर्युक्त पृ. ६१)

बैलात्कार गण—कारंजा शाखें

कारंजा शाखा की उपलब्ध पट्टावलीमें पहले उल्लेख योग्य आचार्य अमरकीर्ति है^v [ले. ९८]

इन के शिष्य वार्दान्द्र विशालकीर्ति हुए । आपने सुलतान सिकन्दर^{vi} विजयनगर के महाराज विरूपाक्ष और आरगनगर के दण्डनायक देवप की समाओ में सत्कार पाया था [ले. ९९]

विशालकीर्ति के शिष्य विद्यानन्द हुए । आपने श्रीरंगपट्टण के वीर पृथ्वीपति, सालुव कृष्णदेव, विजयनगर के सम्राट् श्रीकृष्णराय आदि शासकों से सम्मान पाया था । आप का सम्मान सुलतान अल्लाउद्दीन ने भी किया था^{vii} । आप का स्वर्गवास शक १४६३ में हुआ । [ले. १००, १०१]

विद्यानन्द के शिष्य देवेद्रकीर्ति हुए । आप के शिष्य वर्धमान ने शक १४६४ में दशमकत्यादि महाशास्त्र की रचना की ।^{viii} [ले. १०२-३]

देवेद्रकीर्ति के पट्टशिष्य धर्मचन्द्र हुए । आप ने शक १४८७ में एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की [ले. १०४-५] ।

इन के अनन्तर धर्मभूषण भट्टारक हुए । आप ने शक १५०३ की फाल्गुन शुक्ल ७ को एक चन्द्रप्रभ मूर्ति स्थापित की [ले. १०६-७] ।

इन के पट्टशिष्य देवेद्रकीर्ति हुए । उपर्युक्त प्रतिष्ठा में आप ने भी नेमिनाथ की एक मूर्ति स्थापित की [ले. १०८] । एरद्वेल में रहते हुए संवत् १६४१ में आपने हर्षमती के लिए आम्बिका रास की एक प्रति

२४ इन के पूर्व गुप्तिगुप्त, कुदकुद, मयूरपिच्छ, यध्रपिच्छ, जटासिहनदि, लोहाचार्य, उमास्वति, माघनेदि, मेघनदि, जिनचन्द्र, प्रभाचन्द्र, विद्यानन्द, अकल्क, अनंतकीर्ति, माणिक्यनदि, नेमिचन्द्र और चारकीर्ति का उल्लेख है ।

२५ ये दोनों लोदी वंश के दिल्ली के सुलतान थे । विद्यानन्द के विषय में एक अन्य गिलाखेख के विवेचन के लिए देखिए *Jain Antiquary IV P. 11f.*

२६ वर्धमान ने इस ग्रन्थ में कोणूर गण, देगीय गण आदि अन्य परम्पराओं के विषय में भी पर्याप्त लिखा है ।

लिखी [ले. १०९] । इन के शिष्य आदशेटी ने नदिग्राम में शक १५१४ की पौष शुक्ल १३ को मराठी द्वादशानुप्रेक्षा की एक प्रति लिखी (ले. ११०) । इन के लिखे हुए नेमिनाथ पूजा और नन्दीश्वरपूजा ये दो पाठ उपलब्ध है (ले. १११-१२) ।

इन के पट्टशिष्य कुमुदचन्द्र हुए । आप ने शक १५२२ की वैशाख सुदी १३ को तथा शक १५३५ की फाल्गुन शुक्ल ५ को कोई मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ११३-१४) ।^{१०} आप की पार्श्वनाथ पूजा में मलयखेड के भट्टारकपीठ का उल्लेख है (ले. ११५) । आप ने ब्रह्म वीरदास को पंचस्तवनांवचूरि की एक प्रति दी थी (ले. ११६) ।

इन के बाद धर्मचन्द्र भट्टारक हुए । इन के शिष्य पार्श्वकीर्ति ने शक १५४९ की फाल्गुन वद्य १० को मराठी ग्रन्थ सुदर्शनचरित पूरा किया (ले. ११७) । पार्श्वकीर्ति का पहला नाम वीरदास था । उन की दूसरी रचना बहुतरी नामक मराठी कविता है (ले. ११८) । उन ने संवत् १६८६ में एक कल्लिकुंड यंत्र स्थापित किया था (ले. ११९) इन ने एक और प्रतिष्ठा शक १५६९ में कराई थी (ले. १२४) । भ. धर्मचन्द्र ने संवत् १६९२ की वैशाख कृष्ण १२ को एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की, संवत् १६९३ की मार्गशीर्ष शुक्ल २ को जयपुर में किन्ही चरणपादुकाओं की स्थापना की, शक १५६१ की फाल्गुन शुक्ल २ को एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५६७ में एक चौबीसी मूर्ति प्रतिष्ठित की, तथा शक १५७० में श्रवणबेलगोल में एक चौबीसी मूर्ति प्रतिष्ठित की । अन्तिम प्रतिष्ठा के समय पंडिताचार्य चारुकीर्ति भी उपस्थित थे [ले. १२०-१२५] । द्विज वासुदेव ने आप की एक पूजा लिखी है [ले. १२६] ।

२७ मुनि कान्तिसागरजी ने इन दोनों में गलती से सबत् शब्द लिखा है । संवत्सरो के नामों से ये दोनों शक ही सिद्ध होते हैं ।

धर्मचन्द्र के बाद धर्मभूषण पट्टाधीश हुए । आप ने शक १५७२ की फाल्गुन शुक्ल ११ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की, शक १५७६ की मार्गशीर्ष शुक्ल १० को एक पोडशकारण यंत्र स्थापित किया, शक १५७७ की वैशाख शुक्ल ९ को कोई मूर्ति स्थापित की, शक १५७८ मे एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५७९ में मार्गशीर्ष शुक्ल . १४ को एक चौबीसी मूर्ति स्थापित की, शक १५८० की मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को एक नेमिनाथमूर्ति स्थापित की, शक १५८६ की फाल्गुन शुक्ल ५ को एक पार्श्वनाथमूर्ति स्थापित की तथा शक १५९७ मे एक श्रेयांसमूर्ति स्थापित की । (ले. १२७-१३४) । शीतलेश की प्रार्थना पर आप ने रत्नत्रय ऋत के उद्यापन की रचना की [ले. १३५ ।

भट्टारक धर्मभूषण के पट्ट पर विशालकीर्ति अभिषिक्त हुए । इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है । इन के गुरुबन्धु अजितकीर्ति तथा शिष्य पद्मकीर्ति और इन दोनो की शिष्यपरम्परा का वृत्तान्त लाटूर शाखा के प्रकरणमे सगृहीत किया है ।

विशालकीर्ति के पट्टशिष्य धर्मचन्द्र हुए । आप ने शक १६०७ की फाल्गुन कृष्ण १० को एक चौबीसी मूर्ति स्थापित की, शक १६१२ की ज्येष्ठ कृष्ण ७ को एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की [ले. १३६, १३८] । आप के शिष्य गंगादास ने संवत् १७४३ की श्रावण शुक्ल ७ को श्रुत-स्कन्ध कथा की एक प्रति लिखी [ले. १३७] । उन ने शक १६१२ की पौष शुक्ल १३ को पार्श्वनाथ भवान्तर की तथा शक १६१५ की आषाढ शुक्ल २ को आदितवार कथा की रचना की [ले. १३९-४०] । सम्भेदाचलपूजा, त्रेपनक्रियाविनती, जटामुकुट और क्षेत्रपालपूजा ये गंगादास की अन्य रचनाएँ हैं । इन मे अन्तिम दो संघपति मेघा और शोभा की प्रार्थना पर लिखी गई थीं [ले. १४२-४५] । धर्मचन्द्र ने हीरासाह के आम्रह से कैलास पर्वत की स्तुति रची [ले. १४६] । उन के खोलापुर निवासी शिष्यों के लिए लिखी गई विरुदावली मे उन्हे मलय-खेड सिंहासन के आचार्य कहा है [ले. १४७] किन्तु यह पुराने विरुद

का अनुकरण मात्र है। वास्तव में इन के प्रगुरु धर्मभूषण के समय से ही भट्टारक पीठ कारंजा में स्थापित हो चुका था।

धर्मचन्द्र के बाद देवेन्द्रकीर्ति पट्टाधीश हुए। आप ने संवत् १७५६ में एक चौबीसी मूर्ति स्थापित की [ले. १४८]। कारंजा-निवासी बघेरवाल शिष्यों के साथ आप ने शक १६४३ की पौष कृष्ण १२ को श्रवणबेलगोल की यात्रा की [ले. १४९]। इसी वर्ष आप ने कल्याणमन्दिर पूजा लिखी तथा विट्टल के आग्रह से विपापहार पूजा भी लिखी। ये रचनाएँ क्रमशः कारंजा और साहार में हुई [ले. १५०-५१]। शक १६५० की पौष शुक्ल २ को आप ने नासिक के पास त्रिंबक ग्राम के पास के गजपंथ पर्वत की वंदना की [ले. १५२] व ग्यारह दिन के बाद मांगीतुमी पर्वत की यात्रा की [ले. १५३]। इस समय जिनसागर, रत्नसागर, चंद्रसागर, रूपजी, वीरजी आदि छात्र आप के साथ थे। इस के बाद गिरनार की यात्राके लिए जाते हुए आप सूरत ठहरे जहां माघ शुक्ल १ को आणंद नामक श्रावकने णायकुमार चरिउ की एक प्रति आपको अर्पित की [ले. १५४]। शक १६५१ की वैशाख कृष्ण १३ को आपने केशरियाजी की वंदना की [ले. १५५] तथा उसी वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को तारंगा पर्वत और कोटिशिला की वंदना की (ले. १५६)। इसी वर्ष पौष कृष्ण १२ को गिरनारकी और माघ कृष्ण ४ को शत्रुंजय पर्वतकी यात्रा आपने पूरी की [ले. १५७-५८]। सूरत में आप ठहरे थे उस समय संवत् १७८७ की भाद्रपद शुक्ल ५ को आर्थिका पासमती के लिए आपने श्रीचन्द्र विरचित कथाकोप की एक प्रति लिखवाई [ले. १५९]। आपकी लिखी एक नन्दीश्वर आरती उपलब्ध है [ले. १६०]। आगरा निवासी बनारसीदास के पुत्र जीवन-दास को पहले आपके विषय में अनादर था, किन्तु सूरत के चातुर्मास में आप की विद्वत्ता देख कर वे आप के शिष्य बन गये। बुद्धिसागर और रूपचंद ने भी आपकी स्तुति की [ले. १६१]। आप के शिष्य

माणिकनन्दि ने शक १६४६ की भाद्रपद शुक्ल १४ को अनन्तनाथ आरती की रचना की [ले. १६२] ।

म. देवेद्रकीर्ति के शिष्यो मे जिनसागर प्रमुख थे । इनने शक १६४६ की चैत्र कृष्ण ५ को आदित्यव्रत कथा लिखी, शक १६४९ में कारंजामे जिनकथा की रचना की, शक १६५२ की आश्विन शुक्ल १२ को पद्मावती कथा तथा शक १६६० मे पुष्पाजलि कथा पूरी की [ले. १६३-६६] । लवणाकुश कथा, अनन्त कथा और सुगन्धदशमी कथा ये इनकी अन्य कथाए शिरड ग्राम मे लिखी गई थीं [ले. १६०-६९]^{१५} । वहीं शक १६६६ की वैशाख शुद्ध द्वादशी को आप ने जीवंधरपुराण लिखा [ले. १७०] । नन्दीश्वर उद्यापन, आदिनाथ स्तोत्र, शान्तिनाथ-स्तोत्र, पार्श्वनाथस्तोत्र, पद्मावतीस्तोत्र, क्षेत्रपालस्तोत्र, ज्येष्ठ जिनवर पूजा, और शान्तिनाथ आरती ये आप की अन्य रचनाएं हैं [ले. १७१-१७८] ।

देवेद्रकीर्ति के पट्ट पर धर्मचन्द्र भट्टारक हुए । आप ने संवत् १७९३ मे एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की तथा शक १६९२ की वैशाख कृष्ण १२ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. १७९-८०) । संवत् १८३१ की श्रावण शुक्ल १३ को एक ऋषिमंडल यत्र भी आप ने स्थापित किया [ले. १८३] । आप के शिष्य वृषभ ने शातमती और इद्रुमती के आग्रह पर संवत् १८२८ मे रविव्रत कथा लिखी तथा संवत् १८३० की ज्येष्ठ कृष्ण ५ को निर्दोषसप्तमीव्रत का उद्यापन लिखा (ले. १८१-८२) । इन ने शक १६९६ की भाद्रपद शुक्ल ५ को नववाडी नामक स्फुट कविता रची तथा संवत् १८३३ मे कर्णखेट मे पुनः रविवार व्रत कथा की रचना की [ले. १८४-८५] ।

२८ पहली दो कथाओंमे रचनागक दिया है किन्तु पुत्र गठ मे कौनमा अक लिया जाय यह स्पष्ट नहीं है ।

धर्मचन्द्र के पट्ट शिष्य देवेन्द्रकीर्ति हुए। आप ने कडतासाह के पुत्र की प्रार्थना पर अकृत्रिम चैत्यालय जयमाला की रचना संवत् १८४० में की [ले. १८६]। आप ने शक १७०६ में नन्दीश्वर पूजा और अकृत्रिम चैत्यपूजा की रचना की [ले. १८७-८८]। आप के पिता पायापा और माता नेमाका तौल्य देश के लवनपुर में रहने थे। अन्त समय शिरड ग्राम में रहते हुए आपने दिगम्बर मुद्रा वारण की थी [ले. १९०]। आप का स्वर्गवास संवत् १८५० की कार्तिक कृष्ण १० को हुआ (ले. १८९)। आप के प्रमुख शिष्य महतिनागर थे। आपकी मराठी रचनाओंका एक संग्रह 'महति काव्यकुंज' नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप ने रिद्धिपुर में शक १७२३ की भाद्रपद शुक्ल ५ को पुनलसंवती के आग्रह पर रविवार र्न क्या लिखी तथा शक १७३२ की माघ कृष्ण १४ को आदिनाथ पंचकल्याणिक कथाकी रचना पूर्ण की (ले. १९१-९२)।

२९ स्थानिक अनुश्रुति से ग्या ज्ञाता है कि देवेन्द्रकीर्ति के बाद म. पन्नन्दि गृहार्थाय हुए। सिद्धेश्वर मुक्तागिरि की वन्दना करने हुए अगवाल से इन की मृत्यु हुई। इन की सनाधि मुक्तागिरि के गव ही खर्यी नानक गांव में है। इन ने संवत् १८७९ में ही काष्ठयान नानक शिष्यका पट्टाभिषेक कर उन का नाम देवेन्द्रकीर्ति रखा था। देवेन्द्रकीर्ति कोई साठ वर्ष गृहार्थाय रहे। नागपुर, विदर्भ और मराठवाडाकी बबेरवाड, खंडेस्वाड, परवार, नेरी, सैनवाड आदि सभी जैन जातियों के प्रमुख व्यक्तियोंसे अग्रका सम्पर्क रहा। नागपुर, गनदेक, कर्वा आदि स्थानोंमें आग के द्वारा विद्याल मूर्तियों की स्थापना हुई थी। नेगवंशी सम्प्रदाय के सुल्लक धर्मदासजी अमरगवती ने आद से निरुकर बड़े प्रभावित हुए। बाद में उनने सन्मन्डानदीपिका आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का निर्माण किया। देवेन्द्रकीर्ति ने संवत् १९३६ में कलकटान नानक शिष्यका गृहार्थाय कर उन का नाम र्नकीर्ति रखा था। इन्ह के कोई ५ वर्ष बाद संवत् १९४१ में उन का स्वर्गवास हुआ। म. र्नकीर्ति ने गुरु की सनाधि अच्छी तरह निर्माण कर उसके चारों ओर बगीचा स्थाने की व्यवस्था की थी। र्नकीर्तिका स्वर्गवास अचन्द्रपुर में संवत् १९५३ में हुआ। उन के कोई चार वर्ष बाद देवेन्द्रकीर्ति

बलात्कार गण-कारंजा-कालपट

- १ अमरकीर्ति
 |
 २ विशालकीर्ति
 |
 ३ विद्यानन्द [संवत् १५९८]
 |
 ४ देवेन्द्रकीर्ति (संवत् १५९९)
 |
 ५ धर्मचन्द्र [संवत् १६२२]
 |
 ६ धर्मभूषण [संवत् १६३८]
 |
 ७ देवेन्द्रकीर्ति [सं. १६३८-१६४९]
 |
 ८ कुमुदचन्द्र [सं. १६५६-१६७०]
 |
 ९ धर्मचन्द्र [सं. १६८४-१७०४]
 |
 १० धर्मभूषण [सं. १७०७-१७३२]
 |
 ११ विशालकीर्ति अजितकीर्ति,
 [लातूर शाखा]
 |
 १२ धर्मचन्द्र पद्मकीर्ति
 [सं. १७४२-१७४९] [लातूर शाखा]
 |
 १३ देवेन्द्रकीर्ति [सं. १७५६-१७८६]
 |

इस पट्टपर संवत् १९५७ में अभिषिक्त हुए। इन का स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ। इन के बाद कारंजाकी भट्टारक पीठ पर कोई भट्टारक नहीं हुए। कारंजाका बलात्कार गण मन्दिर का शास्त्र भाण्डार चडा ममृद्ध है।

१४ धर्मचन्द्र [स. १७९३-१८३३]

|

१५ देवेन्द्रकीर्ति (सं. १८४०-१८५०)

|

१६ पद्मनन्दि [स. १८५०-१८७९]

|

१७ देवेन्द्रकीर्ति (सं. १८७९-१९४१]

|

१८ रत्नकीर्ति (सं. १९३६-१९५३)

|

१९ देवेन्द्रकीर्ति (सं. १९५७-१९७३)



४. बलात्कार गण - लातूर शाखा

लेखांक १९३ - ? मूर्ति

अजितकीर्ति

शके १५७३ खरनाम संवत्सरे फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिलक-
दान श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीधर्म-
चंद्र तत्पट्टे भ. धर्मभूषण तदाम्नाये भ. अजितकीर्तिउपदेशात् जैन ज्ञाति
कनयातुक सेटी च ताहु सेटी कुटुंबसहितेन नित्यं प्रणमंति ॥

(नाळापुर, अ. ४ पृ. ५०५)

लेखांक १९४ - नंदीश्वर मूर्ति

विशालकीर्ति

शके १५९२ वैशाख . . मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदा-
चार्यान्वये भ. कुमुदचंद्र तत्पट्टे भ. अजितकीर्ति तत्पट्टे भ. विशालकीर्ति
उपदेशात् सोनो पंडित रोडे ॥

(पा. ४)

लेखांक - १९५ आदिपुराण

महीचंद्र

शके सोळाशे अष्टादश । धाता नाम संवत्सर सुरस ॥
माघ वद्य पंचमी तिथीस । वार रवि पै ॥
भरतक्षेत्रामध्ये जाण । आशापुर पुण्यपावन ॥
मूळनायक शांतिजिन । चैत्याला पै ॥
विशाळकीर्तिचे कृपेण । महीचंद्रे अज्ञानपण ॥
ग्रंथ केला संपूर्ण । स्वहस्ते पै ॥

[विविध ज्ञान विस्तार, मे १९२४]

लेखांक १९६ - गरुडपंचमीकथा

कुंदकुंदाचार्यान्वय सूरि । धर्मचंद्र पटाचारि ॥
तदा आम्नाय धर्माचारी । अजितकीर्ति पै ॥ ८६
तत्पट्टोघर विशालकीर्ति । विशाल आहे त्याची मति ॥
तत्पदपंकजसेवक यति । महिचंद्र ॥ ८७

त्याचे अंशी ज्ञानराशी । गुणकीर्ति सागर ॥ २६९
 त्याचा शिष्य क्षमाशील । जो चंद्रकीर्ति विद्याळ ॥
 त्याचे मम माथा करकमळ । गुरु दयाळ तो माझा ॥ २७०
 त्याचे अंशी महारत्न । मानिकनंदी निग्रंथ पूर्ण ॥
 त्याचा सजन जनार्दन । श्रावक जैन गृहाश्रमी ॥ २७१
 शके सोळाशे सत्याणव । वद्य पक्ष माघ अपूर्व ॥
 सप्तमी वार शनि राव । तिसरा याम जाण पा ॥ २७८

[अध्याय ४०, च. १९०४]

लेखांक २०५ - हरिवंशपुराण

अजितकीर्ति

गुरु अन्वय झाले भट्टारक । मुनि देवेंद्रकीर्ति सुरेख ॥
 त्याचे पट्टी जाले भट्टारक । कुमुदचंद्र ॥ ५५
 कुमुदचंद्राचे पदधारी । धर्मचंद्र झाले वागेश्वरी ॥
 त्याचे पट्टी उद्योतकारी । जाहाले गुरु ॥ ५६
 गुरु जाले हो धर्मभूषण । त्याची आनाथ विचक्षण ॥
 भट्टारक विशालकीर्ति जाण । गुरु आमुचे ॥ ५७
 त्याचे पटी हो ज्ञानजोती । भट्टारक श्रीअजितकीर्ती ॥
 माउली आमुची पुण्यमूर्ती । ते व्हावी आम्हा ॥ ५८
 त्याचा शिष्य जो ब्रह्मचारी । पुण्यसागर कवित्व करी ॥
 माण्ड्याष्ट भापा टीका उच्चारी । हरिवंश कथा ॥ ५९

(ना. १)

लेखांक २०६ - आदितवार कथा

श्रीमूलसंघ वागेश्वरी गळ । बलात्कार गण जाणिजे प्रत्यक्ष ॥
 गुरु अजितकीर्तीने केली साक्ष । श्रवणमात्रे ॥ १७९
 सिद्ध विनति करितो तुम्हा । कवि बोले पुण्य ब्रह्मा ॥
 स्वामी कृपा करावी आम्हा । जन्मोजन्मी ॥ १८०

[ना. १६]

लेखांक २०७ - सम्यग्दर्शन यंत्र

पद्मकीर्ति

सके १६०१ फाल्गुन सुदि ११ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे भ. श्रीपद्म-
कीर्ति सदुपदेशात् श्रीपद्मावतीपत्नीवालज्ञातौ अडनाव कुस्तानी पानसी
भार्या मगनाई.....॥

(पा. १२५)

लेखांक २०८ - ? मूर्ति

शके १६०७ वर्षे मार्गसिर सुद १० मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कार-
गणे भ. विशालकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. पद्मकीर्तिगुरुपदेशात् पाससा सेठ
भार्या पसाई.....॥

(नादगाव, अ. ४ पृ. ५०५)

लेखांक २०९ - ? यंत्र

शक १६०७ मार्गसिर शुक्ल १० बुधे श्रीमूलसंघे...भ. श्रीविशाल-
कीर्तितत्पट्टे भ. श्रीपद्मकीर्ति तयोः उपदेशात् जाती सोहितवाल.....॥

(अह्मर, अ. १० पृ. १५६.)

लेखांक २१० - चारित्र यंत्र

विद्याभूषण

सके १६०८ फागण वदी १० श्रीमूलसंघे.....भ. श्रीविशालकीर्ति
तत्पट्टे भ. श्रीपद्मकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीविद्याभूषण.....॥

(पा. १२०)

लेखांक २११ - आदिनाथ मूर्ति

हेमकीर्ति

सं. १७५२ माघ वदी ८ श्रीमूलसंघे भ. श्रीहेमकीर्ति.....॥

(ति. वे. खेडकर, नागपुर)

लेखांक २१२ - चौबीसी मूर्ति

शक १६२६ तारण संवत्सरे माह सुद १३ मूलसंघ बलात्कारगण भ.
हेमकीर्ति उपदेशात् सितळसंगई प्रतिष्ठितं ॥

[पा. १६]

लेखांक २१३ - चौबीसी मूर्ति

शक १६२६ तारण नाम संवत्सरे माहो सुद १३ शुके मूलसंघे म. पद्मकीर्ति तत्पट्टे म. विद्याभूषण तत्पट्टे म. हेमकीर्ति उपदेशान् उल्लेनी पट्टी-वाल ज्ञापीय सिंगवी लखमप्रसादजी भार्या गोमाई... प्रतिष्ठितं श्रीसीनगरे चंद्रनाथचैत्यालये.....॥

[पा. ४८]

लेखांक २१४ - जिनपूजा छप्पय

सोलसके अडतालिसमे सुव आपाढमे छठिके दिन रंगं ।
हेमसुकीरति की कृति येह जिनेश्वर अष्ट प्रकारिय चंगं ॥ ९

[ना. १२४]

लेखांक २१५ - दशलक्षण यंत्र

सक १६५३ वैसाख सुद १४ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे म. हेमकीर्ति-उपदेशान् श्रीश्रीमालहातौ महासा नित्यं प्रणमंति ॥

(गो. स. नाकोडे, नागपुर)

लेखांक २१६ - षोडशकारण यंत्र

शक १६५३ वर्षे वैसाख सुदि १ मूलसंघे बलात्कारगणे म. पद्मकीर्ति तत्पट्टे म. विद्याभूषण तत्पट्टे म. हेमकीर्ति उपदेशान्...॥

[सिंदी, अ. ४ पृ. ५०४]

लेखांक २१७ - रामटेक छंद

देवगढचा दहे परगणा । विद्याभूसनाचि आमना ॥
गळ बाळात्कार जाना । समस्त लोक ॥ १४
पाछाव झाडीचा म्हनती । धन्य धन्य हेमकीर्ति ॥
मकरंद पाड्या त्याहचे चिची । नाव धारक ॥ १५

(म. १२५)

लेखांक २१८ - शांतिनाथ मूर्ति

अजितकीर्ति

संमत १८३२ मन्मथ नाम-संवत्सरे मूलसंधे बलात्कारगणे.....भ.
पद्मकीर्ति तत्पट्टे भ. विद्याभूषण तत्पट्टे भ. हेमकीर्ति तत्पट्टे भ. अजितकीर्ति
फाल्गुण मासे शुद्ध २ ॥

[पा. १०२]

लेखांक २१९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

शक १६९७.....नाम संवत्सरे भ. अजितकीर्ति उपदेशात् फाल्गुण
शुद्ध २ ॥

(पा. ३९)

लेखांक २२० - पार्श्वनाथ मूर्ति

संमत १८५७ शके १७२२ भाद्रवा सुदी १० सोमवासरे कुंडकुंदा-
चार्यान्वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भ. श्रीअजितकीर्ति तस्य उपदेशात्
...परवारज्ञाते.....॥

(परवार मन्दिर, नागपुर)

लेखांक २२१ -

नागेन्द्रकीर्ति

नाम घेतले गुरु दाखले चंद्रकीर्ति पदी छीन झाला ।

नागेन्द्रकीर्ति पद करोनी सभेमाजी बोलिला ॥ ४

(जिन पद्यरत्नावली, पृ. २०)

लेखांक २२२ -

चंद्रकीर्ति निर्वाण स्वामी जग वंदनीय झाला ।

नागेन्द्रकीर्ति दीक्षित होउनि नमोकार त्या दिधला ॥ ४

(उपर्युक्त, पृ. २१)

बलात्कार गण - लातूर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. अजितकीर्ति से हुआ। इन के दीक्षागुरु कारंजा शाखा के भ. कुमुदचन्द्र थे (ले. १९४)। किन्तु कुमुदचन्द्र की मुख्य पट्टपरम्परा मे धर्मचन्द्र और धर्मभूषण ये भट्टारक हुए इस लिए अजितकीर्ति ने धर्मभूषण का भी आचार्यरूप मे उल्लेख किया है (ले. १९३)। अजितकीर्ति ने शक १५७३ की फाल्गुन शु. ५ को कोई मूर्ति स्थापित की (ले. १०३)।

इनके बाद विशालकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने शक १५९२ के वैशाख में एक नन्दीश्वर मूर्ति स्थापित की (ले. १९४)।

विशालकीर्ति के पट्टशिष्य महीचन्द्र हुए। आप ने शक १६१८ की माघ वद्य ५ को आशापुर मे मराठी ग्रन्थ आदिपुराण पूर्ण किया (ले. १९५)। गरुडपञ्चमी कथा, अठार्ह व्रत कथा, नेमिनाथ भवांतर और काली गौरी संवाद ये इन की अन्य रचनाए है (ले. १९६-९९)। इन के शिष्य गोमट-सागर ने शक १६३३ की भाद्रपद कृ. ५ को कौतुकसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति लिखी (ले. २००)। इन के दूसरे शिष्य महाकीर्ति ने शीलपताका नामक कथाग्रन्थकी रचना की थी (ले. २०१)।

महीचन्द्र के पट्टशिष्य महीभूषण हुए। इन ने शक १६४० की वैशाख कृ. ५ को पञ्चावती सहस्रनाम की एक प्रति कारंजा में लिखी (ले. २०२)। इन के शिष्य गौतमसागर ने शक १६४३ की माघ कृ. ४ को वाला पूजा की प्रति लिखी (ले. २०३)।

महीभूषण के बाद इस परम्परा मे क्रमशः शान्तिकीर्ति, कल्याण-कीर्ति, गुणकीर्ति, चंद्रकीर्ति और माणिकनन्दि ये भट्टारक हुए। चंद्रकीर्ति के शिष्य जनार्दन ने शक १६९७ की माघ कृ. ७ को मराठी श्रेणिक चरित्र पूरा किया (ले. २०४)।

लातूर शाखा की दूसरी परम्परा कारंजा शाखा के भ. विशालकीर्ति (द्वितीय) से आरंभ होती है। इन के शिष्य अजितकीर्ति के शिष्य पुण्य-

सागर ने मराठी हरिवशपुराण पूर्ण किया^{३०} (ले. २०५)। पुण्यसागर की दूसरी रचना आदितवार कथा है (ले. २०६)।

विशालकीर्ति के दूसरे शिष्य पद्मकीर्ति हुए। आप ने शक १६०१ की फाल्गुन शु. ११ को एक सम्यग्दर्शन यन्त्र स्थापित किया (ले. २०७), शक १६०७ में एक मूर्ति तथा एक यन्त्र स्थापित किया (ले. २०८-९)।

पद्मकीर्ति के बाद विद्याभूषण पट्टाधीश हुए। इन ने शक १६०८ को फाल्गुन व. १० को एक सम्यक्चारित्र यंत्र स्थापित किया (ले. २१०)।

विद्याभूषण के पट्टशिष्य हेमकीर्ति हुए। आपने संवत् १७५२ की माघ व. ८ को एक आदिनाथ मूर्ति तथा शक १६२६ की माघ शु. १३ को दो चौबीसी मूर्ति स्थापित की (ले. २११-१३)। शक १६४८ की आषाढ शु. ६ को आप ने जिनपूजा की रचना की (ले. २१४)। शक १६५३ के वैशाख में आपने एक पोडशकारण यंत्र और एक दशलक्षण यंत्र भी स्थापित किया (ले. २१५-१६)। मकरन्द की एक कविता से ज्ञात होता है कि रामटेक क्षेत्र के विभाग में हेमकीर्ति का शिष्यवर्ग रहता था (ले. २१७) तथा यह क्षेत्र उस समय देवगढ राज्य के अन्तर्गत था।

हेमकीर्ति के बाद अजितकीर्ति पट्टाधीश हुए। आप ने शक १६९७ की फाल्गुन शु. २ को एक शान्तिनाथ मूर्ति तथा एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. २१८-१९)। आप ने शक १७२२ की भाद्रपद शु. १० को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. २२०)।

अजितकीर्ति के बाद चन्द्रकीर्ति पट्टाधीश हुए। इन के पट्टशिष्य नागेन्द्रकीर्ति ने मराठीमें कई पदोकी रचना की है (ले. २२१-२२)^{३१}

३० यह पुराण उल्लतकीर्ति के शिष्य जिनदास ने देवगिरिपर आरंभ किया था लेकिन उनका बीच में ही स्वर्गवास हो जानेसे पुण्यसागरने उसे पूरा किया।

३१ नागेन्द्रकीर्ति के बाद विशालकीर्ति भट्टारक हुए। तत्त लातूर, गादी नागपुर, मठ पूना ऐसी इन की व्यवस्था थी। इन का स्वर्गवास संवत् १९४८ की

बलात्कार गण-लातूर शाखा-काल पट

धर्मभूषण

१	अजितकीर्ति [संवत् १७०८]	विशालकीर्ति
२	विशालकीर्ति [संवत् १७२६]	पद्मकीर्ति [सं. १७३६-४३] अजितकीर्ति
३	महीचन्द्र [संवत् १७५३]	विद्याभूषण [संवत् १७४४]
४	महीभूषण [संवत् १७७४]	हेमकीर्ति [सं. १७५२-१७८७]
५	शान्तिकीर्ति	अजितकीर्ति [संवत् १८३२-१८५७]
६	कल्याणकीर्ति	चन्द्रकीर्ति
७	गुणकीर्ति	नागेन्द्रकीर्ति
८	चन्द्रकीर्ति	विशालकीर्ति
९	माणिक्यनन्दि [संवत् १८३२]	विशालकीर्ति [वर्तमान]

दीपावली को हुआ। इस के २२ वर्ष बाद संवत् १९७१ की कार्तिक शु. १ को वर्तमान म. विशालकीर्तिजी का पट्टाभियेक हुआ। आप ने 'भावाकुर' नामक संस्कृत और मराठी कविताओं का एक संग्रह लिखा है। इस समय लातूर पीठ सैतवाल जैन समाज का गुरुपीठ माना जाता है।

भट्टारक-संप्रदाय



स्व. भ. विशालकीर्तिजी (लातूर)
(स्वर्गवास सं. १९४८)

भट्टारक-संप्रदाय



वलत्कार गण-लातूर शाखा के वर्तमान भट्टारक
श्रीविशालकीर्ति (पट्टाभिषेक संवत् १९७१)

५. बलात्कार गण - उत्तर शाखा

लेखांक २२३ - पट्टावली

वसंतकीर्ति

संवत् १२६४ माह सुदि ५ वसंतकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष
२० पट्ट वर्ष १ मास ४ दिवस २२ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ३३ मास ५
वधेरवाल जाति पट्ट अजमेर ॥

(अ. १०)

लेखांक २२४ - गुर्वावली

सैद्धान्तिकोभयकीर्तिर्वनवासी महातपाः ।

वसंतकीर्तिन्याघ्रांङ्घ्रिसेवितः शीलसागरः ॥ २१-

(भा. १ कि. ४ पृ. ५२)

लेखांक २२५ -

कलौ किल म्लेच्छादयो नमं दृष्ट्वोपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्ये
श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य
चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तान्मुञ्चन्तीत्युपदेशः कृतः संयमिनां इत्यपवादवेषः ।

[षट्प्राभृतयिका पृ. २१]

लेखांक २२६ - गुर्वावली

विशालकीर्ति

तस्य श्रीवसन्तकीर्तिर्भुवनप्रख्यातकीर्तेरभूत्

शिष्योनेकगुणालयः शमयमध्यानापसागरः ।

वादीन्द्रः परवादिवारणगणप्रागल्भ्यविद्रावणः

सिंहः श्रीमति मण्डपेतिविदितलैविद्यविद्यास्पदम् ॥ २२

विशालकीर्तिर्धरदृष्टमूर्तिः ।

(भा. १ कि. ४ पृ. ५२)

लेखांक २२७ - गुर्वावली

शुभकीर्ति

ततो महात्मा शुभकीर्तिदेवः ।

एकान्तराद्युग्रतपोविधाता धातेव सन्मार्गविधेर्विधाने ॥ २३

(उपयुक्त)

लेखांक २२८ - ? मूर्ति

संवत् १३८० वर्षे माघ सुदि ७ सनौ श्रीनंदिसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे मूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये म. शुभकीर्तिदेव तत्शिष्य सर्वातिः.....॥

(चूलगिरि, अ. १२ पृ. १९२)

लेखांक २२९ - गुर्वावली

धर्मचंद्र

श्रीधर्मचन्द्रोजनि तस्य पट्टे हमीरभूपालसमर्चनीयः ।

सैद्धान्तिकः संयमासिन्धुचन्द्रः प्रख्यातमाहात्म्यकृतावतारः ॥ २४

[मा. १ कि. ४ पृ. ५३]

लेखांक २३० - पट्टावली

संवत् १२७१ श्रावण सुदि १५ धर्मचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १८ दीक्षा वर्ष २४ पट्ट वर्ष २५ दिवस ५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ६५ दिवस १२ जाति ह्रंवड पट्ट अजमेर ॥

(न. १९)

लेखांक २३१ - गुर्वावली

रत्नकीर्ति

तत्पट्टेजनि रत्नकीर्तिरजयः स्याद्वाद्विद्यांबुधिः ।

नानादेशविद्वत्तशिष्यनिवहः प्राचार्याग्निमुग्धो गुरुः ॥

(मा. १ कि. ४ पृ. ५३)

लेखांक २३२ - पट्टावली

संवत् १२९६ भाद्रवा वदि १३ रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १९ दीक्षा वर्ष २५ पट्ट वर्ष १४ दिवस ११ अंतर दिवस ६ सर्व वर्ष ५५ दिवस १९ ह्रंवड जाति पट्ट अजमेर ॥

(न. १०)

लेखांक २३३ - पट्टावली

प्रभाचंद्र

संवत् १३१० पौष सुदि १५ प्रभाचंद्रजी गृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष १२ पट्ट वर्ष ७४ मास ११ दिवस १५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्ष ९८ मास ११ दिवस २३ प्रभाचंद्रजीके आचार्य गुजरातमै छो सो बैठे एकै श्रावक प्रतिष्ठानै प्रभाचंद्रजीनै बुलाया सो वै नाया तदि आचार्यनै सूरिमंत्र दे भट्टारककरि प्रतिष्ठा कराई तदि भ. पद्मनंदिजी हुवा पापाणकी सरस्वती सुठै बुलाई । जाति ब्राह्मण पट्ट अजमेर ॥

(व. १०)

लेखांक २३४ - गुर्वावली

पट्टे श्रीरत्नकीर्तिरेनुपमतपसः पूज्यपादीयशास्त्र-
व्याख्याविख्यातकीर्तिर्गुणगणनिधिपः सत्क्रियाचारुचंचुः ।
श्रीमानानन्दधाम प्रतिबुधनुतमानमानसंदायिवाद्यो
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितः श्रीप्रभाचंद्रदेवः ॥ २७

[भा. १ कि. ४ पृ. ५३]

लेखांक २३५ - (आराधना पंजिका)

संवत् १४१६ वर्षे चैत्र सुदि पंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट-
माणिक्यमरीचिर्पिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्य श्रीपेरोजसाहेः सकल-
साम्राज्यधुरीविभ्राणस्य समये श्रीदिल्ल्यां श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये सरस्वती-
गच्छे बलात्कारगणे भ. श्रीरत्नकीर्तिदेवपट्टोदयाद्रितरुणतरणित्वसुर्वीकुर्वाण
भ. श्रीप्रभाचंद्रदेव तत्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम इत्याराधनापंजिकाया ग्रन्थ
आत्मपठनार्थं लिखापितं ॥

[पूना, अ. १ पृ. २१३]

लेखांक २३६ -

सिरि पहचंडु महागणि पावणु बहुसीसेहि सहिउ य विरावणु ।

...पट्टणे खंभायचे धारण्यरि देवगिरि ।

मिच्छामय विहुणुं गणि पत्तउ जोइणिपुरि ॥

तहि भव्हहि सुमदोच्छउ विहियउ सिरिरयणकित्तिपट्टे णिहियउ ।

महमदसाहिमणु रंजियत्त विज्जहि वाइयमणु भंजियत्त ॥

(ब्राह्मणलिचरित of धनपाल, अ. ७ पृ. ८३)

लेखांक २३७ - पट्टावली

पद्मनंदी

संवत् १३८५ पोस सुदि ७ पद्मनंदीजी गृहस्थ वर्ष १५ मास ७
दीक्षा वर्ष १३ मास ५ पट्ट वर्ष ६५ दिवस १८ अंतर दिवस १० सर्व वर्ष
१९ दिवस २८ जाति ब्राह्मण पट्ट दिह्ठी ॥

[व. १०]

लेखांक २३८ - गुर्वावली

श्रीमत्प्रभाचंद्रमुनीन्द्रपट्टे शश्वत्प्रतिष्ठः प्रतिभागरिष्ठः ।

विशुद्धसिद्धान्तरहस्यरत्न-रत्नाकरो नंदस्तु पद्मनंदी ॥ २८

(भा. १ कि. ४ पृ. ५३)

लेखांक २३९ - आदिनाथ मूर्ति

ॐ संवत् १४५० वर्षे वैशाख सुदी १२ गुरौ श्रीचाहुवानवंशकुशेशय-
मार्तण्डसारवै विक्रमन्य श्रीमन् सरूप भूपग्वान्वय झुंडदेवात्मजस्य भूवज-
शक्रस्य श्रीसुवरनृपतेः राज्ये वर्तमान श्रीमूलसंघे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेव तत्पदे
श्रीपद्मनंदिदेव तद्रूपदेशे गोलाराढान्वये.....॥

(भा. प्र. पृ. ८)

लेखांक २४० - भावनापद्धति

श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभुवाक्यरश्मिविकाशित्तःकुमुदप्रमोदात् ।

श्रीभावनापद्धतिमात्मशुद्धयै श्रीपद्मनंदी रचयांचकार ॥ ३४

[अ. ११ पृ. २५९]

लेखांक २४१ - जीरापल्ली-पार्श्वनाथ स्तोत्र

श्रीमत्प्रभेन्दुचरणाम्बुजयुग्मभृंगध्वारित्रनिर्मलमतिर्मुनिपद्मनंदी ।

पार्श्वप्रभोर्विनयनिर्भरचित्तवृत्तिर्भक्त्या स्तवं रचितवान् मुनिपद्मनंदी ॥१०

[अ. ९ पृ. २५०]

बलात्कार गण - उत्तर शाखा

बलात्कार गण की उत्तर भारत की पीठों की पट्टावलियोंमें वसन्त-कीर्ति पहले ऐतिहासिक भट्टारक प्रतीत होते हैं।^{३२} पट्टावलियों के अनुसार ये संवत् १२६४ की माघ शु. ५ को पट्टारूढ हुए [ले. २२३] तथा १ वर्ष ४ मास पट्ट पर रहे। इन्हें वनवासी और शेर द्वारा नमस्कृत कहा गया है [ले. २२४]। श्रुतसागर सूरि के कथनानुसार ये ही मुनियोंके बल्लधारणके प्रवर्तक थे। यह प्रथा इन ने मण्डपदुर्ग^{३३}में आरम्भ की (ले. २२५)। इनकी जाति वधेरवाल और निवासस्थान अजमेर कहा गया है (ले. २२३)। इनका विजौलियाके शिलालेखमें भी उल्लेख हुआ है (ले. २४४)।

वसन्तकीर्ति के बाद विशालकीर्ति^{३४} और उन के बाद शुभकीर्ति पट्टाधीश हुए [ले. २२६-२७] शुभकीर्ति एकान्तर उपवास आदि कठोर

३२ इनके पहले क्रमगः गुप्तिगुप्त, माघनन्दि, बिनचन्द्र, पद्मनन्दि कुन्दकुन्द, उमास्वाति, लोहाचार्य, यशःकीर्ति, यशोनन्दि, देवनन्दि, गुणनन्दि, वज्रनन्दि, कुमारनन्दि, लोकचन्द्र, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, मानुनन्दि, जटासिहनन्दि, वसुनन्दि, वीरनन्दि, रत्ननन्दि, माणिक्यनन्दि, मेघचन्द्र, शान्तिकीर्ति, मेरुकीर्ति, महाकीर्ति, विश्वनन्दि, श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दि, देशभूषण, अनन्तकीर्ति, धर्मनन्दि, विद्यानन्दि, रामचन्द्र, रामकीर्ति, अमयचन्द्र, नरचन्द्र, नागचन्द्र, नयनन्दि, हरिश्चन्द्र, महीचन्द्र, माघवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणकीर्ति, गुणचन्द्र, वासवचन्द्र, लोकचन्द्र, श्रुतकीर्ति, मानुचन्द्र, महाचन्द्र, माघचन्द्र, ब्रह्मनन्दि, शिवनन्दि, विश्वचन्द्र, हरिनन्दि, भावनन्दि, सुरकीर्ति, विद्याचन्द्र, सुरचन्द्र, माघनन्दि, ज्ञाननन्दि, गंगनन्दि, सिंहकीर्ति, हेमकीर्ति, चारुनन्दी, नेमिनन्दी, नाथिकीर्ति, नरेन्द्रकीर्ति, श्रीचन्द्र, पद्मकीर्ति, वर्षमान, अकलंक, ललितकीर्ति, केगवचन्द्र, चारुकीर्ति और अमयकीर्ति का उल्लेख हुआ है।

३३ राजस्थानके अन्तर्गत माण्डलगढ़।

३४ पट्टावलियोंमें वसन्तकीर्तिके बाद प्रख्यातकीर्तिका उल्लेख है किन्तु (ले. २४४) में इनका नाम नहीं है। गायद गुर्वावलीके श्लोकके विगेषणको विशेष नाम मान लेनेसे पट्टावलीमें यह गलती हुई है।

तपश्चर्या करते थे। इनने संवत् १३८० में कोई मूर्ति स्थापित की थी (ले. २२८)।^{१५}

शुभकीर्ति के बाद धर्मचन्द्र पट्टाधीश हुए। ये संवत् १२७१ की श्रावण शुद्ध ७ को पट्टारूढ हुए तथा २५ वर्ष पट्ट पर रहे। इनकी जाति डूँवड और निवास स्थान अजमेर था। हमीर राजाने इन्हें प्रणाम किया था (ले. २२९-३०)।^{१६}

इनके बाद रत्नकीर्ति संवत् १२०६ की भाद्रपद कृ. १३ को पट्टारूढ हुए। ये १४ वर्ष पट्ट पर रहे। ये भी डूँवड जाति के और अजमेर निवासी थे (ले. २३१-३२)।

रत्नकीर्तिके पट्ट पर दिल्लीमें संवत् १३१० की पौष शु. १५ को भट्टारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक किया गया। ये ब्राह्मण जातिके थे। खंभात, धारा, देवगिरि आदि स्थानोंमें आपने विहार किया तथा दिल्लीमें महमदशाहको प्रसन्न किया (ले. २३३, २३६)। गुर्जावर्तिके अनुसार आपहीने पूज्यपादकृत्न समाधितन्त्रपर टीका लिखी थी किन्तु वह प्रश्न विवादास्पद है (ले. २३४)।^{१७} प्रभाचन्द्र ७४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे। आप के शिष्य ब्रह्म नाथूरामने दिल्लीमें संवत् १४१६ की माघ शु. ५ को फिरोजशाहके राज्यकालमें आराधनापंजिकाकी एक प्रति लिखी (ले. २३५)।

३५ सम्भवतः संवत्का अंक यहाँ गलत है।

३६ संस्कृत साहित्यमें हमीर-शब्दका प्रयोग नुमन्दान गवा इस सामान्य अर्थमें हुआ है उसीका यह उदाहरण है। चित्तौडके गणा हमीर सन् १३०१ में अधिकारारूढ हुए इस लिए वह उनका उल्लेख नहीं हो सकता।

३७ नासिरुद्दीन महम्मदशाह (सन् १२४६-६६)

३८ इस प्रश्नकी चर्चाके लिए न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावना देखिए। एक मतके अनुसार प्रनेयकन्धमानण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र तथा सनाधितन्त्रटीका, रत्नकरण्डटीका और प्राभृतप्रवटीकाके कर्ता एक ही प्रभाचन्द्र हैं जो ११ वीं सदीमें हुए। दूसरे मतके अनुसार इन टीकाग्रन्थोंके कर्ता ही प्रभुत प्रभाचन्द्र हैं।

३९ फिरोजशाह मुबलक [सन् १३५१-८८]

एक बार एक प्रतिष्ठा महोत्सवके समय व्यवस्थापक गृहस्थ उपस्थित नहीं रहे तब प्रभाचन्द्रने उसी उत्सवको पट्टामिषेकका रूप देकर म. पद्मनन्दिको अपने पद पर स्थापित किया (ले. २३३)। पद्मनन्दि संवत् १३८५ की पौष शु. ७ से ६५ वर्ष तक पट्टाधीश रहे। ये ब्राह्मण जातिके थे (ले. २३७)। भावनापद्धति और जीरापल्ली-पार्श्वनाथ-स्तोत्र ये आपकी कृतियाँ हैं (ले. २४०-४१)।^{१०} आपने संवत् १४५० की वैशाख शु. १२ को एक आदिनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की [ले. २३९]।^{११}

म. पद्मनन्दिके तीन प्रमुख शिष्योद्वारा तीन मठारकपरम्पराएं आरंभ हुईं जिनका आगे अनेक प्रशाखाओंमें विस्तार हुआ। इनमें शुभचन्द्रका वृत्तान्त दिल्ली—जयपुर शाखामे, सकलकीर्तिका वृत्तान्त ईडर शाखामें तथा देवेन्द्रकीर्तिका वृत्तान्त सूरत शाखामे देखना चाहिए। इनके अतिरिक्त मदनदेव (ले. २४५), नयनन्दि (ले. २५१), तथा मदनकीर्ति (ले. २५५) ये पद्मनन्दिके अन्य शिष्योके उल्लेख मिले हैं। इनमें मदनदेव और मदनकीर्ति सम्भवतः एक ही है।

४० पद्मनन्दीकी एक और कृति वर्धमानचरित है। आपके शिष्य हरिचन्द्रने मछिनाथ काव्य लिखा है। [अनेकान्त वर्ष १२, पृष्ठ २९५]

४१ इस प्रतिष्ठाके समयके शासकका नाम मूलमें बहुत ही अशुद्ध छपा है इस लिए उसका इतिहासमें निर्देश नहीं पाया गया।

बलात्कार गण - उत्तर शाखा - काल पट

- १ वसन्तकीर्ति [संवत् १२६४]
 |
 २ विशालकीर्ति [संवत् १२६६]
 |
 ३ शुभकीर्ति
 |
 ४ धर्मचन्द्र [सं. १२७१-१२९६]
 |
 ५ रत्नकीर्ति [सं. १२९६-१३१०]
 |
 ६ प्रभाचन्द्र [सं. १३१०-१३८४]
 |
 ७ पद्मनन्दी [सं. १३८५-१४५०]
 |
 ८ शुभचन्द्र ९ सकलकीर्ति १० देवेन्द्रकीर्ति
 [दिछी-जयपुर [ईडर शाखा] [सुरत
 शाखा] शाखा]

६. बलात्कार गण - दिल्ली-जयपुर शाखा

लेखांक २४२ - शारदास्तवन

शुभचंद्र

श्रीपद्मनंदींद्रमुनींद्रपट्टे शुभोपदेशी शुभचंद्रदेवः ।

विदां विनोदाय विशारदायाः श्रीशारदायाः स्तवनं चकार ॥ ९

[अ. १२ पृ. ३०३]

लेखांक २४३ - शिलालेख

...श्रीमत्प्रमेन्दुपट्टेस्मिन् पद्मनंदी यतीश्वरः ।

तत्पट्टांबुधिसेवीव शुभचंद्रो विराजते ॥

...शिष्योयं शुभचंद्रस्य हेमकीर्तिर्महान् सुधीः ।

येन वाक्यामृतेनापि पोषिता भव्यपादपाः ॥

...विशुद्धा श्रीहेमकीर्तियतिनः सुसिद्धः ।

आस्तां च तावज्जगतीतलेस्मिन् यावत्स्थिरौ चंद्रदिवाकरौ च ॥

संवत् १४६५ वर्षे फाल्गुण सुदि २ बुधौ ॥

विजौलिया [अ. ११, पृ. ३६६]

लेखांक २४४ - निषीदिका लेख

श्रीबलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीमहि(नंदि) संघे कुंदकुंदाचार्यान्वये
भ. श्रीवसंतकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीविशालकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदमन(?)
कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीधर्मचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीरत्नकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ.
श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः ॥

...पद्मनंदिसुनेः पट्टे शुभचंद्रो यतीश्वरः ।

तर्कादिकविद्यासु (पद)धारोस्ति सांप्रतम् ॥

...आर्या वाई लोकसिरि विनयसिरि तस्याः शिक्षणी वाई चारित्रसिरि वाई
चारित्रकी शिक्षणी वाई आगमसिरि ...तस्या इयं निषेधिका आचंद्रतारका-
क्षयं संवत् १४८३ वर्षे फाल्गुन सुदि ३ गुरौ ॥

[उपर्युक्त पृ. ३६५]

लेखांक २४५ - (प्रवचनसार)

अथ संवत्सरे श्रीविक्रमादित्यगताब्दाः संवत् १४९७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शनिवासरे श्रीदोढा महादुर्यो श्रीमूलसंधे सरस्वतीगच्छे भ. पद्मनंदिदेवा तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवा गुरुभ्राता श्रीमदनदेवास्तत्सिष्य ब्रह्म नरसिंह तत् पुस्तकात् मया सुंदरलालेन लिपिकृता इंदौरमध्ये स्वपठनार्थः संवत् १९३० ॥

(रायचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई, १९३५, प्रगति)

लेखांक २४६ - पट्टावली

संवत् १४५० माह सुदि ५ भ. शुभचंद्रजी गृहस्थ वर्षे १६ दिक्षा वर्षे २४ पट्ट वर्षे ५६ मास ३ दिवस ४ अंतर दिवस ११ सर्वे वर्षे ९६ मास ३ दिवस २५ ब्राह्मण जाति पट्ट दिक्षी ॥

(व. १०)

लेखांक २४७ - सिद्धांतसार

जिनचंद्र

पवयणपमाणलक्षणलंडालंकाररहियहियण ।
जिणइंदेण पवत्तं इणमागमभत्तिजुत्तेण ॥ ७८

(माणिकचंद्र ग्रथमाला, बम्बई)

लेखांक २४८ - पट्टावली

संवत् १५०७ जेष्ठ वदि ५ भ. जिनचंद्रजी गृहस्थ वर्षे १२ दिक्षा वर्षे १५ पट्ट वर्षे ६४ मास ८ दिवस १७ अंतर दिवस १० सर्वे वर्षे ९१ मास ८ दिवस २७ बघेरवाल जाति पट्ट दिक्षी ॥

[व. १०],

लेखांक २४९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १५०२ वर्षे वैसाख सुदी ३ श्रीमूलसंधे भ. श्रीजिनचंद्र बाळ-
लिया गोत्रे साहु प्रमसी तलुत्र राजदेव निल्ले प्रणमंति ॥

(मा. प्र. पृ. १३)

लेखांक २५० - शांतिनाथ मूर्ति

सं. १५०९ वर्षे चैत्र सुदी १३ रविवासरे श्रीमूलसंघे भ. पद्मनंदि-
देवाः तत्पट्टे श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे श्रीजिनचंद्रदेवाः श्रीघौषे ग्राम स्थाने
महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्रदेव राज्ये प्रवर्तमाने यदुवंशे लंबकंचुकान्वये
साधु श्रीवर्द्धर्ण तत्पुत्र असौ.....॥

(उपर्युक्त)

लेखांक २५१ - [नेमिनाथचरित]

संवत् १५१२ आषाढ वदि ११ वर्षे शाका १३७७ प्रवर्तमाने फा
वसंतऋतौ पारवानुमासं शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ सोमदिने श्रीघोषा वेलाकूले
श्रीनेमिसुर चरिमइ लिखितं । श्रीमूलसंघे...भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ.
शुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. जिनचंद्रदेवाः तत्र भ. पद्मनंदिदेवाः तत्शिष्य
नयणादिदेव तस्मै श्रीहूँवहवंश ज्ञातीय गोत्र खरीयान श्रेष्ठि गजभाई.....
श्रीजिनदास धनदत्तेन श्रीनेमिनाथचरितं लिखापितं श्रीनयनंदिमुनये दत्तं ॥

[अ. ११ पृ. ४१४]

लेखांक २५२ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १५१५ वर्षे माघ सुदी ५ भौमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे भ.
जिनचंद्रदेव गोलाराढान्वये सा. अभू भार्या हृषो.....॥

(भा. प्र. पृ. ८)

लेखांक २५३ - [मूलाचार]

वर्षे षडेकपंचैकपूरणे विक्रमे नतः ।
शुद्धे माद्रपदे मासे नवम्यां गुरुवासरे ॥
श्रीमद्वट्टेरकाचार्यकृतसूत्रस्य सद्विधेः ।
मूलाचारस्य सद्बृत्तेर्दातुर्नामावलीं ब्रुवे ॥
...विद्यते तत्समीपस्था श्रीमती योगिनीपुरी ।
यां पाति पातिसाहिश्रीर्वहलोलामिधो नृपः ॥
तस्याः प्रत्यगूदिशि ख्यातं श्रीहिसारपिरोजकं ।

- नगरं नगरंभादिवह्नीराजिविराजितं ॥
 तत्र राज्यं करोत्येष श्रीमान् कुतवखानकः ।
 तथा हैवतिखानश्च दाता भोक्ता प्रतापवान् ॥
 अथ श्रीमूलसंघेस्मिन् नंदिसंघेनघेजनि ।
 वलात्काराणस्तत्र गच्छः सारस्वतस्त्वभूत् ॥
 तत्राजनि प्रभाचंद्रः सूरिचंद्रो जितांगजः ।
 दर्शनज्ञानचारित्रतपोवीर्यसमन्वितः ॥
 श्रीमान् वभूव मार्तण्डस्त्यद्रोदयभूधरे ।
 पद्मनंदी बुधानंदी तमश्छेदी मुनिप्रसुः ॥
 तत्पट्टांबुधिसचंद्रः शुभचंद्रः सतां वरः ।
 पंचाक्षवन्दवाग्निः कपायक्षमाधराग्निः ॥
 तदीयपट्टांबरमानुमाली क्षमादिनानागुणरत्नशाली ।
 भट्टारकश्रीजिनचंद्रनामा सैद्धांतिकानां भुवि योस्ति सीमा ॥
- तच्छिष्या बहुशास्त्रज्ञा हेयादेयविचारकाः ।
 शयसंयमसंपूर्णा मूलोत्तरगुणान्विताः ॥
 जयकीर्तिश्चारुकीर्तिर्जयनंदी मुनीश्वरः ।
 भीमसेनादयोन्ये च दशधर्मधरा वराः ॥
- श्रीमान् पंडितदेवोस्ति दाक्षिणात्यो द्विजोत्तमः ।
 यो योग्यः सूरिमंत्राय वैयाकरणतार्किकः ॥
 अग्रोतवंशजः साधुर्लवदेवाभिधानकः ।
 तत्सुतो धरणः संज्ञा तद्गार्था भीषुही मता ॥ २५
 तत्पुत्रो जिनचंद्रस्य पादपंकजपट्पट्टः ।
 मीहाख्यः पंडितस्त्वस्ति श्रावकव्रतभावकः ॥ २६
 तदन्वयेथ खंडेलवंशे श्रेष्ठीयगोत्रके ।
 पद्मावत्याः समाज्ञाये यक्ष्याः पार्श्वजिनेशिनः ॥ २७
 साधुः श्रीमोहणाख्योभूत्संघभारधुरंधरः ।
- एतैः श्रीसाधुपार्श्वस्य चोपाख्यस्य च कायजैः ।
 वसद्विर्द्भृङ्गस्थाने रम्ये चैत्यालयैर्वरैः ॥ ५०
 चाहमानकुलोत्पन्ने राज्यं कुर्वति भूपतौ ।
 श्रीमत्समसखानाख्ये न्यायान्यायविचारके ॥ ५१

...कारितं श्रुतपंचम्यां महदुद्यापनं च तैः ।

श्रीमद्देशत्रताधारिनरसिंहोपदेशतः ॥ ५३

...एतच्छास्त्रं लेखयित्वा हिसारा-
दानाय स्वोपार्जितेन स्वराया ।

संचेशश्रीपद्मसिंहेन भक्त्या
सिंहान्ताय श्रीनराय प्रदत्तं ॥ ६०

...सूरिश्रीजिनचंद्राहिसरणाधीनचेतसा ।

प्रशस्तिर्विहिता चासौ भीहाख्येन सुधीमता ॥ ६९

[माणिकचंद्र ग्रंथमाला, २३, बम्बई १९२२]

लेखांक २५४ - (तिलोयपण्णची)

स्वस्तिश्रीसंवत् १५१७ वर्षे मार्ग सुदि ५ भौमवारे श्रीमूलसंघे...भ.
श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः मुनिश्रीमदनकीर्ति तच्छिष्य
ब्रह्म नरसिंहकस्य ।...श्रीशुभंजुणपुरे लिखितमेतत्पुस्तकम् ॥

(जीवराज ग्रंथमाला, शोलापुर १९५१)

लेखांक २५५ - [पटमचरिय]

संवत् १५२१ वर्षे ज्येष्ठमासे सुदि १० बुधवारे श्रीगोपाचलदुर्गे
श्रीमूलसंघे...भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. पद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ.
श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. जिनचंद्रदेवाः । तत्र श्रीपद्मनंदिशिष्यश्रीमदन-
कीर्तिदेवाः तच्छिष्य श्रीनेत्रनंदिदेवाः तन्निमित्ते खंडेलवाल लुहाडिया गोत्रे
संगही धामा भार्या धनश्री...॥

(अ. ४ पृ. ५४०)

लेखांक २५६ - (अध्यात्मतरंगिणी टीका)

त्रयस्त्रिंशाधिके वर्षे शतपंचदशप्रमे ।
शुक्लपक्षेऽश्विने मासे द्वितीयायां सुवासरे ।
श्रीहिसाराभिधे रम्ये नगरे ऊनसंकुले ।
राज्ये कुतुबखानस्य वर्तमानेथ पावने ॥

अथ श्रीमूलसंघेस्मिन्ननघे मुनिकुंजरः ।
 सूरिः श्रीशुभचंद्राख्यः पद्मनंदिपदस्थितः ॥
 तत्पट्टे जिनचंद्रोभूत् स्याद्वादांबुधिचंद्रमाः ।
 तदंतेवासिमेहाख्यः पंडितो गुणमंडितः ॥
 तदान्नाथे सदाचारक्षेत्रपालीयगोत्रके ।
 सुनामपुरवास्तव्ये खंडेलान्वयकेजनि ॥
 ...एतन्मध्ये धनश्रीर्यां श्राविका परमा तथा ।
 लिखापितमिदं शास्त्रं निजाज्ञानतमोहतौ ॥
 पूजयित्वा पुनर्भक्त्या पठनाय समर्पितं ।
 मेहाख्याय सुशास्त्रज्ञपंडिताय सुमेधसे ॥

(झालरापाटन, अ. १२ पृ. ३१)

लेखांक २५७ - महावीर मूर्ति

सं. १५३७ वर्ष वैसाख सुदि १० गुरौ श्रीमूलसंघे भ. जिनचंद्रान्नाथे
 मंडलाचार्यविद्यानंदी तदुपदेशं गोलारारान्वये पियू पुत्र.....॥

(भा. प्र. पृ. ५)

लेखांक २५८ - [नीतिवाक्यामृत]

अथ संघत्सरेस्मिन् विक्रमादित्यराज्यात् संवत् १५४१ वर्षे कार्तिक
 सुदि ५ शुभदिने श्रीचंद्रप्रभचैत्यालयविराजमाने श्रीहिसारपेरोजाभिधानपत्तने
 सुलतानबहलोलसाहिराज्यप्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे.....भ. जिनचंद्रदेवाः ।
 तच्छिष्योष्ट्राविंशतिमूलगुणरत्नरत्नाकरमंडलाचार्यमुनिश्रीरत्नकीर्तिः । तस्य
 शिष्यो निष्प्रावरणमूर्तिर्मुनिश्रीविमलकीर्तिः । भ. श्रीजिनचंद्रांतेवासि पं.
 श्रीमेहाख्यः । एतदान्नाथे क्षेत्रपालीयगोत्रे खंडेलवालान्वये सुनामपुरवास्तव्ये
 ...एतेषां मध्ये या साध्वी कमलश्रीस्तया निजपुत्रसं. भीषावच्छूकयोर्न्यायो-
 पार्जितविचेनेदं सोमनीतिटीकापुस्तकं लिखापितं । पुनः पंडितमेहाख्याय
 पठनार्थं भावनया प्रदत्तं निजज्ञानावरणकर्मक्षयाय ॥

(माणिकचंद ग्रंथमाला, बम्बई १९२२)

लेखांक २५९ - धर्मसंग्रह

सूरिश्रीजिनचंद्रकस्य समभूट्टनादिकीर्तिर्मुनिः
शिष्यस्तत्त्वविचारसारमतिमान् सद्ब्रह्मचर्यान्वितः ।

- ...तच्छिष्यो विमलादिकीर्तिरभवभिर्ग्रथचूडामणिः
यो नानातपसा जितेंद्रियगणः क्रोधेभङ्गुमे शृणिः ।
- ...दीक्षां श्रौतमुनीं वभार नितरां सत्सुल्लकः साधकः
आर्यो दीपद् आख्ययात्र भुवनेसौ दीप्यतां दीपवत् ॥ १६
छात्रोभूजैनचंद्रो विमलतरमतिः श्रावकाचारमव्यः
स्वप्रोतानूकजातोद्धरणतनुरुहो भीपुहीसावसूतः ।
मीहाख्यः पंडितो वै जिनमतनयनः श्रीहिसारे पुरेस्मिन्
ग्रंथः प्रारंभि तेन श्रीमहति वसता नूनमेष प्रसिद्धे ॥ १७
सपादलक्षे विषयेतिसुंदरे श्रिया पुरं नागपुरं समस्ति तत् ।
पेरोजखानो नृपतिः प्रपाति यन्न्यायेन शौर्येण रिपूभिहन्ति च ॥१८

... मेधाविनामा निवसन्नहं बुधः
पूर्वा व्यथां ग्रंथमिमं तु कार्तिके ।
चंद्राग्निवाणैकमितेत्र वत्सरे
कृष्णे त्रयोदशहनि स्वभक्तितः ॥ २१

(प्रकाशक- उदयलाल काशलीवाल, बनारस १९१०)

लेखांक २६० - ? मूर्ति

संवत् १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनौ भ. श्रीजिनचंद्र रा. भ. श्रीज्ञान-
भूषण सा. ऊहड॥

(भा. ७ पृ. १६)

लेखांक २६१ - दर्शन यंत्र

सं. १५४३ मगसर वदि १३ गुरुवार श्रीमूलसंघे श्रीकुंदकुंदांश्वये भ.
श्रीपद्मनांदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः
तद् धाम्नाये सेतवालांश्वये नवग्रामपुरवास्तव्यएतेषां मध्ये चौधरी
सुरजवने श्रीसम्यग्दर्शन यंत्र करापितं प्रतिष्ठापितं ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८) .

लेखांक २६२ - ऋषभ मूर्ति

संवत् १५४५ वर्षे वैशाख सुदि १० चंद्रदिने श्रीमूलसंघे.....भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः बरहिया कुलोद्भव साहु लखे भार्या कसुमा...तेन अर्जुनेनेदं आदीश्वरर्षिबं स्वपूजनार्थं करापितं ॥

(भा. प्र. पृ. १)

लेखांक २६३ - पार्श्वमूर्ति

सं. १५४८ वैशाख सुदि ३ श्रीमूलसंघे भ. जिनचंद्रदेव साहु जीवराज पापहीवाल नित्यं प्रणमंति सौख्यं शहर मुडासा श्रीराजा स्योसिंघ रावल ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०६)

लेखांक २६४ - [नागकुमारचरित]

संवत् १५५८ वर्षे श्रावण सुदि १२ भौमे श्रीगोपाचलगहदुर्गे तोमर-वंशे...श्रीमानसिंघदेवाः तद्राज्यप्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे...भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तदाम्नाये जैसवालान्वये...एतेषां मध्ये द्योमा इंद नागकुमारपंचमी लिखापितं ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं ॥

[प्र. पृ. १४, कारजा जैन सीरीज १९३३]

लेखांक २६५ - पट्टावली

प्रभाचंद्र

संवत् १५७१ फाल्गुन वदि २ भ. प्रभाचंद्रजी गृहस्थ वर्षे १५ दिक्षा वर्षे ३५ पट्ट वर्षे ९ मास ४ दिवस २५ अंतर दिवस ८ सर्व वर्षे ५९ मास ५ दिवस २ एकै वार गळ द्योय हुया चीतोड अर नागोरका सं. १५७२ का अष्वाल ॥

(व. १०)

लेखांक २६६ - दशलक्षण यंत्र

सं. १५७३ फाल्गुन वदि ३ श्रीमूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. जिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तदाम्नाये खंडेलवालान्वये ठोल्या गोत्रे

पं. मूना भार्या सामू' नित्यं प्रणमन्ति ।

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०८)

लेखांक २६७ - (नागकुमारचरित)

संवत् १६०३ वर्षे शाके १४६७ प्रवर्तमाने महाभांगल्य आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वितीयातिथौ उत्तराषाढनक्षत्रे तैत्तलकरणे श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये ..भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत् शिष्य मंडलाचार्य श्रीधर्मचंद्रदेवास्तदान्नाये तक्षकपुरवास्तव्ये सोलंकीराजाधिराज श्रीरामचंद्रराज्ये श्रीआदिनाथचैत्यालये खंडेलवालान्वये ..सा. ठाकुर भार्या दाढिमदे तथा इदं शास्त्रं पंचमीव्रतं उद्योतनार्थं लिखापितं धर्मचंद्राय दत्तं ॥

[प्र. पृ. १५, कारंजा जैन सीरीज, १९३३]

लेखांक २६८ - [यज्ञोधर चरित]

संवत् १६१५ वर्षे भाद्रव सुदि ५ वी सप्त (?) वारे पुष्यनक्षत्रे तोडागढमहादुर्गे महाराजाधिराजराजश्रीकल्याणराज्यप्रवर्तमाने श्रीमूलसंघे ..भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्र (भाचंद्र)

(प्र. पृ. १५, कारंजा जैन सीरीज १९३१)

लेखांक २६९ - [मूलाचार]

नरेंद्रकीर्ति

श्रीमूलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीचंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीमन्नरेंद्रकीर्तिजी तत् भ्रात पं. राजश्रीतेजपाल तस्य वर्णी चोखचंद्रेण आत्मपठनीयनिमित्तं लिखापितं । श्रीसमरपुरमध्ये । श्रीरस्तु । श्रीसंवत् १७३० मिति मार्गसिर सित त्रयोदस्यां लिपीकृतं ॥

(का. ५२९)

लेखांक २७०- पार्श्वनाथ मूर्ति

जगत्कीर्ति

सं. १७४६ माह सुदी श्रीमूलसंघे भ. श्रीजगत्कीर्ति संघई श्रीकृष्णदास..... ॥

(भा. प्र. पृ. ६)

लेखांक २७१ - हरिवंशपुराण

देवेंद्रकीर्ति

- तहां श्रीजिनदास जू ग्रंथ रच्यो इह सार ।
 सो अनुसार खुस्याल ले क्ह्यौ भविक मुखकार ॥
 देश हुंढाहढ जानौ सार तामे धर्मतनो विस्तार ।
 विसनसिंह सुत जैसिहराय राज करै सचको मुखदाय ॥
 ...जामै पुर शांगावति जानि धर्म उपावनकौ घर थान ।
 ...संघ मूलसंघ जानि गछ सारदा बखानि गण जु
 बलात्कार जाणौ मन लायके ॥
 कुंदकुंद मुनीकी आमनाय मांहि भये देवइंद्रकीरत
 सुपट्टसार पायके ।
 पंडित मु भए तहां नाम लछिमीसुदास चतुर विवेकी
 श्रुतज्ञानकौ उपायके ॥
 तिनै थकी मै भी कछ्छ् थल्पसो सुब्रान लयो फेरि मै
 बस्यौ जिहानावाद मध्य आयकै ॥
 ...महमदशा पातिशाह राज करि है सुचकथ्यौ ।
 नीतिबंत बलवान न्याय विन ले न अरथ्यौ ॥
 ...संवत सतरासै अरु असी सुदि वैसाख तीज घर लसी ।
 सुक्रवार अतिही शुभ जोग सार नखत्तरकौ संजोग ॥

(भा. ६ पृ. १२७)

लेखांक २७२ - ? मूर्ति

संबत्सरे बहिवसुमूर्तीदुमिते १७८३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अष्टमीतिथ्यौ
 बुधवारै श्रवणनक्षत्रे शंभखोहनगरे अंबावती सामी कुछाहागोत्रीय महा-
 राजाधिराज श्रीजयसिंघजित्तल्लामंत कुंभाणीगोत्रीय राजेश्री चूहडसिंहजी
 राज्य प्रयर्तमाने श्रीमूलसंघे नंघान्नाये...भ. श्रीजगत्कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ.
 श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तदाम्नाये खंडेलवालान्वये लुहाड्या गोत्रे साहश्री
 रामदासजी तद्धार्या रायवदे... ॥

[भा. ७ पृ. १३]

लेखांक २७३ - षोडशकारण यंत्र

सं. १७८३ वर्षे वैशाख वदि ८ बुधवार श्रीमूलसंघे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति-
स्तदान्नाये यासपाह कर्षटे लुहाड्या गोत्रे संघही श्रीहृदयराम विवप्रतिष्ठा
पं. भामनि ॥

(मा. प्र. पृ. १२)

लेखांक २७४ - [षट्कर्मोपदेशरत्नमाला]

महेंद्रकीर्ति

संवत् १७९७ वर्षे श्रावण सुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसंघे.....भ.
श्रीदेवेन्द्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमहेंद्रकीर्तिस्तदान्नाये सवाईजयपुरमध्ये
श्रीपार्श्वनाथचैत्यालये विलालागोत्रे साह श्रीहरराम तस्य भार्या हीरादे...
एतेषां मध्ये साहजीश्रीगोपीरामजी इदं पुस्तकं षट्कर्मोपदेशरत्नमालानामकं
आचार्यश्रीक्षेमकीर्तिजी तच्छिष्य पंडित गोवर्धनदासाय लिखापि घटापितं
ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं ॥

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५४२)

लेखांक २७५ - १ मूर्ति

सुखेंद्रकीर्ति

संवत् १८६१ वर्षे वैशाखशुद्धपंचम्यां श्रीसवाईजयसिंहनगरे भ.
श्रीसुखेंद्रकीर्तिगुरुवर्युपदेशात् छावडा गोत्रे संग(ही) दी(वान) रायचंद्रेण
प्रतिष्ठा कारिता ॥

(जयपुर, अ. १२ पृ. ३८)

लेखांक २७६ - बृहत् कथाकोष

संवत् १८६८ मासोत्तममासे जेठ मास शुद्ध पक्ष चतुर्थ्यां तिथौ
सूर्यवारे श्रीमूलसंघे नंद्यान्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्या-
न्वये भ. श्रीमहेंद्रकीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमेंद्रकीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीसुरेद्र-
कीर्तिजी तत्पट्टे भ. श्रीसुखेंद्रकीर्तिजी तदान्नाये सवाईजयनगरे श्रीमन्नेमिनाथ-
चैत्यालये गोधाख्यमंदिरे...बखतरामकृष्णचंद्राभ्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं
बृहदाराधनाकथाकोशाख्यं ग्रंथं स्वशयेन लिखितं ॥

(प्रस्तावना पृ. १, विधी जैन ग्रंथमाला, १९४३)

बलात्कार गण-दिल्ली-जयपुर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. शुभचन्द्र से होता है। इन के गुरु पद्मनन्दी थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा के प्रकरण में आ चुका है। शुभचन्द्र का पट्टाभिषेक संवत् १४५० की माघ शु. ५ को हुआ और वे ५६ वर्ष पट्ट पर रहे। वे ब्राह्मण जाति के थे [ले. २४६]। शारदा स्तवन यह उन की एक कृति है [ले. २४२]। उन के शिष्य हेमकीर्ति की प्रशंसा संवत् १४६५ के बिजौलिया लेख में की गई है। संवत् १४८३ की फाल्गुन शु. ३ को उन की परम्परा की आर्यिका आगमश्री की समाधि बनाई गई [ले. २४३, २४४]। संवत् १४९७ की ज्येष्ठ शु. १३ को उन के गुरुबन्धु मदनदेव के शिष्य ब्रह्म नरसिंह ने प्रवचनसार की एक प्रति लिखी थी [ले. २४५]।

शुभचन्द्र के बाद जिनचन्द्र महारक हुए। संवत् १५०७ की ज्येष्ठ कृ. ५ को आप का पट्टाभिषेक हुआ तथा आप ६४ वर्ष पट्टाधीश रहे। आप बघेरवाल जाति के थे [ले. २४८]। सिद्धान्तसार यह आप की एक कृति है [ले. २४७]। प्रतापचन्द्र के राज्य काल में^{४२} संवत् १५०९ की चैत्र शु. १३ को धौपे ग्राम में आप ने एक शान्तिनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. २५०]। आप की आम्नाय में संवत् १५१२ की आषाढ कृ. ११ को नेमिनाथ चरित की एक प्रति लिखाई गई जो जिनदास ने घोषा बंदरगाह में नयनन्दि मुनि को अर्पित की [ले. २५१]। संवत् १५१५ की माघ शु. ५ को आप ने एक पार्ष्णनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. २५२]। आप की आम्नाय में संवत् १५१७ की मार्गशीर्ष शु. ५ को झंझुणपुर में तिलोयपण्णत्ती की एक प्रति लिखाई गई [ले. २५४]। इसी प्रकार संवत् १५२१ की ज्येष्ठ शु. ११ को ग्वालियर में पञ्चमचरिय की प्रति लिखाई गई जो नेत्रनन्दि मुनि को अर्पण की गई [ले. २५५]। संवत् १५३७ वैशाख शु. १० को जिनचन्द्र की आम्नाय में विद्यानन्दि ने एक महावीर

^{४२} प्रतापचन्द्र का राज्य काल ज्ञात नहीं हो सका। इस समय के करीब श्राव्य विभागा में रुद्रप्रताप नामक राजा का उल्लेख मिलता है।

मूर्ति स्थापित की [ले. २५७] ।^{१३} इसी प्रकार संवत् १५४२ की ज्येष्ठ शु. ८ को आप की आम्नाय मे म. ज्ञानभूषण ने एक मूर्ति स्थापित की [ले. २६०] ।^{१४} संवत् १५४३ की मार्गशीर्ष कृ. १३ को जिनचन्द्र ने सम्यग्दर्शन यन्त्र स्थापित किया तथा संवत् १५४५ की वैशाख शु. १० को ऋषभदेव की एक मूर्ति स्थापित की [ले. २६१-६२] । मुडासा शहर मे सेठ जीवराज पापडीवाल ने संवत् १५४८ की वैशाख शु. ३ को म. जिनचन्द्र के द्वारा कई मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई [ले. २६३] ।^{१५} संवत् १५५८ की श्रावण शु. १२ को आप की आम्नाय में ग्वालियर मे मानसिंह तोमर के राज्यकाल में नागकुमारचरित की एक प्रति लिखी गई [ले. २६४] ।

म. जिनचन्द्र के शिष्यो मे पण्डित मीहा या मेधावी प्रमुख थे । ये अग्रवाल जाति के सेठ उद्धरण और उन की पत्नी भीषुही के पुत्र थे । संवत् १५१६ की भाद्रपद शु. ९ को दिल्ली में बहलोलशाह और हिसार में कुतुबखॉ का राज्य था तब झंझुणपुर मे साह पार्श्व के पुत्रो ने श्रुतपंचमी उद्यापन किया और उस अवसर पर बटुकेर कृत मूलाचार की एक प्रति ब्रह्म नरसिंह को अर्पित की । इस शास्त्रदान की प्रशस्ति पण्डित मेधावी ने लिखी [ले. २५३] । संवत् १५३३ की आश्विन शु. २ को हिसार में खंडेलवाल साध्वी धनश्री ने अध्यात्मतरंगिणी टीका की एक प्रति मेधावी को अर्पित की [ले. २५६] इसी प्रकार संवत् १५४१ को कार्तिक शु. ५ को खंडेलवाल साध्वी कमलश्री ने नीतिवाक्यामृत टीका की एक प्रति आप को अर्पित की

४३ ये विद्यानन्दि सम्भवतः सुरत शाखा के दूत्तरे भट्टारक हैं । किन्तु उन से पृथक् भी हो सकते हैं । इस दगा में [ले. ५२३] में उल्लिखित विद्यानन्दि ये ही हैं ।

४४ ये ज्ञानभूषण ईडर शाखा के म. भुवनकीर्ति के शिष्य हैं ।

४५ ये मूर्तिया अमृतसर से मद्रास तक प्रायः सभी गावों के दिगम्बर जैन मन्दिरों में पाई जाती हैं । सिर्फ नागपुर के जैन मन्दिरों में ही इन को सख्या सौ से अधिक है । यहा यह लेख सिर्फ नमूने के तौर पर लिया गया है । इस प्रतिष्ठा में भानुचन्द्र और गुणमठ इन भट्टारकों के भी उल्लेख मिलते है ।

[ले. २५८]। मेधावी ने संवत् १५४१ की कार्तिक कृ. १३ को नागौर में फिरोजखान के राज्य काल में धर्मसंग्रह श्रावकाचार नामक संस्कृत ग्रन्थ की रचना पूर्ण की [ले. २५९]।

पं. मेधावी की इन प्रशस्तियों से भ. जिनचन्द्र के शिष्य परिवार पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन में रत्नकीर्ति और सिंहकीर्ति इन का वृत्तान्त क्रमशः नागौर तथा अठेर शाखा में संगृहीत किया गया है। इन के अतिरिक्त जयकीर्ति, चारुकीर्ति, जयनन्दी, भीमसेन, दक्षिण के पण्डितदेव, [ले. २५३], त्रिमलकीर्ति [ले. २५८], श्रुतमुनि द्वारा दीक्षित आर्य दीपद [ले. २५९] आदि शिष्यों का उल्लेख मेधावी ने किया है।

भ. जिनचन्द्र के बाद प्रभाचन्द्र पट्ट पर बैठे। संवत् १५७१ की फाल्गुन कृ. २ को उन का अभिषेक हुआ तथा वे ९ वर्ष भट्टारक पद पर रहे। इन के समय मुख्य पट्ट दिल्ली से चित्तौड़ में स्थानान्तरित हुआ तथा संवत् १५७२ से नागौर पट्ट के मंडलाचार्य रत्नकीर्ति मुख्य परम्परा से पृथक् हुए (ले. २६५)। प्रभाचन्द्र ने संवत् १५७३ की फाल्गुन कृ. ३ को एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया (ले. २६६)। संवत् १६०३ की आषाढ कृ. २ को रामचन्द्र सोलंकी के राज्य काल में तक्षकपुर निवासी साह ठाकुर ने नागकुमारचरित की एक प्रति आप के शिष्य धर्मचन्द्र को अर्पित की (ले. २६७)। इसी प्रकार तोडागढ में कल्याणराज के राज्यकाल में संवत् १६१५ की भाद्रपद शु. ५ को आप की आम्नाय में यशोधरचरित की एक प्रति लिखी गई (ले. २६८)।^{१६}

प्रभाचन्द्र के बाद क्रमशः चन्द्रकीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है^{१७}। इन के बाद नरेन्द्रकीर्ति

४६ रामचन्द्र का राज्यकाल सन् १५५५-१५९२ था। कल्याणराज का राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका।

४७ चन्द्रकीर्ति के समय का एक उल्लेख (ले. २८६) मिला है। यह संवत् १६५४ का है।

हुए। इन के आम्नाय मे संवत् १७३० की मार्गशीर्ष शु. १३ को वर्णी चोखचन्द्र ने समरपुर मे मूलाचार की एक प्रति लिखी (ले. २६९)।

नरेन्द्रकीर्ति के पट्टशिष्य सुरेन्द्रकीर्ति संवत् १७२२ की श्रावण शु. ८ को पट्टारूढ हुए।^{१८} इन का कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिला है।

इन के अनन्तर संवत् १७३३ की श्रावण कृ. ५ को भ. जगत्-कीर्ति पट्टाधीश हुए। आपने संवत् १७४६ की माघ मे एक पार्श्वनाथ मूर्ति प्रतिष्ठित की [ले. २७०]।

इन के बाद संवत् १७७० की श्रावण कृ. ५ को भ. देवेन्द्रकीर्ति पट्टाधीश हुए। इन की आम्नाय मे जयसिंह के राज्यकाल मे सांगावत शहर में पण्डित लक्ष्मीदास हुए।^{१९} इन के उपदेश से कवि खुशालचंद ने संवत् १७८० में जहानाबाद में^{२०} महमदशाह के राज्यकाल मे हिन्दी हरिवंश-पुराण की रचना की [ले. २७१]। संवत् १७८३ की वैशाख कृ. ८ को बांसखोह नगर में जयसिंह के राज्यकाल मे देवेन्द्रकीर्ति के द्वारा एक प्रतिष्ठामहोत्सव हुआ [ले. २७२]।

देवेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १७९० की श्रावण कृ. ५ को महेन्द्र-कीर्ति पट्टाधीश हुए। इन की आम्नाय में संवत् १७९७ की श्रावण शु. १४ को साह गोपीराम ने सवाईजयपुर में पट्टकर्मोपदेशरत्नमाला की एक प्रति पंडित गोवर्धनदास को अर्पित की [ले. २७४]।

महेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १८१५ की श्रावण कृ. ५ को क्षेमेन्द्र-कीर्ति पट्टाधीश हुए। उन के बाद संवत् १८२२ की फाल्गुन शु. ४ को सुरेन्द्रकीर्ति का पट्टाभिषेक हुआ। इन के समय भट्टारकपीठ जयपुर में

४८ यहाँ से इस शाखा के भट्टारकों की पट्टाभिषेक तिथियाँ 'बृहद् महावीर कीर्तन' पृ. ५९७ के आधार पर दी गई है।

४९ जयसिंह का राज्यकाल १६६९-१७४३ था।

५० दिल्ली के बादशाह—राज्यकाल १७१९-४८ ई.।

स्थानान्तरित हुआ तथा अतिशय क्षेत्र महावीरजी से इस पीठ का सम्बन्ध स्थापित हुआ ।

सुरेन्द्रकीर्ति के बाद संवत् १८५२ की फाल्गुन शु. ४ को पट्टाधीश हुए । आपने संवत् १८६१ की वैशाख शु. ५ को सवाईजयपुर में कोई मूर्ति स्थापित की [ले. २७५] । इन्हीं के समय संवत् १८६८ की ज्येष्ठ शु. ४ को बृहत् कलाकोष की एक प्रति वहीं लिखी गई (ले. २७६) ।

सुरेन्द्रकीर्ति के बाद क्रमशः संवत् १८८० में नरेन्द्रकीर्ति, संवत् १८८३ में देवेन्द्रकीर्ति, संवत् १९३० में महेन्द्रकीर्ति और संवत् १९७५ में चन्द्रकीर्ति महारक हुए ।

बलस्कार गण-दिल्लीजयपुर शाखा-कालपट

१ पद्मनन्दी

२ शुभचन्द्र (संवत् १४५०-१५०७)

३ जिनचन्द्र (संवत् १५०७-१५७१)

रत्नकीर्ति सिंहकीर्ति
(नागौर शाखा) (अंटर शाखा)

४ प्रसाचन्द्र [संवत् १५७१-८०]

५ चन्द्रकीर्ति [संवत् १६५४]

६ देवेन्द्रकीर्ति

७ नरेन्द्रकीर्ति

८ सुरेन्द्रकीर्ति [संवत् १७२२]

९ जगत्कीर्ति [संवत् १७३३]

१० देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १७७०]

११ महेन्द्रकीर्ति [संवत् १७९०]

१२ क्षेमेन्द्रकीर्ति [संवत् १८१५]

१३ सुरेन्द्रकीर्ति [संवत् १८२२]

१४ सुखेन्द्रकीर्ति [संवत् १८५२]

१५ नरेन्द्रकीर्ति [संवत् १८८०]

१६ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १८८३]

१७ महेन्द्रकीर्ति [संवत् १९३९]

१८ चन्द्रकीर्ति [संवत् १९७५]



७. बलात्कार गण-नागौर शाखा

लेखांक २७७- पट्टावली

रत्नकीर्ति

संवत् १५८१ श्रावण सुदि ५ भ. रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दीक्षा वर्ष ३१ पट्ट वर्ष २१ मास ८ दिवस १३ अंतर दिवस ५ सर्व वर्ष ६१ मास ८ दिवस १८ पट्ट दिखी ॥

(व. १०)

लेखांक २७८ - पट्टावली

शुवनकीर्ति

संवत् १५८६ माह वदि ३ सुवनकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ११ दीक्षा वर्ष २६ पट्ट वर्ष ४ मास ९ दिवस २६ अंतर मास २ दिवस ४ सर्व वर्ष ४२ दिवस २१ जाति छावडा पट्ट अजमेर ॥

(व. १०)

लेखांक २७९ - [अणुव्रत रत्न प्रदीप]

सं. १५९५ वर्षे वइसाख सुदि द्वइज सोमवासरे श्रीमूलसंघे सरस्वती-गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मानंदिदेव तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेव तत्पट्टे भ. श्रीजिणचंद्रदेव मुनि मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति देव तत् सिद्ध मुनि मंडलाचार्य श्रीहेमचंद्रदेव द्वितीय सिद्ध मुनि मंडलाचार्य श्रीसुवनकीर्ति देव तत्सिद्ध मुनि पुण्यकीर्ति मेढता सुमस्थानात् राजश्री मालदे राष्ट्रछड राजे खंडेलवालान्वये पाटणीगोत्रे संघभारधुरंधरान् साह दोदा...इदं साख अणोव्रतरत्नप्रदीपकं लिखावितं कर्मक्षयनिमित्त ॥

(मा. ६ पृ. १५५)

लेखांक २८० - पट्टावली

धर्मकीर्ति

संवत् १५९० चैत्र वदि ७ भ. धर्मकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १३ दीक्षा वर्ष ३१ पट्ट वर्ष १० मास १ दिवस २० अंतर मास १ दिवस १० सर्व वर्ष ५५ मास १ दिवस ४ जाति सेठी पट्ट अजमेर ॥

(व. १०)

लेखांक २८१ - चंद्रप्रभ मूर्ति

सं. १६०१ फाल्गुन सुदि ९ मूलसंघे धर्मकीर्ति आचार्य सा. महान
भार्या भानुमती पुत्र सर्वेन... ॥

(भा. प्र. पृ. ६)

लेखांक २८२ - पट्टावली

विशालकीर्ति

संवत् १६०१ वैशाख सुदि १ विशालकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा
वर्ष ५८ पट्ट वर्ष ९ मास १० दिवस २० अंतर मास १ दिवस १० सर्व वर्ष
७७ दिवस २३ जाति पाटोधी पट्ट जोवनेर ॥

[व. १०]

लेखांक २८३ - पट्टावली

लक्ष्मीचंद्र

संवत् १६११ असौज वदि ४ लक्ष्मीचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ७ दिक्षा वर्ष
३७ पट्ट वर्ष १९ मास ११ दिवस २० अंतर दिवस १० सर्व वर्ष ६४ मास
२ दिवस १ जाति छावढा पट्ट जोवनेर ॥

(व. १०)

लेखांक २८४ - पट्टावली

सहस्रकीर्ति

संवत् १६३१ जेष्ठ सुदि ५ सहस्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ७ दिक्षा वर्ष २५
पट्ट वर्ष १८ मास २ दिवस ८ अंतर मास ९ दिवस २२ सर्व वर्ष ५१ मास
११ दिवस ७ जाति पाटणी पट्ट जोवनेर ॥

(व. १०)

लेखांक २८५ - पट्टावली

नेमिचंद्र

संवत् १६५० श्रावण सुदि १३ नेमिचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा वर्ष
५२ पट्ट वर्ष ११ मास ६ दिवस २२ अंतर मास ५ दिवस ८ सर्व वर्ष ९५
मास १ दिवस २५ जाति ठोल्या पट्ट जोवनेर ॥

(व. १०)

लेखांक २८६ - (वसुनंदि श्रावकाचार)

सं. १६५४ वर्षे आपाढभासे कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ ११ भौमवासरे अजमेरगढमध्ये श्रीमूलसंघे नंदाग्नाये व्रलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंड-कुंडाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीचंद्रकीर्तिदेवाः तदाग्नाये मंडलाचार्यश्रीभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे मंडलाचार्यश्रीधर्मकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीविशालकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीलिखिमीचंद्र तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीसहस्रकीर्ति तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीनेमिचंद्र तदाग्नाये खंडेल-वालाग्वये पहाड्या गोत्रे साह नानिग...एनेपां मध्ये शाह श्रीरंग तेन इदं वसुनंदि उपासकाचार ग्रंथ ज्ञानावरणी कर्म क्षयनिमित्तं लिखापितं मंडला-चार्य श्रीनेमिचंद्र तस्य शिष्यणी वार्ड मवीरा जोग्य घटापितं ॥

(प्र. पृ. १५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९४४)

लेखांक २८७ - (पांडवपुराण)

श्रीमूलसंघे...भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीधर्म-कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. विशालकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. लक्ष्मीचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीनेमिचंद्रस्तस्मै सत्पात्राय पुराणमिदं लेखित्वा प्रदत्तं ॥

(भा. १ कि. ४ पृ. ३९)

लेखांक २८८ - पट्टावली

यज्ञःकीर्ति

संवत् १६७२ फागुन सुदि ५ यज्ञःकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष ४० पट्ट वर्ष १७ मास ११ दिवस ८ अंतर दिवस २ सर्व वर्ष ६७ जाति पाटणी पट्ट रेवा ॥

(व. १०)

लेखांक २८९ - पट्टावली

भानुकीर्ति

संवत् १६९० भानुकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ७ दिक्षा वर्ष ३७ पट्ट वर्ष

१४ मास ७ दिवस २१ सर्वे वर्ष ५९ मास ४ दिवस ३ अंतर दिवस ७ जाति गंगवाल पट्ट नागौर ॥

(व. १०)

लेखांक २९० - रविवार व्रत कथा

आठ सात सोला के अंग रविदिन कथा रचियो अकलंक ।

...भावसहित सत सुख लहे भानुकीर्ति मुनिवर जो कहे ॥ २५

(म. ६६)

लेखांक २९१ - पड्डावली

श्रीभूषण

संवत् १७०५ आश्विन सुदि ३ श्रीभूषणजी गृहस्थ वर्ष १३ दिक्षा वर्ष १५ पट्ट वर्ष ७ पाछे धर्मचंद्रजीने पट्ट दीयो पाछे १२ वर्ष जीया सबत् १७२४ ताई जाति पाटणी पट्ट नागौर ॥

[व. १०]

लेखांक २९२ - पड्डावली

धर्मचंद्र

संवत् १७१२ चैत्र सुदि ११ धर्मचंद्रजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा वर्ष २० पट्ट वर्ष १५ सर्वे वर्ष ४४ दिवस २४ जाति सेठी पट्ट महरोठ ॥

[व. १०]

लेखांक २९३ - गाँतम चरित्र

गच्छेशो नेमिचंद्रोखिलकलुहषरोभूद् यशःकीर्तिनामा

तत्पट्टे पुण्यमूर्तिर्मुनिनृपतिगणैः मेव्यमानाह्वियुग्मः ।

श्रीसिद्धांतप्रवेत्ता मदनभटजयी श्रीधमसूर्यप्रतापः

श्रीमच्छ्रीभानुकीर्तिः प्रशमभरधरो मानस्तोभादिजेता ॥ २६५

...सिद्धध्याननुतिप्रणामनिरतः क्रोधादिशैलाशनिः

श्रीमच्छूरिगणाधिपो विजयतां श्रीभूषणाख्यो मुनिः ॥ २६६

पट्टे तदीये मुनिधर्मचंद्रोभूच्छ्रीबलात्कारगणे प्रधानः ।

श्रीमूलसधे प्रविराजमानः श्रीभारतीगच्छसुदीप्तिभानुः ॥ २६७

राजच्छ्रीरघुनाथनामनृपतौ ग्रामे महाराष्ट्रके
 नाभेयस्य निकेतनं शुभतरं भाति प्रसौख्याकरम् ।
 श्रीपूजादिमहोत्सवत्रजयुतं भूरिप्रशोभास्पदं
 सद्भर्मान्वितयोगिमानुपगणैः सेव्यं प्रमोदाकरं ॥ २६८
 तस्मिन् विक्रमपार्थिवाद् रसयुगाद्रीदुप्रमे वर्षके
 ज्येष्ठे मासि सितद्वितीयदिवसे कांते हि शुक्रान्विते ।
 श्रीमच्छूरिकदंबकाधिपतिना श्रीधर्मचंद्रेण च ।
 तद्भक्त्या चरितं शुभं कृतमिदं श्रेयस्करं प्राणिनां ॥ २६९

[सर्ग ५, प्र. मू. कि. कापडिया, मृत १९२६]

लेखांक २९४ - पट्टावली

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १७२७ देवेंद्रकीर्तिजी गृहस्थवर्ष ९ दिक्षा वर्ष १९ पट्ट वर्ष
 १० मास ७ दिवस ९ अंतर मास ४ दिवस २१ सर्व वर्ष ३९ मास ३
 दिवस ४ जाति सेठी पट्ट महरोठ ॥

[व. १०]

लेखांक २९५ - पट्टावली

सुरेंद्रकीर्ति

संवत् १७३८ जेष्ठ सुदि ११ अमरेंद्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १५ दिक्षा
 वर्ष २९ पट्ट वर्ष ६ मास ११ अंतर मास १ दिवस २ सर्व वर्ष ५१ मास
 २ दिवस ७ जाति पाटणी पट्ट महरोठ ॥

(व. १०)

लेखांक २९६ - रविवार व्रतकथा

गढ गोपाचल नगर भलो शुभथान बखानो ।
 देवेंद्रकीर्ति मुनिराज भये तपनेज निधानो ॥
 तिनके पट्ट बिराजहि सुरेंद्रकीर्ति जु मुनींद्र ।
 कलश धरे पनियार में सकल सिद्धि आनंद ॥ ९३
 संवत विक्रम राय भले सत्रह मानो ।
 ता ऊपर चालीस जेष्ठ सुदि दशमी जानो ॥

वार जु मंगलवार हस्त नक्षत्र जु परियो ।

रविब्रतकथा सुरेंद्रकीर्ति रचना यह करियो ॥ ९४

[प्रकाशक— वीरसिंह जैन, इटावा १९०६]

लेखांक २९७ — पट्टावली

रत्नकीर्ति

संवत् १७४५ वैशाख सुदि ९ रत्नकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ३० दिक्षा
वर्ष ४७ पट्ट वर्ष २१ सर्व वर्ष ९८ मास १ दिवस ४ अंतर मास १ दिवस
३ जाति गोधा पट्ट काला डहरा ॥

[व. १०]

लेखांक २९८ — पट्टावली

विद्यानंद

संवत् १७६६ फागुन वदि ४ विद्यानंदजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा
वर्ष २५ पट्ट वर्ष २ मास ९ अंतर दिवस ४ सर्व वर्ष ३९ मास १ दिवस
३ जाति झाझरी पट्ट रूपनगर ॥

(व. १०)

लेखांक २९९ — पट्टावली

महेन्द्रकीर्ति

संवत् १७६९ मगसिर वदि ८ महेन्द्रकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा
वर्ष २८ पट्ट वर्ष ४ मास २ दिवस २८ सर्व वर्ष ४१ अंतर मास २
दिवस २६ जाति झाझरी पट्ट काला डहरा ॥

(व. १०)

लेखांक ३०० — पट्टावली

अनंतकीर्ति

संवत् १७७३ फागुन वदि ३ अनंतकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष १७ दिक्षा
वर्ष १७ पट्ट वर्ष २४ मास ४ दिवस १२ सर्व वर्ष ४९ दिवस ३ जाति
पाटणी पट्ट अजमेर ॥

(व. १०)

१२०

भट्टारक संप्रदाय

[३०१ -

लेखांक ३०१ - पट्टावली

भवनभूषण

संवत् १७९७ असाढ सुदि १० भवनभूषणजी गृहस्थ वर्ष ११ दिक्षा
वर्ष २५ पट्ट वर्ष ४ मास ६ दिवस १२ अंतर मास ४ दिवस १६ सर्व
वर्ष ४१ जाति छावडा पट्ट काला बहरा ॥

[व. १०]

लेखांक ३०२ - पट्टावली

विजयकीर्ति

संवत् १८०२ असाढ सुदि १ विजयकीर्तिजी गृहस्थ वर्ष ९ दिक्षा
वर्ष २८ पट्टस्थ विराजमान छै अजमेर ॥

[व. १०]

बलात्कार-गण-नागौर शाखा

इस शाखा का आरम्भ म. रत्नकीर्ति से होता है। आप म. जिनचन्द्र के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त दिल्ली-जयपुर शाखा में आ चुका है। आप का पद्माम्बिकेक संवत् १५८१ की श्रावण शु. ५ को हुआ तथा आप २१ वर्ष पट्ट पर रहे (ले. २७७)।

इन के बाद म. भुवनकीर्ति संवत् १५८६ की माघ कृ. ३ को पद्मारूढ हुए तथा ४ वर्ष पट्ट पर रहे। आप जाति से छावडा थे (ले. २७८)। आप के शिष्य मुनि पुण्यकीर्ति के लिए संवत् १५९५ की वैशाख शु. २ को मेडता शहर में राठौड राव मालदेव के राज्यकाल में^{५१} अणुव्रतरत्नप्रदीप की एक प्रति लिखाई गई (ले. २७९)।

इन के बाद म. धर्मकीर्ति संवत् १५९० की चैत्र कृ. ७ को पद्मारूढ हुए तथा १० वर्ष पट्ट पर रहे। आप जाति से सेठी थे (ले. २८०)। संवत् १६०१ की फाल्गुन शु. ९ को आप ने एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (ले. २८१)।

आप के बाद संवत् १६०१ की वैशाख शु. १ को म. विशाल-कीर्ति पद्मारूढ हुए तथा ९ वर्ष पट्ट पर रहे। आप जाति से पाटोदी थे तथा आप का निवास जोवनेर में था (ले. २८२)। आप के पट्टशिष्य म. लक्ष्मीचन्द्र संवत् १६११ की आश्विन कृ. ४ को पद्माधीश हुए तथा २० वर्ष पट्ट पर रहे। ये जाति से छावडा थे (ले. २८३)। इन के बाद संवत् १६३१ की ज्येष्ठ शु. ५ को म. सहस्रकीर्ति पद्माधीश हुए तथा १८ वर्ष भट्टारक पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के थे (ले. २८४)। इन तीनों भट्टारकों के कोई स्वतन्त्र उल्लेख नहीं मिले हैं।

सहस्रकीर्ति के पट्ट पर संवत् १६५० की श्रावण शु. १३ को नेमिचन्द्र अभिषिक्त हुए जो ११ वर्ष भट्टारक पद पर रहे। इन का गोत्र ठोल्या था (ले. २८५)। संवत् १६५४ की आपाढ कृ. ११ को

अजमेर में इन की शिष्या वाई सचीरा के लिए वसुनंदि श्रावकाचार की एक प्रति लिखाई गई। इस समय दिल्ली—जयपुर शाखा में म. चन्द्रकीर्ति पट्टाधीश थे (ले. २८६)। नेमिचन्द्र के लिए पांडवपुराण की भी एक प्रति लिखी गई थी (ले. २८७)।

नेमिचन्द्र के बाद संवत् १६७२ की फाल्गुन शु. ५ को पाटणी गोत्र के म. यशःकीर्ति रेवा शहर में पट्टाधीश हुए तथा १८ वर्ष पट्ट पर रहे (ले. २८८)।

इन के शिष्य भानुकीर्ति संवत् १६९० में पट्टारूढ हुए तथा १४ वर्ष भट्टारक पद पर रहे। ये गंगवाल जाति के तथा नागौर निवासी थे (ले. २८९)। संवत् १६७८ में इन ने रविव्रत कथा की रचना की (ले. २९०)।

भानुकीर्ति के शिष्य म. श्रीभूषण संवत् १७०५ की आश्विन शु. ३ को पट्टाधीश हुए और १९ वर्ष पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के थे। पदप्राप्ति के बाद ७ वें वर्ष में संवत् १७१२ की चैत्र शु. ११ को इन ने अपने शिष्य धर्मचन्द्र को भट्टारक पद पर स्थापित कर दिया था। धर्मचन्द्र सेठी गोत्र के थे और १५ वर्ष पट्ट पर रहे। इन का निवास महरोठ में था (ले. २९१-२)। इन ने संवत् १७२६ की ज्येष्ठ शु. २ को गौतमचरित्र की रचना पूर्ण की। उस समय महरोठ में रघुनाथ का राज्य था (ले. २९३) ^{११}।

धर्मचन्द्र के पट्ट पर संवत् १७२७ में देवेन्द्रकीर्ति अभिषिक्त हुए ये १० वर्ष पट्टाधीश रहे। इनका गोत्र सेठी तथा निवासस्थान महरोठ था (ले. २९४)। इन के बाद संवत् १७३८ की ज्येष्ठ शु. ११ को सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए तथा ७ वर्ष पद पर रहे। ये पाटणी गोत्र के थे। ग्वालियर में संवत् १७४० की ज्येष्ठ शु. १० को आप ने रविवार व्रत कथा लिखी (ले. २९५-९६)।

५२ महाराष्ट्रक महरोठ का संस्कृत रूपान्तर है।

इन के बाद संवत् १७४५ मे म. रत्नकीर्ति पट्टाधीश हुए तथा २१ वर्ष पट्ट पर रहे । ये गोधा गोत्र के तथा काला डहरा के निवासी थे (ले. २९७) । इन के उत्तराधिकारी म. विद्यानंद झाझरी गोत्र के तथा रूपनगर निवासी थे । ये संवत् १७६६ से २ वर्ष पट्ट पर रहे (ले. २९८) । इन के शिष्य महेन्द्रकीर्ति संवत् १७६९ से ४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे । ये झाझरी गोत्र के तथा काला डहरा के निवासी थे (ले. २९९) । इन के बाद अनन्तकीर्ति संवत् १७७३ से २४ वर्ष तक मट्टारक पद पर रहे । ये पाटणी गोत्र के तथा अजमेर निवासी थे । इन के अनतर म. भवनभूषण संवत् १७९७ से ४ वर्ष तक पट्टाधीश रहे । ये छावडा गोत्र के तथा काला डहरा निवासी थे (ले. ३००-१) । इन के शिष्य विजयकीर्ति अजमेर मे संवत् १८०२ की आपाढ शु. १ को पट्टाभिषिक्त हुए थे (ले. ३०२) ।^{५३}



५३ नागौर के पट्टाधीशों की प्रकाशित नामावली (जैन सि. मा. १ पृ. ८०) में रत्नकीर्ति (द्वितीय) के बाद क्रमशः ज्ञानभूषण, चन्द्रकीर्ति, पद्मनन्दी, सकलभूषण, सहस्रकीर्ति, अनन्तकीर्ति, हर्षकीर्ति, विद्याभूषण, हेमकीर्ति, भेमेन्द्रकीर्ति, सुनीन्द्रकीर्ति तथा कनककीर्ति के नाम दिये हैं । इन के कोई स्वतन्त्र उल्लेख प्राप्त नहीं हो सके । वर्तमान समय में इस गद्दी पर म. देवेन्द्रकीर्तिजी विराजमान हैं । आप ने नागपुर, अमरावती आदि विदर्भ के नगरों में भी विहार किया है ।

बलात्कार गण-नागौर शाखा-काल पट

- १ जिनचन्द्र [दिल्ली जयपुर शाखा]
|
- २ रत्नकीर्ति [संवत् १५८१]
|
- ३ सुवनकीर्ति [संवत् १५८६]
|
- ४ धर्मकीर्ति [संवत् १५९०]
|
- ५ विशालकीर्ति [संवत् १६०१]
|
- ६ लक्ष्मीचन्द्र [संवत् १६११]
|
- ७ सहस्रकीर्ति [संवत् १६३१]
|
- ८ नेमिचन्द्र [संवत् १६५०]
|
- ९ यशःकीर्ति [संवत् १६७२]
|
- १० भानुकीर्ति [संवत् १६९०]
|
- ११ श्रीभूषण [संवत् १७०५]
|
- १२ धर्मचन्द्र [संवत् १७१२]
|
- १३ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १७२७]
|
- १४ सुरेन्द्रकीर्ति [संवत् १७३८]
|

१५ रत्नकीर्ति [संवत् १७४५]

१	विद्यानन्द [संवत् १७६६]	ज्ञानभूषण
२	महेन्द्रकीर्ति [संवत् १७६९]	चन्द्रकीर्ति
३	अनन्तकीर्ति [संवत् १७७३]	पद्मनन्दी
४	भवनभूषण [संवत् १७९७]	सकलभूषण
५	विजयकीर्ति [संवत् १८०२]	सहस्रकीर्ति
		अनन्तकीर्ति
		हर्षकीर्ति
		विद्याभूषण
		हेमकीर्ति
		क्षेमेन्द्रकीर्ति
		मुनीन्द्रकीर्ति
		कनककीर्ति
		देवेन्द्रकीर्ति (वर्तमान)

८. बलात्कार गण - अटेर शाखा

लेखांक ३०३ - महावीर मूर्ति

सिंहकीर्ति

सं. १५२० वर्षे आषाढ सुदी ७ गुरौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिनचंद्र तलट्टे भ. श्रीसिंहकीर्ति लंबकंचुकान्वये अडलीवास्तव्ये साहु श्रीदिवौ भार्या इंदा... इष्टिकापथ प्रतिष्ठितं ॥

(मा. प्र. पृ. १३)

लेखांक ३०४ - श्रेयांस मूर्ति

सं. १५२५ चैत्र शुक्ले ३ बुधे श्रीमूलसंघे भ. श्रीसिंहकीर्ति प. ह. पु. लंबकंचुकान्वये साये सिण्डे भार्या सोना पुत्र सा. जल्लु भार्या मना प्रणमति ॥

(मा. प्र. पृ. ५)

लेखांक ३०५ - १ मूर्ति

सं. १५२७ माघ वदि ५ श्रीमूलसंघे भ. सिंहकीर्ति नित्यं प्रणमति ॥

[नांदगांव, अ. ४ पृ. ५०२]

लेखांक ३०६ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १५२८ वर्षे वैशाख सुदी ७ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिनचंद्र तलट्टे श्रीसिंहकीर्तिदेव महियवंश साधु ह्यु भार्या वैसा... ॥

(मा. प्र. पृ. २)

लेखांक ३०७ - महावीर मूर्ति

सं. १५२९ वर्षे वैसाख सुदि २ बुधे मूलसंघे भ. सिंहकीर्तिदेवा सा सहरदा पुत्र मोदिक लल्लु दिगंबर मूर्ति जू सदा सहाई बिलसी ॥

[मा. प्र. पृ. ४]

लेखांक ३०८ - कलिकुंड यंत्र

सं. १५३१ वर्षे फागुण सुदि ५ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिनचंद्र श्रीसिंहकीर्तिदेवा प्रतिष्ठितं । श्रीआनमसिरि शुल्लकी क्रमी सहित श्रीकलिकुंड यंत्र कारापितं । श्रीकल्याण भूयान् ।

(मा. ७ पृ. १३)

लेखांक ३०९ - [यशोधरचरित]

शीलभूषण

अथ संवत्सरेस्मिन् श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये संवत् १६२१ वर्षे श्रावण वदि २ सोमवासरे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मनांदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीसिंहकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीधर्मकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशीलभूषणदेवाः तदाम्नाये आर्या श्रीचारित्रश्री तत्स्तिष्यणी व्रत गुणसुंदरी एकादशप्रतिपालिका तपगुणराजीमती शीलतोयप्रक्षालितपापपटला । वाई हीरा तथा चंदा पठनार्थं इदं यशोधरचरित्रं लिखापितं कर्मक्षयनिमित्तं लिखितं पंडित वीणासुत गरीवा अलवरवासिनः ॥

[प्रस्तावना पृ. १५, कारंभा जैन सीरीज १९३१]

लेखांक ३१० - सम्यक्चारित्र यंत्र

जगद्भूषण

संवत् १६८६ ज्येष्ठ वदि ११ शुक्ले श्रीमूलसंघे .भ. श्रीधर्मकीर्तिदेवाः भ. श्रीशीलभूषणदेवाः भ. श्रीज्ञानभूषणदेवाः भ. श्रीजगद्भूषणदेवाः तदाम्नाये गोलारान्वये खरौआ जातीये कुलहा गोत्रे पंडिताचार्ये पं. भोजराज भार्या प्यारो . ॥

[भा. प्र. पृ. १७]

लेखांक ३११ - १ मूर्ति

सं. १६८८ वैशाख सुदी ३ श्रीमूलसंघे .भ जगतभूषणः तदाम्नाये सभासिंघः प्रणमति ॥

(आगरा, भा. १९ पृ. ६३)

लेखांक ३१२ - श्रेयांस मूर्ति

सं. १६८८ वर्षे फाल्गुण सुदी ८ शनौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीजगद्भूषणदेवाः तदाम्नाये पुळे ज्ञातिये खेमिज गोत्रे साधु तारण तद्भार्या मैना . ॥

[भा. प्र. पृ. १५]

लेखांक ३१३ - हरिवंश पुराण

संवत् सोरहिसै तहां भये तापरि अधिक पचानवै गये ।
 माघ मास किसन पक्ष जानि सोमवार सुभवार बखानि ॥
 ...भट्टारक जगभूषण देव गनधर साद्रस बाकि जु एह ।
 ...नगर आगिरी उत्तम शानु साहिजहां तपै दूजो भानु ॥
 ...वाहन करी चौपई बंधु हीनबुधि मेरी मति अंधु ॥

(भा. ६ पृ. १२६)

लेखांक ३१४ - सम्यग्दर्शन यंत्र

विश्वभूषण

सं. १७२२ वर्षे माघ वदि ५ सौमे श्रीमूलसंघे भ. श्रीजगद्भूषण
 तप्तष्टे भ. श्रीविश्वभूषण तदाम्नाये यदुबंभे लंबकंचुक पचोलने गोत्रे सा
 भावते हीरामणि ॥

[भा. प्र. पृ. १८]

लेखांक ३१५ - मंदिर लेख

श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये श्रीजगत्-
 भूषण श्रीम. विश्वभूषणदेवाः स्वरीपुरमै जिनमंदिरप्रतिष्ठा सं. १७२४
 वैशाख वदि १३ कौ कारापिता ॥

(भा. १९ पृ. ६४)

लेखांक ३१६ - ज्योतिप्रकाश

श्रीजैनदृष्टितिथिपत्रमिह प्रणष्टं
 स्पष्टीचकार भगवान् करुणाधुरीणः ।
 बालाबबोधविधिना विनयं प्रपद्य
 श्रीज्ञानभूषणगणेशमभिष्टुमस्तं ॥

- ज्ञानभूषण जगदिभूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी चिन्मयी स्वधिनयी
 हिताश्रयी स्ताद् यतो भवति मे विधिर्जयी

(भा. २१ पृ. १३)

लेखांक ३१७ — सुगंधदशमी कथा

व्रत सुगंध दशमी विख्यात ता फल भयो, सुरभियुत गात्र ॥ ३७
शहर गहेली उत्तम वास जैनधर्मको जहां प्रकास ॥ ३८
उपदेशो विश्वभूषण सही हेमराज पंडितने कही ॥ ३९

(प्र. हीरालाल प. जैन, दिछी १९२१)

लेखांक ३१८ — ऋषिपंचमी कथा

सुरेंद्रभूषण

सत्रहसौ सत्तावन जान मिती पौष सुदि दशमी मान ॥ ७८
हती कंतपुरमे रचि कथा श्रीसुरेंद्रभूषण मुनि यथा ।
श्रावक पढो सुनो घर ध्यान जासे होइ परम कल्याण ॥ ७९

(प्र. हीरालाल प. जैन, दिछी १९२१)

लेखांक ३१९ — सम्यग्ज्ञान यंत्र

सं. १७६० वर्षे फाल्गुण सुदी १ गुरौ श्रीमूलसंघे...म. श्रीसुरेंद्र-
भूषणदेव तदान्नाए लंबकंचुकान्वये रपरियागोत्रे सा कुमारसेनि भार्या
जीवनवे ॥

[मा. प्र. पृ. १८]

लेखांक ३२० — षोडशकारण यंत्र

सं. १७६६ वर्षे माघ सुदी ५ सोमवासरे श्रीमूलसंघे...म. श्रीविश्व-
भूषणदेवाः तत्पट्टे म. श्रीदेवेंद्रभूषणदेवाः तत्पट्टे श्रीसुरेंद्रभूषणदेवाः तदान्नाए
लंबकंचुकान्वये बुढेलेजातीये रावत गोत्रे साहु वदलदास भार्या सुधी ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ३२१ — सम्यग्दर्शन यंत्र

सं. १७७२ वर्षे फाल्गुण वदि ९ चंद्रे श्री मूलसंघे...म. श्रीदेवेंद्र-
भूषणदेवाः तत्पट्टे म. श्रीसुरेंद्रभूषणदेवाः तस्मात् ब्रह्म जगत्सिंह गुरुपदेशात्
तदान्नाए लंबकंचुकान्वये बुढेले जातीये ककौआ गोत्रे श्री सा सिवरामदास
भार्या देवजावी... ॥

(मा. प्र. पृ. १९)

लेखांक ३२२ - दशलक्षण यंत्र

सं. १७९१ वर्षे फागुण सुदी ९ बुधवासरे शुभ दिने मूलसंघे...म. श्रीविश्वभूषणदेवाः तत्पट्टे म. श्रीदेवेन्द्रभूषणदेवाः तत्पट्टे म. श्रीसुरेन्द्रभूषणदेवाः तदान्नाए बुढेलान्वये गृगगोत्रे साहु तुलाराम...अटेरपुरे साहु तुलारामेण यंत्रप्रतिष्ठा कारित तत्र प्रतिष्ठितम् ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ३२३ - (मूलाचार)

मुनीन्द्रभूषण

संवत् १८४२ वर्षे मासोत्तममासे वैशाखमासे शुक्लपक्षे तिथौ १० भौमवासरे ग्राम पलाइया मध्ये श्रीमन् पार्श्वनाथचैत्यालये वा श्रीवर्धमानचैत्यालये श्रीमूलसंघे...हस्तनागपुरपट्टे तदुत्तरभद्रावरदेशात् म. श्री १०८ श्रीविश्वभूषण तत्पट्टे म. श्रीदेविन्द्रभूषण तत्पट्टे श्रीसुरेन्द्रभूषण तत्पट्टे म. श्रीलक्ष्मीभूषण तत्पट्टे म. श्रीमुनिन्द्रभूषणजीकुं पुस्तक दान ग्रंथ मूलाचार समर्पयेत् साहजी श्रीलालचंदजी...पुस्तकदान दातव्यं ज्ञानप्राप्तार्थं ज्ञात वधेरवाल गोत्र सेट्या इदं शुभं ॥

[का. ५२७]

लेखांक ३२४ - मुनीन्द्रभूषण पूजा

पापतापनाशनाय सर्वसौख्यसिद्धये ।
श्रीलक्ष्मीभूषणपट्टे मुनीन्द्रभूषणं यजे ॥

(ना. ८७)

लेखांक ३२५ - जिनेन्द्रमाहात्म्य

महेंद्रभूषण

संवत् १८५२ कार्तिक शुक्ल १ गुरुवार श्रीमूलसंघे...श्री म. विश्वभूषणदेवा तद्दिश्य ब्रह्म श्रीविनासागरजी...एतेषां मध्ये म. जिनेन्द्रभूषणस्य शिष्य श्री म. महेंद्रभूषणेन इयं पुस्तिका लिखावितं ॥

[नीर ३ पृ. ३६४]

लेखांक ३२६ - (पद्मनंदि पंचविंशति)

संवत् १८५८ श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये गढगोपाचले श्रीमूलसंघे...म.
ज्ञानभूषणजीदेवाः तत्पट्टे म. जगद्भूषणजीदेवाः तत्पट्टे म. विश्वभूषणजी-
देवाः तत्पट्टे म. देवेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे म. सुरेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे म.
लक्ष्मीभूषणजीदेवाः तत्पट्टे म. जिनेंद्रभूषणजीदेवाः तत्पट्टे म. महेंद्रभूषणेन
लिखापितं श्रीआचार्यदेवेंद्रकीर्तेरध्ययनार्थं ॥

[B O. R. I., 587 of 1875-76]

लेखांक ३२७ - पार्श्वमूर्ति

संवत् १८७६ वैशाख शुद्ध ६ शुक्ले कुंडकुंदाचार्यान्वये म. विश्व-
भूषण...तदाज्ञाये म. जिनेंद्रभूषणजी म. महेंद्रभूषण प्रोतकारान्वये कांसिल
गोत्रे शाहजी दचनावरसिंघस्य पुत्रश्रीजी तस्य पुत्राश्चत्वारः ... ॥

(मसाद, मा. १ कि. ४ पृ. ३५)

लेखांक ३२८ - नेमिनाथ मूर्ति

राजेंद्रभूषण

शुभ सं. १९२० फाल्गुण वदि ३ गुरुवासरे श्रीमूलसंघे...श्रीमद्-
द्वारकजिनेंद्रभूषणजिदेव तत्पट्टे श्रीमहेंद्रभूषणजिदेव तत्पट्टे श्रीराजेंद्रभूषणजिदेव
तदुपदेशात्...प्रतिष्ठाकर्ता आरानगर्था केलिरामस्तस्युत्र डालचंद अग्रवार
गरगोत्रोत्पन्नस्य मस्तके कृता ॥

(भा. प्र. पृ. ९)

बलात्कार गण - अटेर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. सिंहकीर्ति से होता है। ये भ. जिन-चन्द्र के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त दिल्ली-जयपुर शाखा में आ चुका है। आप ने संवत् १५२० की आपाढ शु. ७ को एक महावीर मूर्ति प्रतिष्ठापित की (ले. ३०३)। यह प्रतिष्ठा इष्टिकापय^{५४} में हुई। आप ने संवत् १५२५ की चैत्र शु. ३ को एक श्रेयांस मूर्ति, संवत् १५२७ की माघ कृ. ५ को एक अन्य मूर्ति, संवत् १५२८ की वैशाख शु. ७ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा संवत् १५२९ की वैशाख शु. २ को एक महावीर मूर्ति स्थापित की (ले. ३०४-७)। संवत् १५३१ की फाल्गुन शु. ५ को क्षुल्लिका आगमश्री के लिए आप ने एक कलिकुंड यन्त्र स्थापित किया (ले. ३०८)।

सिंहकीर्ति के बाद धर्मकीर्ति और उन के बाद शीलभूषण मद्दरक हुए। आप के अन्तर्गत में संवत् १६२१ की श्रावण कृ. २ को अलवर निवासी गरीबदास ने हीराबाई के लिए यशोधरचरित की एक प्रति लिखी (ले. ३०९)।

शीलभूषण के पट्टशिष्य ज्ञानभूषण हुए। ज्योतिःप्रकाश के एक उल्लेख से पता चलता है कि आप ने चिरकाल से लुप्त हुए जैन तिथिपत्र की पद्धति को स्पष्ट किया (ले. ३१६)।

इन के बाद जगद्भूषण मद्दरक हुए। आप ने संवत् १६८६ की ज्येष्ठ कृ. ११ को एक सम्यक्चारित्र यंत्र, संवत् १६८८ की फाल्गुन शु. ८ को एक श्रेयांस मूर्ति तथा इसी वर्ष की वैशाख शु. ३ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की (ले. ३१०-१२)। आप की आन्तर्गत में संवत् १६९५ की माघ में शाहजहाँ के राज्य काल में आगरा शहर में शालिवाहन ने हिन्दी हरिवंशपुराण की रचना की (ले. ३१३)।

५४ यह सम्भवतः इटावा का संस्कृत रूपान्तर है।

इन के बाद विश्वभूषण भट्टारक हुए। आप ने संवत् १७२२ की माघ कृ. ५ को एक सम्यग्दर्शन यंत्र स्थापित किया (ले. ३१४)। संवत् १७२४ की वैशाख कृ. १३ को आप ने शौरीपुर में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की (ले. ३१५)।^{५५} ज्योतिःप्रकाश के उक्त उल्लेख में विश्वभूषण की भी प्रशंसा की गई है (ले. ३१६)। आप के उपदेश से पंडित हेमराज ने गहली शहर में सुगंधदशमी कथा लिखी (ले. ३१७)।

इन के बाद देवेन्द्रभूषण और उन के बाद सुरेन्द्रभूषण भट्टारक हुए। आप ने संवत् १७५७ में ऋषिपंचमी कथा की रचना की (ले. ३१८)। आप ने संवत् १७६० की फाल्गुन शु. १ को एक सम्यग्ज्ञान यंत्र, संवत् १७६६ की माघ शु. ५ को एक षोडशकारण यंत्र, संवत् १७७२ की फाल्गुन कृ. ९ को एक सम्यग्दर्शन यंत्र तथा संवत् १७९१ की फाल्गुन कृ. ९ को अटेर में एक दशलक्षण यंत्र की स्थापना की (ले. ३१९-२२)।

सुरेन्द्रभूषण के शिष्य लक्ष्मीभूषण हुए। इन के शिष्य मुनीन्द्रभूषण को संवत् १८४२ की वैशाख शु. १० को साह लालचंद ने मूलाचार की एक प्रति अर्पित की (ले. ३२३)।^{५६}

लक्ष्मीभूषण के दूसरे शिष्य जिनेन्द्रभूषण हुए। इन के शिष्य महेन्द्रभूषण ने संवत् १८५२ की कार्तिक शु. १ को जिनेन्द्रमाहान्य की एक प्रति लिखी (ले. ३२५), संवत् १८५८ में ग्वालियर में इन ने पद्मनन्दिपंचविंशति की एक प्रति आचार्य देवेन्द्रकीर्ति के लिए लिखी (ले. ३२६)। संवत् १८७६ की वैशाख शु. ६ को आप ने एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ३२७)।

५५ मूल में संवत् १२२४ छपा है जो स्पष्टतः गलत है।

५६ इन की परम्परा में सोनागिरि के पट्ट पर क्रमशः जिनेन्द्रभूषण, देवेन्द्रभूषण, नरेन्द्रभूषण, सुरेन्द्रभूषण, चन्द्रभूषण, चारुचन्द्रभूषण, हनेन्द्रभूषण, जिनेन्द्रभूषण और चन्द्रभूषण भट्टारक हुए (अनेकान्त व. १० पृ. ३७६)।

इन के बाद भ. राजेन्द्रभूषण हुए। इन के उपदेश से आरा में केलिराम के पुत्र डालचंद ने संवत् १९२० में एक नेमिनाथ मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई (छे. ३२८)।

बलात्कार गण—अटेर शाखा—काल पट

- १ जिनचन्द्र (दिल्ली जयपुर शाखा)
- ↓
- २ सिद्धकीर्ति (संवत् १५२०-१५३१)
- ↓
- ३ धर्मकीर्ति
- ↓
- ४ शीलभूषण (संवत् १६२१)
- ↓
- ५ ज्ञानभूषण
- ↓
- ६ जगद्भूषण (संवत् १६८६-१६९५)
- ↓
- ७ विश्वभूषण (संवत् १७२२-१७२४)
- ↓
- ८ देवेन्द्रभूषण
- ↓
- ९ सुरेन्द्रभूषण (संवत् १७५७-१७९१)
- ↓

९. बलात्कार गण - ईडर शाखा

लेखांक ३२९ - पट्टावली

सकलकीर्ति

श्रीकुंदकुंदान्वयभूषणाप्तः भट्टारकाणां शिरसः किरिटः ।

षट्कर्कसिद्धांतरहस्यवेत्ता पयोजनुर्नद्यभवद्वरिच्याम् ॥ ३२ ॥

तत्पट्टभागी जिनधर्मरागी गुरुपवासी कुसुमेष्टुनाशी ।

तपोनुरक्तः समभूद्विरक्तः पुण्यस्य-मूर्तिः सकलादिकीर्तिः ॥ ३३ ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८)

लेखांक ३३० - ऐतिहासिक पत्र

आचार्य श्रीसकलकीर्ति वर्ष २५ छविसनी संस्थाह तथा तीवारे संयम लेई वर्ष ८ गुरा पासे रहीने व्याकरण २ तथा ४ भण्या...श्रीवाग्वर गुजरात माहे गाम खोडेणे पधाच्या वर्ष ३४ नी संस्था थई तीवारे सं. १४७१ ने वर्षे...साहा श्रीयौचाने गृहे आहार लीधो...वर्ष २२ पर्यंत स्वामी नम्र हता जुमले वर्ष ५६ छप्पन...सं. १४९९ श्रीसागवाड जुने देहरे आदिनाथनो प्रसाद करावीने पीछे श्रीनोगामे संघे पदस्थापन करीने सागवाडे जईने पोताना पुत्रकने प्रतिष्ठा करावी पोते सूरमंत्र दीधो ते धर्मकीर्तिए वर्ष २४ पाट भोगव्यो ॥

[मा. १३ पृ. ११३]

लेखांक ३३१ - चौवीसी मूर्ति

सं. १४९० वर्षे वैशाख सुदी ९ सनौ श्रीमूलसंघे नंदीसंघे बलात्कार-गणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. पद्मनंदी तत्पट्टे श्रीशुभचंद्र तस्य भ्राता जगत्रयविख्यात मुनि श्रीसकलकीर्ति उपदेशात् हुंवडह्यातीय ठा. नरवद भार्या वला तयोः पुत्र ठा. देपाल अर्जुन भीमा कृपा चासण चांपा कान्हा श्रीआदिनाथप्रतिमेयं ॥

(सूरत, दा. ५३)

लेखांक ३३२- पार्श्वनाथ मूर्ति

संवत् १४९२ वर्षे वैशाख वदि १० गुरु श्रीमूलसंघे...भ. श्रीपद्म-नंदिदेवाः तत्पट्टे श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्भ्राता श्रीसकलकीर्ति उपदेशात् हुंवड

न्याति उत्रेश्वर गोत्रे ठा. लींवा भार्या फह श्रीपार्श्वनाथ नित्यं प्रणमति सं.
तेजा टोई आ. ठाकरसी हीरा देवा मूडलि वास्तव्य प्रतिष्ठिता ॥

[मा. ७ पृ. १५]

लेखांक ३३३ - शिलालेख

स्वस्तिश्री १४९४ वर्षे वैशाख सुदी १३ गुरौ मूलसंघे...म. श्रीपद्म-
नदी तत्पट्टे श्रीशुभचंद्रम. श्रीसकलकीर्ति उपदेशे द्यौव्याव (?) कृत्वा संघवै
नरपाल...समस्तश्रीसंघ दिगंबर श्रीअर्बदाचले आगिह तीर्थ- सीतांबर-
प्रासाद दिगंबर पाछि दछाव्या श्रीआदिनाथ बडा दीकीजी श्रीनेमिनाथजी
जिह श्रीसीतल हरबुधप्रसाद दिगंबर-पाछिह-पेहरी तिन बहणरी महापूज
धज अवास करी संघवी गोव्यंद् प्रशस्ति लिखाती ॥ -

(आबू, जैनमित्र ३-२-१९२१)

लेखांक ३३४ - आदिनाथ मूर्ति

सं. १४९७ मूलसंघे श्रीसकलकीर्ति हुबड-ज्ञातीय शाह-कर्णा भार्या
भोली सुता सोमा भात्री भोदी भार्या पासी आदिनाथं प्रणमति ॥

[सूरत, दा. पृ. ५२]

लेखांक ३३५ - प्रश्नोत्तर श्रावकाचार

उपासकाख्यो विबुधैः प्रपूज्यो ग्रंथो महाधर्मकरो गुणाढ्यः ।
समस्तकीर्त्यादिमुनीश्वरोक्तः सुपुण्यहेतुर्जयताद्धरिञ्चाम् ॥ १४२

(अध्याय २४, प्र. मू. कि. कांपडिया, सूरत-१९२६)

लेखांक ३३६ - पार्श्वपुराण

अवगमजलधिश्रीपार्श्वनाथस्य दिव्यं
सकलविशदकीर्तेः प्रादुरासीन्मुनीन्द्रात् ।
यदिह वरचरित्र तद्धि-दक्षाः स्मरंतु
यतिसुजनसुसेव्यं जैनधर्मोक्ति यावत् ॥

(मा. अ. पृ. १९५)

लेखांक ३३७ - सुकुमार चरित्र

सञ्चरित्रमिदमाप्तयतींद्रा ज्ञानिनो निहतदोषसमग्राः ।
 शोधयंतु तनुशास्त्रमरेण सर्वकीर्तिगणिना कृतमत्र ॥ ८८ ॥
 सुकुमारचरित्रस्यास्य श्लोकाः पिंडिता वृधैः ।
 विज्ञेया लेखकैः सर्वे हेकादशशतप्रमाः ॥ ९४ ॥

(अध्याय ९, प्र. रा. स. दोशी, सोलापुर)

लेखांक ३३८ - मूलाचार प्रदीप

रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋषींद्रा-
 स्त्रिभुवनपतिपूज्याः शोधयंत्वेव यत्नात् ।
 विशदसकलकीर्त्याख्येन चाचारशास्त्र-
 मिदमिह गणिना संकीर्तितं धर्मसिद्धयै ॥ २२३ ॥

(अध्याय १२, का. ५२८)

लेखांक ३३९ - आराधना

जे भणे सुणे नरनारी ते जाए भवतरि पार ।
 श्रीसकलकीरति कस्यो आराधना प्रतिबोध सार ॥ ५४ ॥

(ना. ९४)

लेखांक ३४० - पंचपरमेष्ठि मूर्ति

संवत् १५१० वर्षे माह मासे शुद्धपक्षे ५ रवौ श्रीमूलसंघे...म. पद्म-
 नंदि तत्पट्टे भ. श्रीसकलकीर्ति तत्पिण्य ब्र. जिनदास हुं वड्ढातीय सा. तेजु
 मा. मलाई... ॥

[ना. ५३]

लेखांक ३४१ - गुणस्थानं गुणमाला

श्रीसकलकीरति पाय पणमीने कियो रास मै सार ।
 गुणस्थानक गुण वरणव्या त्रिभुवनतारणहार ॥ ४३
 दुइ कर जोडि बिनवे ब्रह्मचारि जिनदास ।

भविभविनि ग्रंथ सेविसुं मागिसुं चरणेहु वास ॥ ४४

(म. ४५)

लेखांक ३४२ — ज्येष्ठ जिनवर पूजा

श्रीसकलकीरति गुरु प्रणमिने जिनवर पूज रयं ।

ब्रह्म भणे जिनदास तो आतमा निर्मलयं ॥ १४

[च. १९०५]

लेखांक ३४३ — पार्श्वनाथ मूर्ति

शुवनकीर्ति

संवत् १५२७ वर्षे वैशाख वदि ११ बुधे श्रीमूलसंघे भ. श्रीसकल-
कीर्तिस्तत्पट्टे भ. श्रीशुवनकीर्ति उपदेशात् हुंबुध गोत्रे... ॥

(भा. ७ पृ. १६)

लेखांक ३४४ — रामायण रास

श्रीमूलसंघ अति निरमलो सरसतीगल गुणवंत ।

श्रीसकलकीरति गुरु जाणीइ जिणसासणि जयवंत ॥

तास पाटि अति रूवडा श्रीशुवनकीर्ति भवतार ।

गुणवंत मुनि गुणि आगला तप तणा मंडार ।

तीहु मुनिवर पाय प्रणमीने किया रास ए सार ।

ब्रह्म जिनदास भणे रूवडो पढतां पुण्य अपार ॥

शिष्य मनोहर रूवडा ब्रह्म मलिदास गुणदास ।

पढो पढावो विस्तरे जिम होइ सौख्य निवास ॥

संवत पंनर अठोत्तरा मागसिर मास विशाल ।

शुछ पक्ष चच दिन रास कियो गुणमाल ॥

(ना. २२)

लेखांक ३४५ — हरिवंश रास

उपर्युक्त के समान, सिर्फ अन्तिम पद्य भिन्न है—

संवत पंनर वीसोत्तरा वैशाख मास विशाल ।

सुकल पक्ष चौदसि दिन रास कियो गुणमाल ॥

[ना. २०]

लेखांक ३४६ - कर्मविपाक रास .

सरस्वति स्वामिणि सरस्वति स्वामिणि तणइ पसाइ ।
 रास कियो मि निरमलो करमविपाकतणो निरमलो ।
 ते कर्मक्षय कारणि ॥

सुणो भवियण तन्हे मनोहार ।
 श्रीसकलकीरति पाय प्रणमीनि मुनि भुवनकीरति भवतार ।
 ब्रम्ह जिणदास म्हणे वांदिस्तु मागिस्तु तम्ह गुण सार ॥

[ना. ७]

लेखांक ३४७ - धर्मपरीक्षा रास

श्रीगणधर स्वामी नमसकरु श्रीसकलकीरति भवतार ।
 मुनि भुवनकीरति पाय प्रणमीनि कहिसुं रासहु सार ॥ १
 धरमपरीक्षा करुं निरमली भवियण सुणो तन्हे सार ।
 ब्रम्ह जिणदास कहि निरमलो जिम जाणो विचार ॥ २

[ना. ३८]

लेखांक ३४८ - जंबूस्वामी रास

श्रीसकलकीरति गुरु प्रणमीने हो भुवनकीरति गुरु वांदि ।
 रास कियो मइं निरमलो हो जंबूकुंअरलु आदि ॥
 पढइ गुणइ जे सांभलि तेह घरि ऋद्धि अनंत ।
 ब्रम्ह जिणदास इणि परि भणि सुगति रमणी होइ कंत ॥

[ना. ३७]

लेखांक ३४९ - जीवंधर रास

जीवंधर स्वामी तणो मि रास कीधो सरस सोहावणो ।
 सरस्वति तणइ पसाइ निरमल कामदेव गुरु वरण्य्या ॥
 श्रीसकलकीरति गुरु प्रणमीने वली भुवनकीरति भवतार ।
 ब्रम्ह जिणदास भणे निरमलो पढो तन्हे भवियण सार ॥

[ना. ३६]

लेखांक ३५० - जसोधर रास

गणधरस्वामि नमसकरु श्रीसकलकीरति-भवतार ।
 भुवनकीरति गुरु प्रणमीने ब्रम्ह जिणदास भणे सार ॥
 भवियण भावइ सुणउ आज मनि निअयो आणि ।
 राय जसोधर तणउ रास हुं कहिसु वखाणि ॥

(ना. ३९)

लेखांक ३५१ - श्रेणिकचरित्र

शिष्यु सकलकीर्ति देवाचा । तो जीणदासु गुरु आमुचा ।
 प्रसादु लाधला त्याचा । गुणदासें खा ॥ ९५ ॥
 त्या जिनब्रम्हान्या चरनी । गुणब्रम्हें नमन करौनि ।
 बोवीबंध ग्रंथु करुनि । वेगळा ठेला ॥ ९६ ॥

[अ. ४, ना. ७]

लेखांक ३५२ - चारित्र यंत्र

-ज्ञानभूषण

सं. १५३४ श्रीमूलसंघे भ. जिनचंद्रान्नाये भ. श्रीभुवनकीर्तिस्तत्पट्टे
 श्रीज्ञानभूषणगुरुपदेशात् लंबेचू सा उजागर ॥

(भा. प्र. पृ. १७)

लेखांक ३५३ - रत्नत्रय मूर्ति

संवत् १५३५ श्रीमूलसंघे भ. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषणो-
 पदेशात् ॥

(बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ३५४ - पद्मप्रभ मूर्ति

संवत् १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनौ श्रीमूलसंघे ॥ भ. सकलकीर्ति
 तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषणगुरुपदेशात् जांगडा पोरवाड-
 ज्ञातीय स. वाजु मानेजु ॥

(अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ३५५ - रत्नत्रय मूर्ति

सं. १५४३ श्रीमूलसंघे भ. श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषण-
गुरूपदेशात्... ॥

(सुं. हि. जोहरापुरकर, नागपुर)

लेखांक ३५६ - १ मूर्ति

संवत् १५४४ वर्षे वैसाख सुदि ३ सोमे श्रीमूलसंघे भ. श्रीविद्यानंदि
भ. श्रीभुवनकीर्ति भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात् हुंवड साह चांदा भार्या
रेमाई... ॥

(अ. ४ पृ. ५०३)

लेखांक ३५७ - सुमतिनाथ मूर्ति

सं. १५५२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ७ शुके श्रीमूलसंघे भ. भुवनकीर्ति तत्पट्टे
भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात् हुंवड श्रेष्ठी पर्वत भार्या देऊ... ॥

(ना. ५१)

लेखांक ३५८ - तत्त्वज्ञान तरंगिणी

जातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसंघेग्रणी-
स्तत्पट्टेदयपर्वते रविरभूङ्गन्यांबुजानंदकृत् ।
विख्यातो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादकंजे रतः ।
तत्त्वज्ञानतरंगिणीं स कृतवानेतां हि चिद्भूषणः ॥ २१
यदैव विक्रमातीताः शतपंचदशाधिकाः ।
पष्टिः संवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥ २३

(अध्याय १८, सनातन ग्रंथमाला, कलकत्ता १९१६)

लेखांक ३५९ - पट्टावली

...दिङ्गिसिंहासनाधीश्वराणां, प्रतापाक्रान्तदिङ्गण्डलाखण्डनसमान-
भैरवनेन्द्रविहितातिभक्तिभाराणां, अष्टाङ्गसम्यक्त्वाद्यनेकगुणगणालंकृत-

श्रीमदिन्द्रभूपालमस्तकन्यस्तचरणसरोरुहाणां, ...श्रीदेवरायसमाराधितचरण-
वारिजानां, जिनधम्माराधकमुदिपालराय-रामनाथराय-बोमरसराय-कल्प-
राय-पाण्डुरायप्रभृतिअनेकमहीपालार्चितक्रमकमलयुगलानाम् ... महारक-
वर्यश्रीज्ञानभूषण-महारकदेवानाम् ॥

(भा. १ कि. ४ पृ. ४४)

लेखांक ३६० - विषापहार टीका

.....विषापहार इति व्यपदेशभाजोतिगहनगंभीरस्य सुखावबोधार्थं
बागढदेशमंडलाचार्यज्ञानभूषणदेवैर्मुहुरुरुद्धः कर्णाटादिराजसभाप्रसिद्धः
प्रवादिगजकेसरी विरुदकविमदविदारी सद्दर्शनज्ञानधारी नागचंद्रसूरिः
धनंजयसूर्यभिमतार्थं व्यक्तीकर्तुमशक्नुवन्नपि गुरुवचनमलंघनीयमिति
न्यायेन तदभिप्रायं विवरीतुं प्रतिजानीते ॥

(हि. १२ पृ. ८७)

लेखांक ३६१ - ऋषिमंडलपूजा

श्रीमन्नारुचरित्रपात्रगुणवच्छ्रीज्ञानभूषांभिभाग् ।
अर्हच्छासनभक्तिनिर्मलरुचिः पद्माजनुर्वा शुचिः ॥
वीरांतःकरणश्च चारुचरणे बुद्धिप्रवीणोरचत् ।
पूजां श्रीऋषिमंडलस्य महतीं नदी गुणादिर्मुनिः ॥

(जैन ग्रंथ रत्नाकर, बम्बई १९२६)

लेखांक ३६२ - शान्तिनाथ मूर्ति

विजयकीर्ति

सं. १५५७ वर्षे माघ षदि ५ गुरौ श्रीमूलसंघे...म. श्रीसकलकीर्ति
तत्पट्टे म. श्रीसुवनकीर्ति तत्पट्टे म. श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे म. श्रीविजयकीर्ति-
गुरुपदेशात् हूंबडज्ञातीय .. ॥

(वीसनगर, जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५३१)

लेखांक ३६३ - शान्तिनाथ मूर्ति

संवत् १५६० वैसाख सुदि २ बुधे श्रीमूलसंघे...म. ज्ञानभूषण तत्पट्टे

भ. विजयकीर्तिगुरुपदेशात् ह्रंवड ज्ञातीय श्रेष्ठी सालिंग भार्या तांक्... ॥

(अ. ४ पृ. ५०३)

लेखांक ३६४ - रत्नत्रय मूर्ति

संवत् १५६१ वर्षे वैसाख सुदि १० बुधे श्रीमूलसंघे भ. श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्तिगुरुपदेशात् लाडण... ॥

(ना. ५४)

लेखांक ३६५ - [पद्मनंदि पंचविंशतिका]

सं. १५६८ वर्षे फागुणमासे शुक्लपक्षे १० दिन गुरौ श्रीगिरिपुरे श्रीधादिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे...भ. श्रीज्ञानभूषण तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्ति तत्भगिनि आर्यिका देवश्री तस्यै पद्मनंदिपंचविंशतिका श्रीसंघेन लिखाप्य दत्ता ॥

(बडौदा, दा. पृ. ३४)

लेखांक ३६६ - पद्मावली

यः पूज्यो नृपमल्लिभैरवमहादेवेंद्रमुख्यैर्नृपैः
षट्कर्तागमशास्त्रकोविदमतिर्जाग्रधशश्वद्रमाः ।
भन्यांभोरुहभास्करः शुभकरः संसारविच्छेदकः
सोन्याच्छ्रीविजयादिकीर्तिमुनिपो भट्टारकाधीश्वरः ॥ ३६

(मा. १ कि. ४ पृ. ५४)

लेखांक ३६७ - अध्यात्मतरंगिणी टीका

शुभचंद्र

विजयकीर्तियतिर्जगतां गुरुर्विधृतधर्मधुरोद्धृतिधारकः ।
जयतु शासनभासनभारतीमयमतिर्दलितापरवादिकः ॥
शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्रविशदः संसारभीताशयो
भावाभावविवेकवारिधितरः स्याद्वादविद्यानिधिः ।
टीकां नाटकपद्यजां वरगुणाध्यात्मादिस्रोतस्विनीं
श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विधिवत् संचर्करीति स्म वै ॥
त्रिभुवनवरकीर्तेर्जातरूपात्तमूर्तेः शमदमयमपूर्तेराप्रहाभाटकस्य ।

विशदविभववृत्तो वृत्तिमाविश्रकार गतनयशुभचंद्रो ध्यानसिद्धयर्थमेव॥
विक्रमवरभूपालात् पंचत्रिंशते त्रिसप्ततिव्यधिके ।
वर्षेभ्याश्चिनमासे शुद्धे पक्षेथ पंचमीदिवसे ॥

[सनातन ग्रंथमाला, १५, कलकत्ता]

लेखांक ३६८ - पंचपरमेष्ठि मूर्ति

संवत् १६०७ वर्षे वैसाख वदी ३ गुरु श्रीमूलसंघे म. श्रीशुभचंद्र-
गुरुपदेशात् हुंवड संखेस्वरा गोत्रे सा. जिना... ॥

(पा. ने. जोहरापुरकर, नागपुर)

लेखांक ३६९ - करकंडुचरित्र

द्वष्टे विक्रमतः शते समइते चैकादशाब्दाधिके
भाद्रे मासि समुज्ज्वले समतिथौ खंगेजवाछे पुरे ।
श्रीमच्छ्रीवृषभेश्वरस्य सद्ने चके चरित्रं त्विदं
राज्ञः श्रीशुभचंद्रसूरियतिपश्रंपाधिपस्याद्भुतम् ॥

[म. ११, पृ. २६५]

लेखांक ३७० - कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका

श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे
माघे मासि दशमवह्निसहिते ख्याते दशम्यां तिथौ ।
श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीगुरोः
श्रीमच्छ्रीशुभचंद्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६
वर्णिश्रीक्षेमचंद्रेण विनयेनाकृत प्रार्थना ।
शुभचंद्रगुरो स्वामिन् कुरु टीकां मनोहराम् ॥ ७
तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिनाकृत प्रार्थना ।
सार्थीकृता समर्थेन शुभचंद्रेण सूरिणा ॥ ९
भट्टारकपदाधीश मूलसंघे विदां वराः ।
रमावीरेन्दुचिद्रूपगुरवो हि गणेशिनः ॥ १०

[जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२८]

लेखांक ३७१ - संशयिवदनविदारण

- अ. १ क्षुद्राधारहितत्वं हि जिनस्यानंतशर्मणः ।
एप्रव्यं भव्यसद्वर्गैः शुभचंद्रैश्चिदावहैः ॥
- अ. २ इत्यवादि च संवादान् स्त्रीनिर्वाणनिवारणम् ।
शुभचंद्रेण संक्षेपाद् विस्तारोऽन्यत्र लोक्यताम् ॥
- अ. ३ श्रीमतो वर्धमानत्याहूतेर्भूणस्य वारणम् ।
प्रणीतं शुभचंद्रेण जीयादाचंद्रतारकम् ॥

(हरीभाई देवकरण ग्रंथमाला, कलकत्ता १९२२)

लेखांक ३७२ - पद्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश

- जयति शुभचंद्रदेवः कंङ्कणपुंडरीकवनमार्तढः ।
चंडत्रिदंडदूरो राट्टांतपयोधिपारगो बुधविनुतः ॥

(भा. प्र. पृ. २१)

लेखांक ३७३ - अंगपण्णत्ती

- सिरिसयकलकित्तिपट्टे आसेसी भुवणकित्तिपरमगुरु ।
तप्पट्टकमलभाणू भडारओ वोहभूसणओ ॥
सिरिविजयकित्तिदेओ णाणासत्थप्पयासओ धीरो ।
बुहसेवियपयजुअलो तप्पयवरकलमसत्तो य ॥
तप्पयसेवणसत्तो तेवेज्जो उह्यभासपरिवेई ।
सुहचंदो तेण इणं रइयं सत्थं समासेण ॥

[सिद्धांतसारादिसंग्रह, माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई]

लेखांक ३७४ - नंदीश्वर क्रथा

- जगति जयति दक्षः पालितानेकपक्षः
सुगुरुविजयकीर्तिः प्रस्फुरत्सूरिमूर्तिः ।
चरणनलिनरक्तस्तस्य सद्भक्तियुक्तः
समकृत शुभचंद्रः सत्कथां भव्यचंद्रः ॥

(ना. २५)

लेखांक ३७५ - पांडवपुराण

विजयकीर्तियतिर्मुदितात्मको जितनतान्यमनःसुगतैः स्तुतः ।
 अवतु जैनमतं सुमतो मतो नृपतिभिर्भवतो भवतो विभुः ॥ ७०
 पट्टे तस्य गुणांबुधिर्ब्रतधरो धीमान् गरीयान् वरः
 श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विदितो वादीर्भसिंहो महान् ।
 तेनेदं चरितं विचारसुकरं चाकारि चंचद्रुचा
 पाण्डोः श्रीशुभसिद्धिसातजनकं सिद्धयै सुतानां सदा ॥ ७१
 चंद्रनाथचरितं चरितार्थं पद्मनामचरितं शुभचंद्रम् ।
 मन्मथस्य महिमानमतंद्रो जीवकस्य चरितं च चकार ॥ ७२
 चंदनायाः कथा येन हृत्वा नांदीश्वरी तथा ।
 आशाधरकृताचारवृत्तिः सद्रवृत्तिशालिनी ॥ ७३
 त्रिंशच्चतुर्विंशतिपूजनं च सद्रवृत्तिसिद्धार्चनमाव्यधत् ।
 सारस्वतीयार्चनमत्र शुद्धं चिंतामणीयार्चनमुच्चरिण्युः ॥ ७४
 श्रीकर्मदाहविधिवंधुरसिद्धसेवां नानागुणौघगणनाथसमर्चनं च ।
 श्रीपार्श्वनाथवरकाव्यसुपंजिकां च यः संचकार शुभचंद्रयतींद्रचंद्रः ॥
 उद्यापनमदीपिष्ठं पत्योपमविधेश्च यः ।
 चारित्रशुद्धितपसश्चतुस्त्रिंशद्वादशात्मनः ॥ ७६
 संशयवदनविदारणमपशब्दसुखंढनं परमतर्कं ।
 सत्तत्त्वनिर्णयं वरस्वरूपसंवोधिनीं वृत्तिं ॥ ७७
 अभ्यात्मपद्यवृत्तिं सर्वार्थापूर्वसर्वतोभद्रम् ।
 योक्तुं सद्बधाकरणं चिंतामणिनामधेयं च ॥ ७८
 कृता येनांगप्रज्ञप्तिः सर्वांगार्थप्ररूपिका ।
 स्तोत्राणि च पवित्राणि षड्वादाः श्रीजिनेशिनाम् ॥ ७९
 श्रीमद्विक्रमभूपतेर्द्विकहते स्पष्टाष्टसंख्ये शते
 रम्येष्टाधिकवत्सरे सुखकरे भाद्रे द्वितीयातिथौ ।
 श्रीमद्वाग्वरनिर्वृतीदमतुले श्रीशाकवाटे पुरे
 श्रीमच्छ्रीपुरुपाभिधे विरचितं स्थेयान् पुराणं चिरम् ॥ ८६

श्रीपालवर्णिना येनाकारि शास्त्रार्थसंग्रहे ।

साहाय्यं स चिरं जीयाद् वरविद्याविभूषणः ॥ ८२

(भा. १ कि. ४ पृ. ३७)

लेखांक ३७६ - १ मूर्ति

सुमतिकीर्ति

संवत् १६२२ वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीकुंदकुंदान्वये...म. श्रीविजय-
कीर्तिदेवाः तत्पट्टे म. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे म. सुमतिकीर्तिगुरूपदेशात्
हूमडझातीय गां. रामा भार्या वीरा... ॥

[अ. ४ पृ. ५०३]

लेखांक ३७७ - वेदी लेख

सं. १६२५ वर्षे पौष वदी ५ शुके श्रीमूलसंघे...म. शुभचंद्र तत्पट्टे
म. श्रीसुमतिकीर्तिगुरूपदेशात् हूमडझातीय गांधी नरपति... ॥

[तारंगा, दा. पृ. ७५]

लेखांक ३७८ - अजितनाथ मूर्ति

गुणकीर्ति

श्रीमूलसंघे संमत १६३१ वर्षे फाग सुदी १० सोमे म. श्रीगुणकीर्ति-
गुरूपदेशात् सं... ॥

(परवार मन्दिर, नागपुर)

लेखांक ३७९ १ मूर्ति

सं. १६३७ वर्षे वैशाख वदि ८ श्रीमूलसंघे म. श्रीगुणकीर्तिउपदेशात्
त्र. अलवा भार्या शहा सुत कदूवा नाकरठा...प्रणमति ॥

[भा. ७ पृ १४]

लेखांक ३८० - (जीवंधर राम)

सं. १६३९ वर्षे कार्तिकमासे सुकूपक्षे पंचमी रवौ । श्रीवाग्बरदेशे
श्रीसागवाडाशुभस्थाने श्रीआदिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे
घञ्जात्काराणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये म. श्रीपद्मनंदीदेवाः तत्पट्टे म. श्रीसकल-

कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे
भ. विजयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे श्रीसुमतिकीर्तिदेवाः
तत्पट्टे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीहरषा तत्पट्टे भ. श्रीशंकर
लख्यतं आत्मपठनार्थं ॥

[ना. ३६]

लेखांक ३८१ — श्रेणिकपृच्छा कर्मविपाक

शुभचंद्र जशचंद्रज कही सुमतिकीरति गुरु वंदू सही ।
श्रीगुनकीरति मट्टारक भने भणे सुणे इच्छित तेहने ॥ ७१

(ना. ६)

लेखांक ३८२ — [अध्यात्मतरंगिणी]

वादिभूषण

संवत् १६५२ वर्षे ज्येष्ठ द्वितीय कृष्ण दशम्यां शुक्ले मूलसंघे...
भ. श्रीसुमतिकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य पं. देवजी
पठनार्थं ॥

[जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२९]

लेखांक ३८३ — वासुपूज्य मूर्ति

संवत् १६५५ वर्षे वैशाख शुदी ६ शुक्ले भ. श्रीवादिभूषण गुरु
उपदेशात्... ॥

(का. १)

लेखांक ३८४ — १ मूर्ति

सं. १६५६ फागुण शुदि ३ गुरौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीवादिभूषणोपदे-
शात् श्रीमालज्ञातौ...

[का. ३]

लेखांक ३८५ — सुपार्श्वनाथ मूर्ति

रामकीर्ति

संमत १६७० वर्षे फाल्गुण वदी ५ शुभे श्रीमूलसंघे भ. श्रीरामकीर्ति

प्रतिष्ठितं सेनगणे वधेरवाल ज्ञातिय चवरिया गोत्रे सा. धारुजी भार्या
वोपाई... ॥

(परवार मन्दिर, नागपुर)

लेखांक ३८६ - पद्मप्रभ मूर्ति

संमत १६७० वर्षे फागुन वदी ५ शुके श्रीमूलसंघे भ. श्रीवादीभूषण
तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्तिगुरुपदेशात् अगर्वालज्ञातीय सं. ... ॥

(भा. १३ पृ. १३०)

लेखांक ३८७ - पार्श्वनाथ मूर्ति

पद्मनंदी

संवत् १६८३ वर्षे माघ शु. ५ गुरौ श्रीमूलसंघे... भ. श्रीरामकीर्ति
तत्पट्टे पद्मनंदिगुरुपदेशात् हूमड ज्ञातीय लघुशाखा खरजा गोत्रे सं. नाकर ॥

(भा. १४ पृ. २९)

लेखांक ३८८ - शांतिनाथ मूर्ति

संवत् १६८६ वर्षे वैशाख सुदी ५ बुधे शाके १५५१ वर्तमाने श्रीमूल-
संघे ... भ. श्रीवादिभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ.
श्रीपद्मनंदिगुरुपदेशात् पादशाह श्रीसाहजहां विजयरान्ये श्रीगुर्जरदेशे
श्रीअहमदावादवास्तव्य-हुंवड-ज्ञातीय-बृहच्छाखीय-वाग्बरदेशत्यांतरीय-
नगर-नौतनभद्र-प्रासादोद्धरणधीर-जाज सं. भोजा भार्या लकु... एतेषां
महासिद्धक्षेत्र-श्रीसेत्रुंजयरत्नगिरी-श्रीजिनप्रासाद-श्रीशांतिनाथविष कार-
यित्वा नित्यं प्रणमति । शुभं भवतु ॥

(जैनमित्र; २७-१-१९२०)

लेखांक ३८९ - (गणितसार संग्रह)

संवत् १७०२ वर्षे माह शुदि ३ शुके श्रीमूलसंघे... भ. श्रीसकलकीर्ति-
देवाः तदन्वये भ. श्रीवादिभूषण तत्पट्टे भ. श्रीरामकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदी
धिराजमाने आचार्यश्रीनरेंद्रकीर्ति तच्छिष्य ब्रम्ह श्रीलाड्यका तच्छिष्य
ब्रम्ह कामराज तच्छिष्य ब्रम्ह लालजी ताभ्यां श्रीरायदेशे श्रीमीलोढानगरे
श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये दोसी कुहा... दत्तं श्रीरस्तु ॥

[का. ६३]

लेखांक ३९० - [शब्दार्णवचंद्रिका]

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १७१३ वर्षे कार्तिक शुद्धि अष्टमी बुधे वाग्बरदेशे सागवाढानगरे श्रीआदीश्वरनवीनचैत्यालये राबल-श्रीपुंजराजविजयराज्ये श्रीमूलसंघे भ. श्रीरामकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः तदाज्ञाये मुनि श्रीश्रुतकीर्तिस्तच्छिष्य-मुनि श्रीदेवकीर्तिस्तच्छिष्या-चार्यश्रीकल्याणकीर्ति तच्छिष्य ब्रम्ह तेजपालेन स्वज्ञानावरणीयकर्मक्षयार्थं स्वपरपठनार्थं जैनैर्द्रमहान्याकरणं सवृत्तिकं लिखितं शोधितं च ॥

[सनातन ग्रन्थमाला, बनारस १९१५]

लेखांक ३९१ - [गणितसारसंग्रह]

संवत् १७२५ वर्षे कार्तिक शुद्धि १० भौमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे षळात्कारागणे भ. श्रीसकलकीर्त्यन्वये भ. श्रीवादिभूषणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्तिगुरुरूपदेशात् मुनिश्रीश्रुतकीर्ति तच्छिष्य मुनिश्रीदेवकीर्ति तच्छिष्याचार्य-श्रीकल्याणकीर्ति तच्छिष्य मुनिश्री त्रिभुवनचंद्रेणैवं षट्त्रिंशतिका गणितशास्त्रं कर्मक्षयार्थं लिखितं ॥

(का. ६५)

लेखांक ३९२ - ? स्मृति

क्षेमकीर्ति

सं. १७३४ वर्षे मूलसंघे...श्रीपद्मनंदी तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमकीर्ति शुद्धाज्ञाये वागढ देश शीतलवाढानगरे हूमड ज्ञातीय लघु-साखाया कमलेश्वरगोत्रे दोशीश्रीसूरदास... ॥

[दा. पृ. ७४]

लेखांक ३९३ - [अष्टसहस्री]

नरेंद्रकीर्ति

वत्से नेत्रषडशसोम १७६२ निहिते ज्येष्ठे च मासेनघे शुभ्रे पक्ष इति त्रयोदशदिने श्रीतक्षकाल्ये पुरे ।
नेमिस्वामिगृहे व्यलीलिखदिदं देवागमालंछतेः
पुस्तं पूज्यनरेंद्रकीर्तिसुगुरोः श्रीलालचंद्रो वदुः ॥

[अ. १० पृ. ७३]

लेखांक ३९४ - चरण पादुका

चंद्रकीर्ति

स्वस्तिश्री संवत् १८३२ शके १६८७ प्रवर्तमाने शुभकारक कल्याण-
मासे कृष्णपक्षे ३ तृतीया शुभस्थ तिथि शुक्रवासरे श्रीखड्गदेशे घूलेवग्रामे
श्रीऋषभदेवचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदा-
चार्यान्वये भ. श्रीसकलकीर्ति तत्पट्टे भुवनकीर्ति तदनुक्रमेण भ. श्रीक्षेमकीर्ति
तत्पट्टे श्रीनरेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीविजयकीर्ति तत्पट्टे भ. नेमिचंद्र तत्पट्टे भ.
श्री १०८ श्रीचंद्रकीर्ति प्रतिष्ठिते वाईजी श्रीसज्जुवाईके चतुरविंशति जिन-
पादुका स्थापितं शुभं ।

-(केशरियाजी, वीर २ पृ. ४६०)

लेखांक ३९५ - शिलालेख

यशःकीर्ति

देडारग देश मेवाडमे उदयापुर सुजान ।
राज करे तिह राजवी भीमसिंह राजान ॥
संवत् १८६३ मे अपाढ सुदी ३ तीज ।
गुरुवारो मुहूर्तज कच्यो भली तरे पूजा कीध ॥
मूलसंघ गछ सरस्वती वलात्कार गण धरचुडौ ।
कुंदकुंद सूरिवर भलौ सकलकीर्ति गछ ॥
ते पाटे गुरु शोभतो भुवनकीर्ति नमूं पाय ।
ज्ञानभूषण ते पाटे प्रगट विजयकीर्ति सूरि दृश्य ॥
शुभचंद्र सूरिवर सदा सुमतिकीर्ति गुणकीर्ति गुरु ।
गुपातिलु वादिभूषण तस पाट रामकीर्ति पाट शोभतो ॥
राख्यो धर्मेन ठाठ पद्मनंदि पाटे सुजस ।
देवेंद्रकीर्ति गुणधार खेमकीर्ति पर उज्वलो ॥
नरेन्द्रकीर्ति मनुहार विजयकीर्ति पट्टे गुरु ।
नेमिचंद्र भवतार चंद्रकीर्ति चंद्र समो ॥
रामकीर्ति सुखकार यशःकीर्ति सूरिवर सिंह ।
उदयो पुन्य अंकुर करी प्रतिष्ठां दुर्ग तणी ॥
जस व्याप्यो भरपूर वागढदेश सुहावनो ।
सागलपुर वर ग्राम संघपति साहर लिया ॥

(केशरियाजी, वीर २ पृ. ४६१)

बलात्कार गण - ईडर शाखा

इस शाखा का आरम्भ भ. सकलकीर्ति से हुआ। आप भ. पद्म-नन्दी के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा में आ चुका है। आप ने आयु के २५ वें वर्ष में दीक्षा ग्रहण की तथा २२ वर्ष दिग्म्वर मुनि के रूप में रहे। आप ने संवत् १४९० की वैशाख शु. ९ को एक चौबीसी मूर्ति, संवत् १४९२ की वैशाख कृ. १० को एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १४९४ की वैशाख शु. १३ को अबू पर्वत पर एक मन्दिर, संवत् १४९७ में एक आदिनाथ मूर्ति तथा संवत् १४९९ में सागवाडा में आदिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा की। सागवाडा में ही आप ने भ. धर्मकीर्ति का पट्टाभिषेक किया [ले. ३२९-३४]। आप ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पार्श्वपुराण, सुकुमारचरित. मूलाचारप्रदीप, आराधना आदि ग्रन्थों की रचना की [ले. ३३५-३९]।^{५७} आप के शिष्य ब्रह्म जिनदास ने संवत् १५१० की माघ शु. ५ को एक पंचपरमेष्ठी मूर्ति स्थापित की तथा गुणस्थान गुणमाला और ज्येष्ठ-जिनवरपूजा की रचना की [ले. ३४०-४२]।

सकलकीर्ति के पट्ट पर भुवनकीर्ति मट्टारक हुए। आप ने संवत् १५२७ की वैशाख कृ. ११ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. ३४३]। आप के शिष्य ब्रह्म जिनदास ने संवत् १५०८ की मार्गशीर्ष शु. ४ को रामायणरास की, तथा संवत् १५२० की वैशाख शु. १४ को हरिवंशरास की रचना की। इन रचनाओं में आप ने मल्लिदास और गुणदास इन शिष्यों का भी उल्लेख किया है [ले. ३४४-४५]। कर्मविपाकरास, धर्मपरीक्षारास, जम्बूस्वामीरास, जीवन्धररास, जसोधररास,

५७ सकलकीर्तिकृत महावीरपुराण और मुदर्शनचरित्र के हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित हुए हैं। इन के अलावा ग्रन्थमूक्तियों में इन के अनेक ग्रन्थों के नाम मिलते हैं। किन्तु निश्चितता के खयाल से यहां उन का उल्लेख छोड़ दिया है। सकलकीर्ति ने किसी ग्रन्थ में लेखनकाल या गुरुपरम्परा का उल्लेख नहीं किया है।

ये आप की अन्य रचनाएं हैं। “आप के शिष्य ब्रह्म गुणदास ने मराठी श्रेणिकचरित्र लिखा है [ले. ३५१]।”

म. भुवनकीर्ति के बाद म. ज्ञानभूषण पट्टाभूषण हुए। आप ने संवत् १५३४ में एक चाण्डियंत्र, संवत् १५३५ में एक रत्नत्रय मूर्ति, संवत् १५४२ की ज्येष्ठ शु. ८ को एक पद्मप्रम मूर्ति, संवत् १५४३ में एक रत्नत्रय मूर्ति, संवत् १५४४ में एक अन्य मूर्ति, तथा संवत् १५५२ की ज्येष्ठ कृ. ७ को एक सुमतिनाथ मूर्ति की स्थापना की (ले. ३५२-५७)। संवत् १५६० में आप ने तत्त्वज्ञानतरंगिणी की रचना की (ले. ३५८)। पट्टावली के अनुसार इन्द्रभूपाल, देवराय, मुदिपाल-राय, रामनाथराय, ब्रह्मरसराय, कल्पराय तथा पाण्डुराय ने “आप का सम्मान किया था [ले. ३५९]। आप के शिष्य नागचन्द्रसूरि ने विपापहारटीका की तथा गुणनन्दि ने ऋषिमंडलपूजा की रचना की [ले. ३६०-६१]।”

म. ज्ञानभूषण के पट्टाशिव्य म. विजयकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५५७ की माघ कृ. ५ को तथा संवत् १५६० की वैशाख शु. २ को शान्तिनाथ मूर्तियां तथा संवत् १५६१ की वैशाख शु. १० को रत्नत्रय मूर्ति स्थापित की [ले. ३६२-६४]। संवत् १५६८ की फाल्गुन शु.

५८ सकलकीर्ति के समान ब्रह्म बिनदास के ग्रंथों की संख्या भी काफी अधिक है। इन के विषय में पं. परमानन्द का एक लेख अनेकान्त वर्ष ११ पृ. ३३३ पर देखिए।

५९ म. भुवनकीर्ति के शिष्य ज्ञानकीर्ति से भानपुर परम्परा का आरम्भ हुआ था इस लिए उनका वृत्तान्त अगले प्रकरण में संगृहीत किया है।

६० ये कर्णाटक के स्थानीय शासक थे किन्तु इन के पृथक् निश्चित राज्य-काल ज्ञान नहीं हो सके।

६१ ज्ञानभूषण के विषय में देखिए— पं. नाथूराम प्रेमी का लेख (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ५२६) तथा पं. परमानन्द का लेख (अनेकान्त वर्ष १३ पृ. ११९)

१० को श्रीसंघ ने आप की भगिनी आर्यिका देवश्री के लिए पद्मनन्दि पंचविंशति की प्रति लिखवाई थी [ले. ३६५] । पट्टावली के अनुसार मल्लिराय, भैरवराय और देवेन्द्रराय ने "विजयकीर्ति" का सम्मान किया था [ले. ३६६] ।

विजयकीर्ति के शिष्य शुभचन्द्र भट्टारक हुए । आप ने त्रिभुवन-कीर्ति^{६१} के आग्रह से संवत् १५७३ की आश्विन शु. ५ को अमृतचन्द्र कृत समयसार कलशों पर परमाध्यात्मतरंगिणी नामक टीका लिखी ।

आप ने संवत् १६०७ की वैशाख कृ. ३ को एक पंचपरमेष्ठी मूर्ति स्थापित की । संवत् १६११ की भाद्रपद में आप ने करकण्डु चरित्र लिखा । क्षेमचंद्र और सुमतिकीर्ति के आग्रह से संवत् १६१३ की माघ शु. १० को आप ने हिसार में कार्तिकेयानुप्रेक्षा पर टीका लिखी । इस समय लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र और ज्ञानभूषण भट्टारक बलात्कार गण के विभिन्न पीठों पर विराजमान थे [ले. ३६७-७०] ।^{६२}

संशयिवदनविदारण, षड्दर्शनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश, अंगपण्णत्ती तथा नन्दीश्वर कथा ये आप की अन्य रचनाएँ हैं [ले. ३७१-७४] । संवत् १६०८ की भाद्रपद द्वितीया को सागवाडा में आप ने पाण्डवपुराण की रचना पूरी की । इस में वर्णी श्रीपाल ने आप को सहायता दी थी [ले. ३७५] । इस पुराण की प्रशस्ति से उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त, आप की १८ अन्य रचनाओं का पता चलता है जो इस प्रकार हैं—चन्द्रनाथचरित, पद्मनाथचरित, प्रबुद्धचरित, जीवन्धरचरित, चन्द्रना कथा,

६२ ये तीनों कर्णाटक के स्थानीय शासक होंगे । इन का निश्चित राज्यकाल शत नहीं हो सक्ता ।

६३ ये सम्भवतः जेरहट शाखा के पहले भट्टारक त्रिभुवनकीर्ति ही हैं ।

६४ ये तीनों क्रमशः सूरत के भट्टारक हुए हैं । किन्तु एक ही समय एक ही शाखा के तीन भट्टारकों का उल्लेख होना स्वाभाविक नहीं । अतः ज्ञानभूषण से यहाँ अद्वैत शाखा के ज्ञानभूषण का अभिप्राय समझना चाहिए ।

आशाधर कृत धर्माश्रित की वृत्ति, तीस चौबीसी पूजा, सिद्ध पूजा, सरस्वती पूजा, चिन्तामणि पूजा, कर्मदहनविधान, गणधरवलयपूजा, पार्श्वनाथकाव्य की पंजिका, पल्योपमविधान, चारित्रशुद्धि के १२३४ उपवासों का विधान, स्वरूपसम्बोधन की वृत्ति, चिन्तामणि सर्वतोभद्रव्याकरण, तथा अंगप्रज्ञप्ति ।

शुभचन्द्र के पट्ट पर सुमतिकीर्ति भट्टारक हुए । आप ने संवत् १६२२ की वैशाख शु. ३ को कोई मूर्ति तथा संवत् १६२५ की पौष कृ. ५ को तारंगा क्षेत्र पर एक वेदी की प्रतिष्ठा की [ले. ३७६-७७] ।

इन के बाद गुणकीर्ति भट्टारक हुए । आप ने संवत् १६३१ की फाल्गुन शु. १० को एक अजितनाथ मूर्ति तथा संवत् १६३७ की वैशाख कृ. ८ को एक अन्य मूर्ति प्रतिष्ठित की (ले. ३७८-७९) । आप के प्रशिष्य शंकर ने सागवाडा में संवत् १६३९ की कार्तिक शु. ५ को जीवंधर रास की एक प्रति लिखी [ले. ३८०] । गुणकीर्ति रचित श्रेणिकपृच्छा कर्मविपाक नामक रचना उपलब्ध है [ले. ३८१] ।

गुणकीर्ति के पट्ट पर वादिभूषण भट्टारक हुए । आप के शिष्य देवजी के लिए संवत् १६५२ की ज्येष्ठ कृ. १० को अभ्यात्मतरंगिणी की एक प्रति लिखी गई [ले. ३८२] । आप ने संवत् १६५५ की वैशाख शु. ६ को एक वासुपूज्य मूर्ति तथा संवत् १६५६ की फाल्गुन शु. ३ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की [ले. ३८३-८४] ।

वादिभूषण के बाद रामकीर्ति पट्टाधीश हुए । आप ने संवत् १६७० की फाल्गुन कृ. ५ को एक सुपार्श्व मूर्ति तथा एक पद्मप्रभ मूर्ति प्रतिष्ठित की [ले. ३८५-८६] ।

रामकीर्ति के पट्ट पर पद्मनन्दि भट्टारक हुए । आप ने संवत् १६८३ की माघ शु. ५ को पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की [ले. ३८७] । संवत् १६८६ की वैशाख शु. ५ को शाहजहाँ के राज्य काल में शत्रुंजय सिद्धक्षेत्र पर आप ने शान्तिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा की [ले. ३८८] ।

आप की आश्रय में ब्रह्मलालजी ने संवत् १७०२ की माघ शु. ३ को भीलोडा शहर में गणितसारसंग्रह की एक प्रति लिखी [ले. ३८९] ।

पद्मनन्दि के पट्ट पर देवेन्द्रकीर्ति आरूढ हुए । आप की आश्रय में ब्रह्म तेजपाल ने संवत् १७१३ की कार्तिक शु. ८ को सागवाडा में रावल पुंजराज के राज्यकाल में ६५ शब्दार्णवचन्द्रिका की प्रति लिखी [ले. ३९०] । तथा मुनि त्रिभुवनचन्द्र ने संवत् १७२५ की कार्तिक शु. १० को गणितसारसंग्रह की प्रति लिखी [ले. ३९१] ।

देवेन्द्रकीर्ति के बाद क्षेमकीर्ति पट्टाधीश हुए । आप ने संवत् १७३४ में सेटलवाड में एक मूर्ति स्थापित की [ले. ३९२] । आप के पट्टशिष्य नरेन्द्रकीर्ति हुए । इन के शिष्य लालचंद्र ने संवत् १७६२ में तक्षकपुर में अष्टसहस्री की प्रति लिखी [ले. ३९३] ।

नरेन्द्रकीर्ति के पट्ट पर क्रमशः विजयकीर्ति, नेमिचन्द्र और चन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए । चन्द्रकीर्ति ने संवत् १८३२ में केशरियाजी तीर्थक्षेत्र में चौबीस तीर्थकर्तों की चरणपादुकाएं स्थापित कीं [ले. ३९४] ।

चन्द्रकीर्ति के बाद रामकीर्ति और उन के बाद यशःकीर्ति भट्टारक हुए । आप के उपदेश से संवत् १८६३ की आषाढ शु. ३ को केशरियाजी मन्दिर के परकोट का निर्माण पूरा हुआ (ले. ३९५) ।^{६५}

६५ पुंजराज कोई स्थानीय शासक थे । इन का निश्चिन राज्यकाल ज्ञात नहीं ।

६६ म. शीतलप्रसादजी ने ईडर के भट्टारकों का जो वृत्तान्त दिया है उस में यशःकीर्ति के बाद क्रमशः सुरेन्द्रकीर्ति, रामकीर्ति कनककीर्ति और विजयकीर्ति का उल्लेख किया है । ईडर का हस्तलिखित शास्त्र भाण्डार बड़ा समृद्ध है । (दानवीर माणिकचन्द्र पृ. ३३)

बलात्कार गण-ईडर शाखा-कालपट

- १ पद्मनन्दि [उत्तर शाखा]
- २ सकलकीर्ति [संवत् १४५०-१५१०]
- ३ भुवनकीर्ति [संवत् १५०८-१५२७]
- ४ ज्ञानभूषण [संवत् १५३४-१५६०] ज्ञानकीर्ति [भानपुर शाखा]
- ५ विजयकीर्ति [संवत् १५५७-१५६८]
- ६ शुभचन्द्र [संवत् १५७३-१६१३]
- ७ सुमतिकीर्ति [संवत् १६२२-१६२५]
- ८ गुणकीर्ति [संवत् १६३१-१६३९]
- ९ वादिभूषण [संवत् १६५२-१६५६]
- १० रामकीर्ति संवत् [१६७०]
- ११ पद्मनन्दि [संवत् १६८३-१७०२]
- १२ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १७१३-१७२५]
- १३ क्षेमकीर्ति [संवत् १७३४]
- १४ नरेन्द्रकीर्ति [संवत् १७६२]
- १५ विजयकीर्ति
- १६ नेमिचन्द्र
- १७ चन्द्रकीर्ति [संवत् १८३२]
- १८ रामकीर्ति
- १९ यशःकीर्ति [संवत् १८६३]

१०. बलात्कार गण—भानपुर शाखा

लेखांक ३९६ — [पुण्यास्रव कथाकोष]

ज्ञानकीर्ति

संवत् १५३४ वर्षे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पंचमीदिवसे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये म. श्रीसकलकीर्तिदेवास्तत्पद्वे म. श्रीभुवनकीर्तिदेवास्तच्छिष्य स्थिवराचार्यश्रीज्ञानकीर्तिस्तदंते निवासी ब्रह्मदेवदासस्य पठनार्थं चीत्तुडा वास्तव्य नागद्रा ज्ञातीय श्रेष्ठि मदा भार्या पांचू... ॥

(पा. ५, १६४)

लेखांक ३९७ —

बागड देश मे देश सुहामणा जी खडक देश है बहुत ए गुलजारी ।
जिहां रेणुपुर नमबी सोभता है वहां रिषमनाथका देहरा बहुत भारी ॥
च्यार दिस के संघ ए नित्य आवे मंगल गावत है बहुत नर नारी ।
ज्ञानकीर्ति का सिष्य कुवेर बोले तीन लोकसु गत अद्भुत थारी ॥

[ना. १७]

लेखांक ३९८ — पट्टावली

जयति बोधसुकीर्तियतीश्वरो भुवनकीर्तिगुरुप्रियदीक्षितः ।

सकलशास्त्रसुशल्यनकोविदोभलहगादिमणित्रयराजितः ॥ ३५

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८)

लेखांक ३९९ — ऐतिहासिक पत्र

रत्नकीर्ति

रत्नकीर्ति हवा तेणे सं. १५३५ वर्षे श्रीनोगामे दीक्षा लीधी हती...
त्यारे रत्नकीर्तिने भट्टारक पदवी आपवातु स्थापन करी ॥

(मा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४०० — पट्टावली

तच्छिष्योभाद् रत्नकीर्ति. प्रवृद्धाचार्यो वर्यौदार्यगांभीर्ययुक्तः ।

ग्रंथैर्मुक्तो योवतीर्णः श्रुतार्णिव सोयं भव्यान् पातु संसारवाद्धौ ॥ ३६

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८)

लेखांक ४०१ - पड्डावली

यशःकीर्ति

श्रीरत्नकीर्तिपदपुष्करालिरादेष्टमुख्यो यशकीर्तिसूरिः ।

पादौ भजामि सुहृत्प्रेमूर्तिर्देदीप्यातां कौ मुनिचक्रवर्ती ॥ ३८

(उपर्युक्त)

लेखांक ४०२ - ऐतिहासिक पत्र

तार पुठे तेणानेक पाटे आचार्य यसकीर्ति नोगामे थाप्या तार पुठे
केटलाक मास दिवसे अनंतकीर्ति आदि लेईने जण ६३...दक्षिणदेसे गुरु-
पासे आह्ना लेईने विहार कच्यो ते आज दिवस सुदी दक्षिणदेशमाही
रत्नकीर्तिना पाटधर कहावे छे तेणाना पाट सुदी नम्र चाल्या आवे छे...
सं. १६१३ वर्षे जसकीर्तिये वागड माहे गाम भीलोढे फाल कच्यो ॥

(मा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४०३ - पड्डावली

गुणचंद्र

जीयाच्छ्रीकीर्तिकीर्तिस्फुरतरगुणयुक् सिहनंदी यतींद्रो ।

न्याख्याव्यामोहितार्यस्त्रिभुवनपतिभिः सेव्यपादारविंदः ॥ ३९

तच्छिष्यसूरिर्गुणचंद्रनामा न्यायागमाध्यात्मगुणैकधाम ।

साहित्यसलक्षणशास्त्रसीम जीयांद्धरिज्यां गुणरत्नवेशम ॥ ४०

[जैन सिद्धांत १७ पृ. ५८]

लेखांक ४०४ - अनंतनाथ पूजा

संवत् षोडशत्रिंशत्तैव्यपलके पक्षेवदाते त्रिथौ

पक्षत्यां गुरुवासरे पुरजिनेद् श्रीशाकमार्गे पुरे ।

श्रीमध्वुंचडवंशपद्मसचिता हर्षाख्यदुर्गी वणिक्

सोयं कारितवानंतजिनसत्पूजां वरे वाग्धरे ॥

श्रीरत्नकीर्तिभगवज्जगतां वरेण्यश्चारित्ररत्ननिबहस्य वभार भारं ।

तदीक्षितो यतिवरो यशकीर्तिकीर्तिश्चारित्ररंजितजनोद्धितासुकीर्तिः ॥

तच्छिष्यो गुणचंद्रसूरिरभवम्भारित्रचेतोहर-

स्तेनेदं धरपूजनं जिनवरानंतस्य युक्त्यारचि ॥

(दि. १४ पृ. ९६)

लेखांक ४०५ - ऐतिहासिक पत्र

तेणानो पाटे गाम सावळे.....समस्त संघ मिली आचार्य गुणचंद्र
स्थापना करवानी...सं. १६५३ वर्षे आचार्यश्रीगुणचंद्रजी सागवाडे काल
कन्यो ॥

[भा. १३ पृ. ११३]

लेखांक ४०६ - (षडावश्यक)

संवत् १६३९ वर्षे मार्गसिर शुदि १ शुके जेष्ठा नक्षत्रे वागढदेसे
सागवाढानगरे श्रीसंभवनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघेश्रीज्ञानकीर्ति तत्
शिष्याचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत् शिष्याचार्य श्रीयशकीर्ति तत् शिष्याचार्य
श्रीगुणचंद्रेणेदं पुस्तकं षडावश्यकस्य स्वशिष्य ब्र. हुंगरा पठनार्थं दत्तं ॥

[वीर २ पृ. ४७३]

लेखांक ४०७ - पट्टावली

सकलचंद्र

श्रीमूलसंघे गुणवान् गुणज्ञः श्रीवंशश्रीमान् गुणचंद्रसूरी ।
तत्पट्टधारी जिनचंद्रदेवः तस्येह पट्टे सकलेदुसूरी ॥ ४५

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९)

लेखांक ४०८ - भक्तामरवृत्ति

सकलेंदोर्गुरोर्भ्रातुर्यस्येति वर्णिनः सतः ।
पादस्नेहेन सिद्धेयं वृत्ति' सारसमुच्चया ॥
सप्तषष्ट्यंकिते वर्षे षोडशाख्ये हि संवते ।
आषाढश्वेतपक्षस्य पंचम्यां बुधवारके ॥
श्रीवापुरे महीसिंघोस्तटभागं समाश्रिते ।
प्रोक्तुंगदुर्गसंयुक्ते श्रीचंद्रप्रमसद्धानि ॥
वर्णिनः कर्मसीनाम्नो वचनान्मयकारचि ।
भक्तामरस्य सद्बृत्तिः रायमल्लेन वर्णिता ॥

[ना. ४६]

लेखांक ४०९ - ऐतिहासिक पत्र

गाम नोगामे लघु साजनामो संघ मलीनो आचार्य सकलचंद्र पाट
थाप्या सं. १६७० वर्षे आसोज सुदी ८ दिवसे आचार्य सकलचंद्र सागवाढे
समाधी मरण क्यो ॥

(भा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४१० - जिनचौवीसी

रत्नचंद्र

संवत् सोल चोत्तरे कवित रच्या संघारे पंचमी शुकर वारे
ज्येष्ठ वदि जाण रे ।

मूलसंघ गुणचंद्र जिनेंद्र सकलचंद्र मट्टारक रत्नचंद्र
बुद्धि गच्छ भाण रे ॥

त्रिपुरो पुर विराज खेतु नेतु अमराज भामा सो मोलख सज
त्रिपुरो वखाण रे ।

पीथो छाजू ताराचंद्र छीतर मरी बुनंद नाकु खेतु देव
छंद एहां के कल्याण रे ॥ २५

(प. १०)

लेखांक ४११ - ? मूर्ति

सं. १६७६ मूलसंघे भ. रत्नचंद्रोपदेशेन सीखण्य पा भाणिक भार्या
पाचही सुत पदारथ भार्या वत्ता सुत नोवा हेमा रत्ना प्रणमति ॥

(भा. ७ पृ. १४)

लेखांक ४१२ - पुष्पांजलि पूजा

विधुवसुरसद्राकौः प्रयुक्तैश्चतोर्चा
शरदि नभसि मासे रत्नचंद्रेश्वतुर्ध्या ।
धवलभृगुसुवारे सागवाढे युस्वः
जिनवृषभगणादिश्रावकादेशतोव्यात् ॥

(ना. ८७)

लेखांक ४१३- पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १६९२ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरु श्रीमूलसंघे भ. श्रीरत्नचंद्रोपदेशात् घोराया गोत्रे सं. रामा भार्या सोनाद्रे .. ॥

(प. १)

लेखांक ४१४ - ऐतिहासिक पत्र

त्यार पुठे सं. १६७० वैशाख सुदी ५ दिवसे श्रीसागवाढे समस्त संघ मलीने पाट आचार्यनु आपता हता देहरा जुना मध्ये तेणे समे वढे साजने जती तथा श्रावके राजवट करी जे हवे आचार्यनो पाट आपवा वेशुं नही... भ. रत्नचंद्र जी नता थई फणा महोत्सवसु वीहार कच्यो त्यार पुठे सं. १६९९ वर्षे जेठ सुदी ५ सोमवार भ रत्नचंद्र जीवता भ. हर्षचंद्र थाप्या गाम परतापोरे त्यार पुठे सं. १७०७ भ. रत्नचंद्रजी वैशाख वदी ४ ते नोगामे परोक्ष थया ॥

(मा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४१५ - पट्टावली

श्रीमूलसंघेजनि रत्नचंद्रो भट्टारकाणामधिपः कृतज्ञः ।

श्रीहेमकीर्तेर्वरलब्धपट्टः संज्ञापितश्चामरजित्प्रमुख्यैः ॥ ४९

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९)

लेखांक ४१६ - पट्टावली

हर्षचंद्र

पट्टे तदीये जयताजिताक्षो भट्टारको हर्षसुचंद्रनाम ।

षट्शास्त्रवेत्ता गुणरत्नवेदम खंडेरवालान्वयजो व्रतात्मा ॥ ५१

(उपर्युक्त)

लेखांक ४१७ - ऐतिहासिक पत्र

शुभचंद्र

त्यार पुठे शुभचंद्र थाप्या सं. १७२३ वैशाख वदी ५ श्रीघांटोल भ. शुभचंद्र थाप्या सं. १७४९ वर्षे आश्विन वदी १३ गाम मेलुडे भ. शुभचंद्र परोक्ष थया ॥

(मा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४१८ - पट्टावली

श्रीहर्षचंद्रस्य मुनेः सुपट्टे जिनागमाभ्याप्तसमस्ततत्त्वः ।

शुद्धेन शीलेन विराजमानो भट्टारकः श्रीशुभचंद्र आसीत् ॥ ५२

[जैन सिद्धांत १७ पृ. ५९]

लेखांक ४१९ - पट्टावली

अमरचंद्र

ज्ञानेश्वरस्य शुभचंद्रमुनीश्वरस्य सिंहासनेभरनरेश्वरबंधमाने ।

सर्वांगमार्थसुमहाणैवपारगामी दिव्यत्यसौ अमरचंद्रमहाशुनींद्रः ॥ ५३

(उपर्युक्त)

लेखांक ४२० - ऐतिहासिक पत्र

सं. १७४८ वर्षे माहा शुदी १० सोमवारे गाम भेलुडे भ. अमरचंद्रजी
गाम घाटयोल थाप्या ॥

(भा. १३ पृ. ११३)

लेखांक ४२१ - पट्टावली

रत्नचंद्र

मणिहर्षशुभेंदूनां पट्टेभूदमरेंदुजित् ।

तत्पादांभोजहंसोस्ति रत्नचंद्रो यतीश्वरः ॥ ५५

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ६०)

लेखांक ४२२ - मंदिर लेख

ॐ स्वस्ति विक्रमादित्यसमयातीत संवत् १७७४ वर्षे शके १६३९
प्रवर्तमाने माह सुदी १३ रवि श्रीदेवगढ नगरे महाराजाधिराज महारावत
श्रीपृथ्वीसिंहजी विजयराज्ये कुंवर श्रीपहाडसिंह विराजमाने श्रीमूलसंधे
बलात्कारणने श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. रत्नचंद्र तत्पट्टे भ हर्षचंद्र तत्पट्टे भ.
शुभचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीअमरचंद्र तत्पट्टे भ. श्रीरत्नचंद्रगुरुपदेशात् श्रीमत्
हंबडहातीय मंत्रीश्वरगोत्रे संघत्री वर्षावत भार्या नानी श्रीमहिनाथ प्रासाद
प्रतिष्ठा महामहोत्सवैः सह कराविता ॥

[देवगढ, दा. पृ. ६८]

लेखांक ४२३ - ऐतिहासिक पत्र

सं. १७८६ वर्षे माघ वदी ६ गाम कोठे देश हाडोली माहे भ. रत्न-चंद्रजी काल प्राप्त हुवा जी ॥

[मा. १३ पु. ११३]

लेखांक ४२४ - ऐतिहासिक पत्र

देवचंद्र

सं. १७८७ वैशाख शुदी १३ भ. देवचंद्रजी गाम भाणपुर स्थाप्या त्यार पुठे सं. १८०५ वर्षे गाम जांवूचरे भ. देवचंद्रजी माघ वदी ७ दिने काल प्राप्त थया जी ॥

पाट खाली छे पण आवक धर्मनी थापना दड राखी छे...कागद लखाववोजी सं. १८०५ वर्ष जेठ वदी ८ शनौ शोभादीने ॥

(उपर्युक्त)

बलात्कार गण - मानपुर शाखा

इस शाखा का आरम्भ म. ज्ञानकीर्ति से हुआ। आप म. भुवनकीर्ति के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त ईडर शाखामे आ चुका है। आप के शिष्य ब्रह्म देवदास के लिए संवत् १५३४ की फाल्गुन शु. ५ को पुण्याचव कथाकोप की एक प्रति लिखी गई (ले. ३९६)। आप के दूसरे शिष्य कुवेर ने रेणुपुरी के ऋषभनाथ मन्दिर की यात्रा का उल्लेख किया है (ले. ३९७)।

ज्ञानकीर्ति के बाद रत्नकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १५३५ नोगाम मे दीक्षा ली थी (ले. ३९९-४००)। आप के शिष्यों से अनन्तकीर्ति आदि ६३ लोग दक्षिण में गये थे जिन की परम्परा चलती रही (ले. ४०२)।

रत्नकीर्ति के बाद यशःकीर्ति नोगाम मे पट्टाभिषिक्त हुए। आप का स्वर्गवास भीलोडा में संवत् १६१३ में हुआ (ले. ४०२)।

यशःकीर्ति के बाद सिंहनन्दी^{६७} तथा उन के बाद गुणचन्द्र भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६३० में सागवाडा में हर्षसाह की प्रेरणा से अनन्तनाथपूजा की रचना की (ले. ४०४)। आप का पट्टाभिषेक सांभला गांव में तथा स्वर्गवास सागवाडा में संवत् १६५३ में हुआ (ले. ४०५)। संवत् १६३९ की मार्गशीर्ष शु. १ को पढावश्यक की एक प्रति आप ने अपने शिष्य डुंगरा को दी थी (ले. ४०६)।

गुणचन्द्र के बाद जिनचन्द्र और उन के पश्चात् सकलचन्द्र पट्टाधीश हुए। इन के बन्धु यश की कृपा से ब्रह्म रायमल्ल ने संवत् १६६७ की आपाढ शु. ५ को श्रीवार्धुरी में भक्तामरवृत्ति की रचना की (ले. ४०८)। सकलचन्द्र का पट्टाभिषेक नोगाम में और स्वर्गवास सागवाडा में संवत् १६७० मे हुआ (ले. ४०९)।

६७ यह धूलिया का संस्कृत रूप है। इसी का प्रसिद्ध नाम केशरिवाजी है।

६८ सम्भवतः इन्ही का उल्लेख ब्रह्म नेमिदत्त और ब्रह्म श्रुतसागर ने किया है (ले. ४६६, ४७२)।

६९ यह सम्भवतः मानपुर का संस्कृत रूपान्तर है जो अमरेली जिले में है।

इन के बाद रत्नचन्द्र भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६७४ की ज्येष्ठ कृ. ५ को जिन चौबीसी की रचना त्रिपुरा शहर में की। आप ने संवत् १६७६ में कोई मूर्ति स्थापित की तथा संवत् १६८१ में सागवाडा में पुष्पाजलि पूजा लिखी (ले. ४१०-१२)। संवत् १६९२ की वैशाख शु. ५ को एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ४१३)। आप का पट्टा-भिषेक संवत् १६७० में सागवाडा में हुआ उस समय अन्य शाखा के साधुओं ने उस का विरोध करने का प्रयास किया था। आप का स्वर्गवास संवत् १७०७ में नोगाम में हुआ (ले. ४१४)। आप का पट्टाभिषेक भट्टारक हेमकीर्ति^{७०} ने किया था (ले. ४१५)।

रत्नचन्द्र ने संवत् १६९९ की ज्येष्ठ शु. ५ को अपने पट्ट पर हर्ष-चन्द्र की स्थापना कर दी थी (ले. ४१४)। ये खण्डेलवाल जाति के थे (ले. ४१६)।

इन के पट्ट पर शुभचन्द्र संवत् १७२३ की वैशाख कृ. ५ को घांटोल ग्राम में आरूढ हुए। इन का स्वर्गवास मेलुडा ग्राम में संवत् १७४९ की आश्विन कृ. १३ को हुआ (ले. ४१७-१८)। इन के बाद संवत् १७४८ की माघ शु. १० को मेलुडा में अमरचन्द्र का पट्टाभिषेक हुआ (ले. ४२०)।

अमरचन्द्र के पट्ट पर रत्नचंद्र आरूढ हुए। इन के उपदेश से संवत् १७७४ की माघ शु. १३ को देवगढ में रावत पृथ्वीसिंह के राज्यकाल में^{७१} मल्लिनाथ मन्दिर का निर्माण संघवी वर्षावत ने किया (ले. ४२२)। रत्नचन्द्र का स्वर्गवास कोठा में संवत् १७८६ की माघ कृ. ६ को हुआ (ले. ४२३)।

रत्नचन्द्र के पट्ट पर संवत् १७८७ की वैशाख शु. १३ को भानपुर में भ. देवचन्द्र का अभिषेक हुआ। इन का स्वर्गवास जाम्बूचर ग्राम में संवत् १८०५ की माघ कृ. ७ को हुआ।

७० संवत् १६७० में कौन हेमकीर्ति भट्टारक थे यह हमें स्पष्ट नहीं हो सका।

७१ बुन्देले छत्रसाल के थे पौत्र थे। इन के पुत्र पहाडसिंह की मृत्यु सन १७६६ में हुई थी।

बलात्कार गण-भानपुर शाखा-काल पट

- १ भुवनकीर्ति (ईडर शाखा)
|
 - २ ज्ञानकीर्ति (संवत् १५३४)
|
 - ३ रत्नकीर्ति (संवत् १५३५)
|
 - ४ यशःकीर्ति (संवत् १६१३)
|
 - ५ गुणचन्द्र (संवत् १६३०-१६५३)
|
 - ६ जिनचन्द्र
|
 - ७ सकलचन्द्र (संवत् १६६७-१६७०)
|
 - ८ रत्नचन्द्र (संवत् १६७०-१७०७)
|
 - ९ हर्षचन्द्र (संवत् १६९९)
|
 - १० शुभचन्द्र (संवत् १७२३-१७४९)
|
 - ११ अमरचन्द्र (संवत् १७४८)
|
 - १२ रत्नचन्द्र (संवत् १७७४-१७८६)
|
 - १३ देवचन्द्र (संवत् १७८७-१८०५)
-

११. बलात्कार गण - सुरत शाखा

लेखांक ४२५ - १ मूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १४९३ शाके १३५८ वर्षे वैशाख वदि ५ गुरौ दिने मूलनक्षत्रे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीप्रभाचंद्र-देवाः तत्पट्टे वादिवादीन्द्र भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे श्रीदेवेंद्रकीर्तिदेवाः पौरपाटान्वये अष्टशाखे आहारदानदानेश्वर सिंघई लक्ष्मण तस्य भार्या अखयसिरी कुक्षिसमुत्पन्न अर्जुन... ॥

[देवगढ, अ. ३ पृ. ४४५]

लेखांक ४२६ - पट्टावली

त्रैविद्यविद्वज्जनशिखंडमंडनीयभवत्कायधरकमलयुगल-अवंतिदेशप्रतिष्ठो-पदेशक-सप्तशतकुटुंबरत्नाकरजाति-सुआवकस्थापक-श्रीदेवेंद्रकीर्तिशुभमूर्ति-भट्टारकाणाम् ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५०)

लेखांक ४२७ - चौवीसी मूर्ति

सं. १४९९ वर्षे वै. सुदी २ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे मुनि-देवेंद्रकीर्ति तत्शिष्य श्रीविद्यानंदीदेवा उपदेशात् श्रीहुंबडवंश शाह-खेता भार्या रुही ..एतेषां मध्ये राजा भग्नी राणी श्रेया चतुर्विंशतिका कारापिता ॥

(सुरत, दा. पृ. ५४)

लेखांक ४२८ - मेरु मूर्ति

सं. १५१३ वर्षे वैशाख सुदी १० बुधे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीपद्मनंदी तत् शिष्य श्रीदेवेंद्र-कीर्ति दीक्षिताचार्य श्रीविद्यानंदि गुरुपदेशात् गांधार वास्तव्यः हुंबडजातीय समस्तश्रीसंघेन कारापित मेरु शिखरा कल्याण भूयात् ॥

[सुरत, दा. पृ. ४३]

लेखांक ४२९ - चौबीसी मूर्ति

सं. १५१३ वर्षे वैशाख सुदी १० बु. आचार्यश्रीदेवेंद्रकीर्तिशिष्य श्रीविद्यानंदी देवादेशात् काष्ठासंघे हुमड वंशे श्रेष्ठी काना भार्या वारु... स्वश्रेयोय श्रीजिनर्विच कारापितम् श्रीघोषा वेलातट वास्तव्य श्रीमूलसंघीय अर्जिका संयमश्रीश्रेयार्थम् ॥

(सूरत, दा. पृ. ५०)

लेखांक ४३० - १ मूर्ति

संवत् १५१८ वर्षे श्रीमूलसंघे आचार्यश्रीविद्यानंदिगुरुपदेशात् सिद्धपुराज्ञाति श्रेष्ठी गाई... ॥

(बाळापुर, अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ४३१ - १ मूर्ति

(सं.) १५१८ माघ सु. ५ बुधवार देवेंद्रकीर्ति शिष्य विद्यानंदि उपदेशी हुमडवंसे समघर भार्या जीवीना पुत्री नवकरण... ॥

(रादेर, दा. पृ. २९)

लेखांक ४३२ - चौबीसी मूर्ति

सं. १५२१ वर्षे वैशाख वदि २ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कार-गणे श्रीविद्यानंदिगुरुपदेशात् श्रीराइकवाल ज्ञातीय... श्रीचंद्रप्रभ चतुर्विंशति नित्यं प्रणमंति ॥

(ना. ३७)

लेखांक ४३३ - १ मूर्ति

(सं.) १५३७ वैशाख सुदी १२ देवेंद्रकीर्तिपदे विद्यानंदि हुमड ज्ञातीय श्रेष्ठी चांपा ॥

(रादेर, दा. पृ. २९)

लेखांक ४३४ - सुदर्शनचरित

वंदे देवेंद्रकीर्ति च सूरिवर्य दयानिधि ।

मद्गुरुर्यो विशेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादकृत् ॥

तमहं भक्तितो वंदे विद्यानंदी सुसेवकः ।

ग्रंथसंख्या १३६२ संवत् १५९१ वर्षे आषाढमासे शुद्धपक्षे लिखितं ॥

[म. प्रा. पृ. ७६०]

लेखांक ४३५ - [पंचास्तिकाय]

स्वस्ति श्रीमूलसंघे हुंबड ज्ञातीय सा. कान्हा भार्या रामति...एतेषां मध्ये सा. लखराजेन मोचयित्वा पंचास्तिकायपुस्तकं श्रीविद्यानंदिने ज्ञानान्वरणीकर्मक्षयार्थं दत्तं शुभं भवतु ।

(का. ४१२)

लेखांक ४३६ - हनुमच्चरित्र

- अजित

जैनैर्द्रशासनसुधारसपानपुष्टो देवैर्द्रकीर्तियतिनायकनैष्ठिकात्मा ।
तच्छिष्यसंयमधरेण चरित्रमेतत् स्रष्टं समीरणसुतस्य महर्षिकस्य ॥ ९१
गोलाशृंगारवंशे नमसि दिनमणिर्वीरसिंहो विपश्चित् ।
भार्या वीषा प्रतीता तनुरुहविदितो ब्रह्मदीक्षाश्रितोभूत् ॥
तेनोच्चैरेव ग्रंथः कृत इति सुतरां शैलराजस्य सूरः ।
श्रीविद्यानंदिदेशात् सुकृतविधिवशात् सर्वसिद्धिप्रसिद्धयै ॥ ९३
इदं श्रीशैलराजस्य चरितं दुरितापहं ।
रचितं भृगुकच्छे च श्रीनेमिजिनमंदिरे ॥ ९४
प्रमाणमस्य ग्रंथस्य द्विसहस्रमितं बुधैः ।
श्लोकानामिह मन्तव्यं हनुमच्चरिते शुभे ॥ ९७

(मा. प्र. पृ. ७)

लेखांक ४३७ - धनकुमारचरित

गुणभद्र

संवत् १५०१ वर्षे माघमासे शुद्धपक्षे राकायां तिथौ बुधे अचोह भृगुकच्छपत्तने श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छांभोजदिनमणि भः श्रीपद्मनंदि-
देवास्तच्छिष्यो विख्यातकीर्तिमुनिश्रीदेवैर्द्रकीर्तिदेवस्तच्छिष्यः सकलकलो-
द्भवमुनिश्रीविद्यानंदिदेवस्तच्छिष्यब्रह्मचारिणाहडेन स्वकर्मक्षयार्थं श्रीधन-
कुमारचरितं लिखापितं ॥

[म. प्रा. पृ. ७३४]

लेखांक ४३८ - ? मूर्ति

संवत् १५०५ वर्षे श्रीमूलसंघे भ. पद्मनंदिदेवा शिष्य देवेन्द्रकीर्ति
तत्शिष्याः विद्यानंदि शिष्य ब्रह्म धर्मपाल उपदेशात् पल्लीवालज्ञातीय
स. राना भार्या रानी सुत पारिसा भार्या हर्षे प्रणमन्ति ॥

[सिंदि, अ. ०४ पृ. ५०२]

लेखांक ४३९ - पट्टावली

तत्पट्टोदयसूर्य-आचार्यवर्य-नवविधब्रह्मचर्यपवित्र-चर्यामंदिर-राजा-
धिराजमहामंडलेश्वरवप्रांग-गंग-जयसिंह-व्याघ्रनरेंद्रादिपूजितपादपद्मानां
अष्टशाखा-प्राग्वाटवंशावतंसानां पद्मपाकविचक्रवर्ति-भुवनतलव्याप्त-
विशदकीर्ति-त्रिंशद्विद्याप्रसादसूत्रधार-सद्ब्रह्मचारिशिष्यवरसूरिश्रीश्रुत-
सागरसेवितचरणसरोजानां श्रीजिनयात्राप्रसादोद्धरणोपदेशनैकजीवप्रति-
बोधकानां श्रीसम्भेदगिरिचंपापुरिपावापुरीऊर्जयंतगिरीअक्षयवड आदीश्वर-
दीक्षासर्वसिद्धेश्वरकृतयात्राणां श्रीसहस्रकूटजिनविंबोपदेशक-हरिराजकुलो-
द्योतकराणां श्रीविद्यानंदीपरमाराध्यस्वामिभट्टारकाणाम् ॥

(चैन सिद्धांत. १७ पृ. ५१)

लेखांक ४४० - मेघमाला व्रत कथा

सत्यं वाचि हृदि स्मरन्मथमतिर्मोक्षाभिलाषोत्तरे ।
श्रोत्रं साधुजनोक्तिषु प्रतिदिनं सर्वोपकारः करे ॥
यस्यानंदनिधेर्बभूव स विमुर्विद्यादिनंदी मुनिः ।
संसेव्यः श्रुतसागरेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥ ५१

(से. १९)

लेखांक ४४१ - सप्तपरमस्थान कथा

सद्ब्रह्मभट्टारकवर्णनीयः चेतो यतीनामभिवंर्णनीयः ।
विद्यादिनंदी गुणभूतदीयः सम्यग्जयत्येष गुरुर्मदीयः ॥ १६२
मया तदादेशवशेन-धीमतां प्रकाशितेयं-सहतां बृहत्कथा ।
पिबंतु तां कर्णसुधां बुधोत्तमा महानुभावाः श्रुतसागरश्रिताः ॥ १६३

(से. २०)

लेखांक ४४२ - ज्येष्ठ जिनवर कथा

आसीदसीममहिमा मुनिपद्मनन्दी देवेंद्रकीर्तिगुरुरस्य पदे सदेकः ।
 तत्पट्टविष्णुपदपूर्णशशांकमूर्तिः विद्यादिर्नदिगुरुरत्र पवित्रचित्तः ॥ ७५
 गुणरत्नभूतो वचोमृताढ्यः स्याद्वादोर्मिसहस्रशोभितात्मा ।
 श्रुतसागर इत्यमुंष्य शिष्यः स्वाख्यानं रचयांचकार सूरिः ॥ ७६
 अप्रोतकान्वयशिरोमुकुटाद्यमानः संघाधिनाथविमलूरिति पुण्यमूर्तिः ।
 भार्यास्य धर्ममहती बृहतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवद्यमर्हेंद्रदत्तम् ॥ ७७
 वैराग्यभावितमनाः स जिनूहदिष्टः श्रीमूलसंघगुणरत्नविभूषणोभूत् ।
 देशव्रतिष्वतितरां व्रतशोभितात्मा संसारसौख्यविमुखः सुतपोनिधिर्वा ॥
 पुत्रोस्य लक्ष्मण इति प्रणतीर्गुरूणां कुर्वन्नकास्ति विदुषां धुरि वर्णनीयः ।
 अभ्यर्च्य कारितमिदं श्रुतसागराख्यमाख्यानकं चिरतरं शुभदं समस्तु ॥७९

[से. १]

लेखांक ४४३ - रविवार व्रतकथा

भट्टारकघटामध्ये यत्प्रतापो विराजते ।
 तारास्त्रिव रवेः श्रीदो विद्यानन्दीश्वरोस्ति मे ॥ १६३
 प्रमाणलक्षणच्छंदोल्कारमणिर्मण्डितः ।
 पंडितस्तस्य शिष्योभूत् श्रुतरत्नाकराभिधः ॥ १६४
 गुरोरेनुज्ञामधिगम्य धीघनः चकार संसारसमुद्रतारकं ।
 स पार्श्वेनाथव्रतसत्कथानकं सतां नितान्तं श्रुतसागराभिधः ॥१६५

(से. २)

लेखांक ४४४ - चंदनपष्ठी कथा

स्वस्ति श्रीमूलसंघे भवदमरनुतः पद्मनन्दी शुनीन्द्रः ।
 शिष्यो देवेंद्रकीर्तिलसदमलतपा भूरिभट्टारकेज्यः ॥
 श्रीविद्यानन्दिदेवस्तदनु मनुजराजाचर्यपत्यद्वायुगमः ।
 तच्छिष्येणारचीदं श्रुतजलनिधिना शास्त्रमानंदहेतुः ॥ ९६

(से. ४)

लेखांक ४४५ - आकाशर्षचमी कथा

वाचां लीलावतीनां निधिरमलतपःसंयमोदन्त्रदिंदुः ।
 श्रीविद्यानंदिसूरिर्जयति जगति नाकौकसां पूज्यपादः ॥ १०३
 तस्य श्रीश्रुतसागरेण विदुषां वर्येण सौंदर्यवन् ।
 शिष्येणारचि सत्कथानकमिदं पीयूषवर्षोपमम् ॥ १०४

[सं. ६]

लेखांक ४४६ - पुष्पांजलि कथा

स्वस्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छेगिमूर्च्छिच्छे ।
 भारत्याः परमार्थपंडितस्तुतो विद्यादिनंदी गुरुः ॥
 तत्पादांबुजयुग्ममनमघुलिद् चक्रे न वक्रागयः ।
 सद्देवाः श्रुतसागरः शुभमुपाख्यानं न्तुतस्तार्किकैः ॥ ७१

[सं. ९]

लेखांक ४४७ - निर्दुःख सप्तमी कथा

सकलसुवनमान्द्रमूपणं मन्त्रमेव्यः ।
 समलानि कृत्तिविद्यानंदिनामा सुनींद्रः ॥
 श्रुतसमुपपदाद्यः सागरस्तस्य सिद्धयै ।
 शुचिविधिभिममेय द्योतयामास शिष्यः ॥ ४३

(सं. १०)

लेखांक ४४८ - श्रवणद्वादशी कथा

विद्यानंदिसुनींद्रचंद्रचरणांभोजातपुष्पंघयः ।
 शब्दद्वयः श्रुतसागरो यतिवरोसौ चारु चक्रे कथाम् ॥ ४०

(सं. १३)

लेखांक ४४९ - रत्नत्रय कथा

सर्वज्ञसारगुणरत्नविभूषणोन्नौ विद्यादिनंदिगुरुरुद्धतरप्रसिद्धिः ।
 शिष्येण तस्य विदुषा श्रुतसागरेण रत्नत्रयस्य सुकथा कथितात्मसिद्धयै ॥ ८२

(सं. १४)

लेखांक ४५० - षोडशकारण कथा

श्रीमूलसंघे विबुधप्रपूज्ये श्रीकुंदकुंदान्वय उत्तमेस्मिन् ।
 विद्यादिनंदी भगवान् वभूव स्ववृत्तसारश्रुतसारमाप्तः ॥ ६७
 तत्पादभक्तः श्रुतसागराहो देशव्रती संयमिनां वरेण्यः ।
 कल्याणकीर्तिसुहृदराग्रहेण कथाभिमां चारु चकार सिद्धयै ॥ ६८

[से. ३]

लेखांक ४५१ - मुक्तावली कथा

विद्यानंदिसुनीश्वरो विजयते चारित्ररत्नाकरः ॥ ७७
 ..तच्छिष्यः श्रुतसागरो विजयते मुक्तावलीकृद्यतिः ॥ ७८
 जातो हुंबडवंशमंडनमणिः श्रीगायियाख्यः कृती ।
 कांताशीरिति तस्य सद्गुरुमुखोद्भूतेव कल्याणकृत् ॥
 पुत्रोस्यां मतिसागरो मुनिरमूद् भव्यौघसंबोधकः ।
 सोयं कारयति स्म निर्मलतपाः शाखं चिरं नंदतु ॥ ७९

[से. ११]

लेखांक ४५२ - मेरुपंक्ति कथा

विद्यादिनंदिगुरुरुद्धगुणोमरेद्र-
 संसेवितो यतिवरःश्रुतसागरेऽख्यः ॥ ४३
 तद्भक्ता जिनधर्मरक्तधिवणा श्रीलक्ष्मराजात्मजा ।
 सत्पुण्यैरजितोदरे गुणवती सौवर्णिकाभूत् सुता ॥
 संप्रार्थ्यं श्रुतसागरं यतिवरं श्रीमेरुपंक्तेः कथां ।
 साध्वी कारयति स्म सा जिनपदांभोजालिनी नंदतु ॥ ४४

[से. १७]

लेखांक ४५३ - लक्षणपंक्ति कथा

गंधारनगरे रम्ये लखराजाजितात्मजा ।
 श्रीराजभगिनी माता मुनीनां स्वर्णिका भवेत् ॥ ३८
 मृगांकश्रेष्ठिनः पुत्री स्वसा जीवकसंज्ञिनः ।

ढोसीतिकी सुता लोके रता सद्धर्मकर्मणि ॥ ३९
 कारयामास तुग्भव्यः श्रीराजः करणश्रियः ।
 प्रेरिको भवति स्मात्र चिरं जीवतु तत्रयम् ॥ ४१
 देवेंद्रकीर्तिगुरूपट्टसमुद्रचंद्रो विद्यादिनंदिसुदिगंबर उत्तमश्रीः ।
 तत्पादपद्ममधुपः श्रुतसागरोयं ब्रह्मव्रती तप इदं प्रकटीचकार ॥ ४२

[से. १८]

लेखांक ४५४ - औदार्यचिंतामणि व्याकरण

अथ प्रणम्य सर्वज्ञं विद्यानंद्यास्पदप्रदम् ।
 पूज्यपादं प्रवक्ष्यामि प्राकृतव्याकृतिं सनाम् ॥
 ...समन्तभद्रैरपि पूज्यपादैः कलंकमुक्तैरकलंकदेवैः ।
 यदुक्तमप्राकृतमर्थसारं तत्प्राकृतं च श्रुतसागरेण ॥

[हि. १५ पृ. १५४]

लेखांक ४५५ - तत्त्वत्रयप्रकाशिका

आचार्यैरिह शुद्धतत्त्वमतिभिः श्रीसिंहनंद्याह्वयैः ।
 संप्राथ्यं श्रुतसागरं कृतधरं भाष्यं शुभं कारितं ॥
 गद्यानां गुणवत् प्रियं गुणवतो ज्ञानार्णवस्यांतरे ।
 विद्यानंदिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम् ॥

[हि. १५ पृ. २२२]

लेखांक ४५६ - महाभिषेकटीका

श्रीविद्यानंदिगुरोर्बुद्धिगुरोः पादपंकजभ्रमरः ।
 श्रीश्रुतसागर-इति देशव्रतितिलकष्टीकते स्मेदं ॥

[पट्टप्राभृतादिसंग्रह, प्रस्तावना पृ. ६]

लेखांक ४५७ - श्रुतस्कंधपूजा

सुदेवेंद्रकीर्तिश्च विद्यादिनंदी गरीयान्गुरुर्महदादिप्रबन्दी ।
 तयोर्विद्धि मां मूलसंघे कुमारं श्रुतस्कंधमीडे त्रिलोकैकसारम् ॥
 सम्यक्त्वसुरत्नं सद्गतयत्नं सकलजंतुकरुणाकरणम् ।

श्रुतसागरमेतं भजत समेतं निखिलजने परितः शरणम् ॥

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४१२)

लेखांक ४५८ - पद्मावती मूर्ति

मल्लिभूषण

सं. १५४४ वर्षे वैशाख शुद्धी ३ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमल्लिभूषण श्रीस्तमतीर्थे हुंबह ज्ञातेय श्रेष्ठी चांया भार्या रूपिणी तत्पुत्री श्रीआर्जिका रत्नसिरी क्षुल्लिका जिनमती श्रीविद्यानंदीदीक्षिता आर्जिका कल्याणसिरी तत्त्वल्ली अप्रोतका ज्ञातो साह देवा भार्या नारिंगदे पुत्री जिनमती नत्सही कारापिता प्रणमति श्रेयार्थम् ॥

(सूरत, दा. पृ. ४३)

लेखांक ४५९ - (पंचास्तिकाय)

भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमल्लिभूषणेन आचार्यश्रीअमर-
कीर्तये प्रदत्तं ॥

[का. ४१२]

लेखांक ४६० - [सावयधम्मदोहा पंजिका]

इति उपासकाचारे आचार्यश्रीलक्ष्मीचंद्रविरचिते दोहकसूत्राणि समा-
प्तानि । स्वस्ति संवत् १५५५ वर्षे कार्तिक सु. १५ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वती-
गच्छे वलात्कारगणे अभयविद्यानंदिपट्टे मल्लिभूषण तत्शिष्य पं. लक्ष्मण-
पठनार्थं दोहा श्रावकाचार ॥

(सावयधम्मदोहा प्र. पृ. ११)

लेखांक ४६१ - पट्टावली

तत्पट्टेदयाचलवालभास्कर-प्रवरपरवादिगजयूथकेसरि-मंडपगिरिमंत्र-
वादसमस्याप्तचंद्रपूर्णाविकटवादि-गोपाचलदुर्गमेघाकर्पकभाविकजन-सस्यामृत-
वाणिवर्षण-सुरेंद्रनागेंद्रमृगेन्द्रादिसेवितचरणारविदानां ग्यासदीनसभामध्य-
प्राप्तसन्मान-पद्मावत्युपासकानां श्रीमल्लिभूषणमहारफवर्याणाम् ॥

(जैन सिद्धान्त १७ पृ. ५१)

लेखांक ४६२ -- अक्षयनिधान कथा

गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्वते विश्रुते ।
 विद्वन्मान्यतमप्रसह्यसुगुणे स्वर्गापवर्गप्रदे ॥
 विद्यानंदिगुरुर्वभूव भविकानंदी सतां संमतः ।
 तत्पट्टे मुनिमल्लिभूषणगुरुर्महारको नंदतु ॥ ८७
 तर्कव्याकरणप्रवीणमतिना तस्योपदेशाहित-
 स्वांतेन श्रुतसागरेण यतिना तेनामुना निर्मितं ।
 श्रेयोधाम निकाममक्षयनिधिस्वेष्टव्रतं धीमतां
 कल्याणप्रदमस्तु शास्तु मतिमानेतद्विदां संसुदे ॥ ८८

(सं. २२)

लेखांक ४६३ -- पत्यविधान कथा

तत्यादपंकजरजोरोचितोत्तमांगः

श्रीमल्लिभूषणगुरुर्विदुषां वरेण्यः ॥ २४०

सर्वज्ञशासनमहामणिमंडितेन तस्योपदेशवशिना श्रुतसागरेण ।
 देशत्रतिप्रभुतरेण कथेयमुक्ता सिद्धि ददातु गुरुभक्तिविभावितेभ्यः ॥ २४१
 श्रीभानुभूपतिभुजासिजलप्रवाहनिर्ममशत्रुकुलजाततत्प्रभावे ।
 सद्बुध्यहंबृहकुले बृहतीलदुर्गे श्रीभोजराज इति मंत्रिवरो बभूव ॥ २४२
 भार्यास्य सा विनयदेव्यभिधा सुधौघसोद्गारवाक्कमलिकांतमुखी सखीव ॥

सासूत पूतगुणरत्नविभूषितांगं श्रीकर्मसिंहमिति पुत्रमनूकरत्नं ।

कालं च शत्रुकुलकालमनूनपुण्यं श्रीघोघरं नतराघगिरौद्रवज्रं ॥ २४४

...तुर्यं च वर्यतरमंगजमत्र गंगं जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसैषां ॥ २४५

...यात्रां चकार गजपंथगिरौ ससंचा ह्येतत्तपो विदधती सुदृढव्रता सा ॥ २४७

तुंगीगिरौ च बलभद्रमुनेः पदाब्जभृंगी तथैव सुकृतं यतिभिश्चकार ।

श्रीमल्लिभूषणगुरुप्रवरोपदेशात् शास्त्रं व्यधापयदिदं कृतिनां हृदिष्टं ॥ २४८

[सं. २१]

लेखांक ४६४ -- मंगलाष्टक

सिंहनंदि

इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं श्रीमूलसंघेऽनघे

श्रीभट्टारकमल्लिभूषणगुरोः शिष्येण संवर्णितम् ।
 नित्यं ये च पठन्ति निर्मलधियः संग्राह्य ते संपदां
 सौख्यं तारतरं भजन्ति नितरां श्रीसिंहनंदिस्तुतं ॥ १९

(म. २३)

लेखांक ४६५ - माणिकस्वामी विनती

पुरे मनोरथ जगि सार कर जोडि गुरु सिंहनंदि भणिण ।
 तेहनि पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिण ॥ १४

(म. ५९)

लेखांक ४६६ - आराधना कथाकोश

विद्यानंदिगुरुप्रपट्टकमल्लोह्लासप्रदो भास्करः ।
 श्रीभट्टारकमल्लिभूषणगुरुर्भूयात् सतां शर्मणे ॥
 ...कुर्याच्छर्म सतां प्रमोदजनकः श्रीसिंहनंदि गुरुः ।
 ...जीयान्मे सूरिवर्यो व्रतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुताब्धिः ।
 तेषां पादपयोजयुग्मकृपया श्रीजैनसूत्रोचिताः
 सम्यग्दर्शनबोधवृत्ततपसामाराधनासत्कथाः ।
 भव्यानां वरशान्तिकीर्तिविलसत्कीर्तिप्रमोदं श्रियं
 कुर्युः संरक्षिता विशुद्धशुभदाः श्रीनेमिदत्तेन वै ॥

(जैनमित्र कार्यालय, चम्बई १९१५)

लेखांक ४६७ - अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पूजा

अर्च्य श्रीपुरपार्श्वनाथचरणांमोजद्वयायोत्तमं
 श्रीभट्टारकमल्लिभूषणगुरोः शिष्येण संवर्णितं ।
 तोयाद्यैर्वरनेमिदत्तयतिना स्वर्णादिपात्रस्थितं
 भक्त्या पंडितराघवस्य वचसा कर्मक्षयार्थी ददे ॥

(म. ५६)

लेखांक ४६८ - [नागकुमारचरित]

लक्ष्मीचंद्र

संवत् १५५६ वर्षे चैत्र शुदि १ शनावद्येह शोधनौघदंग श्रीजिन-

चैत्यालये श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपद्मनंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्र-
कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमल्लिभूपणदेवाः
तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीचंद्रोपदेशात् हंसपत्तने श्रेहादा...एतेषां श्रीसांगणकेन
लिखापितं ॥

(प्रस्तावना पृ. १३, कारंजा जैन सीरीज १९३३)

लेखांक ४६९ - [महापुराण-पुष्पदंत]

स्वस्ति श्रीसंवत् १५७५ शाके १४४१ प्र. दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ...पृ
वादि ७ रवौ घोषामंदिरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीमत्कुंद-
कुंदाचार्यान्वये...भ. श्रीमल्लिभूपणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीचंद्र तच्छिष्य
मुनिश्रीनेमिचंद्र दसा हुंवड ज्ञातीय गांधी श्रीपति...तेषां मध्ये वा. समू तथा
लिखाप्य प्रदत्तमिदं आदिपुराणशास्त्रं मुनिश्रीनेमिचंद्रेभ्यः ॥

(प्रस्तावना पृ. १०, माणिकचंद ग्रंथमाला, वग्नई)

लेखांक ४७० - (महाभिवेक टीका)

संवत् १५८२ वर्षे चैत्र मासे शुद्धपक्षे पंचम्यां तिथौ रवौ श्रीआदि-
जिनचैत्यालये श्रीमूलसंघे...भ. श्रीमल्लिभूपणदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीचंद्र-
देवाः तेषां शिष्यवरज्ज्ज श्रीज्ञानसागरपठनार्थ ॥ आर्या श्रीविमलश्री चेली
भ. लक्ष्मीचंद्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महाभिवेकभाष्यं ।
शुभं भवतु ॥

(षट्प्राभृतादि संग्रह प्रस्तावना पृ. ७)

लेखांक ४७१ - [सुदर्शनचरित-नयनंदि]

संवत् १६०५ वर्षे आपाढ वादि १० शुके बलात्कारगणे श्रीलक्ष्मी-
चंद्राणां शिष्य श्रीसकलकीर्तिना स्वपरोपकाराय लिखितं ॥

(म. प्रा. ७५९)

लेखांक ४७२ - यशस्तिलक चंद्रिका

इति श्रीपद्मनंदि-देवेंद्रकीर्ति-विद्यानंदि-मल्लिभूपणान्नायेन भ. श्रीमल्लि-

भूषणगुरुपरमाभीष्टभ्रात्रा गुर्जरदेशसिंहासन-भ.-श्रीलक्ष्मीचंद्रकामिमतेन
मालवदेश-भ.-श्रीसिंहनंदिप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धांतसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं
नवनवतिमहाधादिस्याद्वादलब्धविजयेन तर्कव्याकरणलंघोत्कारसिद्धांत-
साहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना प्राकृतव्याकरणाद्यनेकशास्त्रचंचुना सूरि-
श्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यशस्विलकचंद्रिकामिधानायां यशोधरमहाराज-
चरितचम्पूमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहाराजलक्ष्मीविनोदवर्णनं नाम तृती-
याश्वासचंद्रिका परिसमाप्ता ॥

(निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९१६)

लेखांक ४७३ - सहस्रनाम टीका

श्रीपद्मनंदिपरमात्मपरः पवित्रो देवेंद्रकीर्तिरथ साधुजनभिबंधः ।
विद्यादिनंदिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमल्लिभूषण इतोस्तु च मंगलं मे ॥
अदः पट्टे भट्टादिकमतघटाघट्टनपट्टः सुधीर्लक्ष्मीचंद्रश्चरणचतुरोसौ विजयते ॥
आलंबनं सुविद्वुषां हृदयांबुजानां ध्यानंदनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः ।
सट्टीकनं विविधशास्त्रविचारचारु चेतश्चमत्कृतिकृतं श्रुतसागरेण ॥

(दि. १५ पू. २२२)

लेखांक ४७४ - तत्त्वार्थवृत्ति

...श्रीमद्देवेंद्रकीर्तिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहित-
चरणसेवस्य विद्यानंदिदेवस्य संछर्दितमिध्यामतदुर्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा
विरचितायां श्लोकवार्तिकसर्वार्थसिद्धि-न्यायकुमुदचंद्रोदय-प्रमेयकमल-
मार्तंड-राजवार्तिक-प्रचंडाष्टसद्वस्त्री-प्रभृतिग्रंथसंदर्भनिर्भरावलोकनबुद्धि-
विराजितायां तत्त्वार्थटीकायां दशमोऽध्यायः ॥

(भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९४९)

लेखांक ४७५ - शान्तिनाथ बृहत्पूजा-शान्तिदास

तद्विष्टरेतिविख्यातो विद्यानंदी महायतिः ।
तस्य शिष्यवरो योगी मल्लिभूषणः शीलवान् ॥
तस्यासने लक्ष्मीचंद्रो ख्यातकीर्तिर्दिगंतरे ।
अहीरदेशसर्वेपि मुल्हेरपुरपट्टके ॥

दयावान् श्रीदयाचंद्रो दैगंवरो जितेंद्रियः ।
 स्वात्मज्ञानी महाध्यानी तस्य पंचामनासने ॥
 ••मया श्रुत्वा गुरुपार्श्वे हास्यहेतुं निवेदयन् ।
 ब्रह्मश्रीजिनदासेन आश्वासनं ददौ मम ॥
 ••पूज्यपादकृतं स्तोत्रं श्रुतसिंधुकृताष्टकं ।
 आशाधरोक्तमवगाह्य प्रथमांतं मया कृतं ॥

(म. १)

लेखांक ४७६ - पट्टावली

तत्पट्टमुदघनविकाशनशरत्संपूर्णचंद्राणां ••महामंडलेश्वर-भैरवराय-
 महिराय-देवराय-वंगराय- प्रमुखाष्टादशदेशनरपतिपूजितचरणकमल-श्रुत-
 सागरपारंगत-वाद्वादीश्वर-राजगुरु-वसुंधराचार्य-भट्टारकपदप्राप्तश्रीवीर-
 सेनश्रीविशालकीर्तिप्रमुखशिष्यवरसमारोहितपादपद्मानां श्रीमल्लक्ष्मीचंद्रपरम-
 भट्टारकगुरुणाम् ॥

[जैन सिद्धांत १७ पृ. ५१]

लेखांक ४७७ - बोध सताणू

वीरचंद्र

सूरिश्रीविद्यानंदी जयो श्रीमल्लिभूषण मुनिचंद्र ।
 तस पटि महिमानिलो गुरु श्रीलक्ष्मीचंद्र ॥ ९६ ॥
 तेह कुलकमल दिवसपति जपति यति वीरचंद्र ।
 सुगता भगता भावता पामी परमानंद ॥ ९७ ॥

(म. ६४)

लेखांक ४७८ - चित्तनिरोधकथा

सूरिश्रीमल्लिभूषण जयो जयो श्रीलक्ष्मीचंद्र ॥ १४ ॥
 तास वंश विद्यानिलु लाड नाति शृंगार ।
 श्रीवीरचंद्र सूरि भणी चित्तनिरोध विचार ॥ १५ ॥

(ना. ६)

लेखांक ४७९ - पट्टावली

तद्वंशमंडनकंदर्पदलनविश्वलोकहृदयरंजन-महाप्रतिपुरंदराणां नव-

सहस्रप्रमुखदेशाधिपतिराजाधिराज-श्रीअजुनजीयराजसभामध्यप्राप्तसन्मानानां षोडशवर्षपर्यन्तशाकपाकपक्वाभ्रशाल्योदनादिसर्पिःप्रभृतिसरसाहारपरिवर्जितानां सकलमूलोत्तरगुणगणमणिमण्डितविबुधवरश्रीवीरचंद्रभट्टारकाणाम् ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५१)

लेखांक ४८० - ? मूर्ति

ज्ञानभूषण

संवत् १६०० वर्षे माघ वदि ७ सोमे ..भ. श्रीवीरचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीज्ञानभूषण हूंबड ज्ञातीय भावजा भा. वाई तयो पोमासा नित्यं प्रणमंति ॥

(बाळापुर, अ. ४ प. ५०३)

लेखांक ४८१ - सिद्धांतसारभाष्य

श्रीसर्वज्ञं प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेदुसेधितम् ।

भाष्यं सिद्धांतसारस्य वक्ष्ये ज्ञानसुभूषणम् ॥

[सिद्धांतसारादिसग्रह, माणिकचंद्र ग्रंथमाला, नम्बई]

लेखांक ४८२ - [पंचास्तिकाय]

भ. श्रीमल्लिभूषणाः । भ. श्रीलक्ष्मीचंद्राः । भ. श्रीवीरचंद्राः ।

भ. श्रीज्ञानभूषणानामिदं पुस्तकं ॥

(का. ४१२)

लेखांक ४८३ - कर्मकाण्ड टीका

मूलसंघे महासाधुलक्ष्मीचंद्रो यतीस्वरः ।

तस्य पादस्य वीरेदुविबुद्धा विश्ववेदितः ॥

तदन्वये दयांमोघि ज्ञानभूषो गुणाकरः ।

टीकां हि कर्मकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीर्तियुक् ॥

(ना. १०)

लेखांक ४८४ - (गणितसारसंग्रह)

स्वस्तिश्रीसंवत् १६१६ वर्षे कार्तिके सुदि ३ गुरौ श्रीगंधारशुभस्थाने श्रीमदादिजिनचैत्यालये श्रीमूलसंघे...म. श्रीवीरचंद्रदेवाः तत्पट्टे म. श्रीज्ञानभूषणदेवाः तदन्वये आचार्यसुमतिकीर्तिरूपदेशात् श्रीहुंव (ठ) ज्ञातीय सोनी सातू प्रदत्तं ॥

(का. ६४)

लेखांक ४८५ - चौरासी लक्ष योनि विनती

श्रीमूलसंघ महंत संत गुरु लक्ष्मीचंद्र ।
 श्रीवीरचंद्र विबुधवृंद ज्ञानभूषण सुनिंद ॥
 जिनवर विनति जे पढे मन धरि आनंद ।
 भुगति मुगति ते लहे जहां छे परमानंद ॥
 सुमतिकीरति भावे भणेए ध्यायो जिनवर देव ।
 संसारमाहि नवि अचतन्थो पान्थो सिवपद हेव ॥ २३ ॥

(म. ६५)

लेखांक ४८६ - पञ्चावली

अनंकदेशनरनाथनरपतितुरगपतिगजपतियवनाधीशसभामध्यसंप्राप्त-
 सन्मानश्रीनेमिनाथतीर्थकरकल्याणिकपवित्रश्रीऊर्जयंतशत्रुंजय-सुंगीगिरि-चूल-
 गिर्यादि-सद्वस्त्रेत्रयात्रापवित्रीकृतचरणानां ... सकलसिद्धांतवेदिनिर्ग्रथाचा-
 र्यवर्षेगिष्यश्रीसुमतिकीर्ति-स्वदेशविख्यातशुभमूर्तिश्रीरत्नभूषणप्रमुखसूरिपाठ-
 कसाधुसंसेवितचरणसरोजानां भट्टारकश्रीज्ञानभूषणगुरूणाम् ॥ .

[जैन सिद्धान्त १७ पृ. ५२]

लेखांक ४८७ - त्रेपनक्रिया विनती

प्रभाचंद्र

विद्यानंदि गुरु गुण निलए मल्लिभूषण देव ।
 लक्ष्मीचंद्र सूरि ललित अंगकरि सहजजन सेव ॥

वीरचंद्र विद्याविलास चंद्रवदन सुनींद्र ।
 ज्ञानभूषण गणधर समान दीठे होइए आनंद ॥
 प्रभाचंद्र सूरि एम कहेए जिनसासनी सिनगार ।
 ए वीनती भणे सुणे तेह घरि जयजयकार ॥ ९ ॥

(म. ६०)

लेखांक ४८८ - धर्मपरीक्षा रास

लक्ष्मीचंद्र श्रीगुरु नमू दीक्षादायक एह ।
 वीरचंद्र बंदू सदा सीक्षादायक तेह ॥
 तस पट्टे पट्टोधर ज्ञानभूषण गुरुराय ।
 आचारिज पद आपयु तेहना प्रणमू पाय ॥
 तेह कुल कमल दिवसपति प्रभाचंद्र यतिराय ।
 गुरु गलपति प्रतपो घणू मेरु महीधर काय ॥
 सुमतिकीर्ति सुरिवरे रच्यो धर्मपरीक्षा रास ।
 शास्त्र घणा जोई करी कीधो बहू प्रकास ॥
 रत्नभूषण राय रंजणो भंजणो मिथ्यामार्ग ।
 जिनभवनादिक उद्धरे करये बहुविध त्याग ॥
 सेत्रंजे उद्धर कियो शांतिनाथ प्रासाद ।
 दिगंबर धर्म प्रगट कियो सेतंवरसु करि विवाद ॥
 महुआ करि श्रावक भला घना आदे उपदेस ।
 बहु प्रेरे प्रारंभियो रच्यौ तहां लवलेस ॥
 पंडित हेमे प्रेच्या घणू घणाचगने वीरदास ।
 हासोट नगरे पूरो हुवो धर्मपरीक्षा रास ॥
 संवत सोल पंचवीसमे मार्गसिर सुदि वीज चार ।
 रास रुडो रलियामणो पूर्ण किधो छे सार ॥

[ना. ३४]

लेखांक ४८९ - त्रैलोक्यसार रास

श्रीमूलसंधे गुरुलक्ष्मीचंद्र तसु पाटि वीरचंद्र सुनींद्र ।
 ज्ञानभूषण तसु पाटि चंग प्रभाचंद्र वंदो. मनरंग ॥ २१७ ॥

सुमतिकीरति वर कहि सार त्रैलोक्यसार धर्मध्यान विचारं ।
जे भणे गणे ते सुखिया थाय रयणभूषण धरि मुगति जाय ॥ २१८ ॥
...संवत् सोलनी सत्तावीस माघ शुक्लनी बारस दीस ।
कोदादि रचीयो ए रास भावि भगती भावो भास ॥ २२१ ॥

[ना. ९७]

लेखांक ४९० - पट्टावली

...दिल्लिगौर्जरादिदेशसिंहासनाधीश्वराणाम्...श्रीज्ञानभूषणसरोज-
चंचरीकभट्टारकश्रीप्रभाचंद्रगुरुणाम् ॥

[जैनसिद्धान्त १७ पृ. ५२]

लेखांक ४९१ - [श्रीपालचरित्र]

वादिचंद्र

संवत् १६३७ वर्षे वैशाख वदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाशुभस्थाने
श्रीशीतलनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे...भ.श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे भ.
श्रीप्रभाचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीवादिचंद्रः तेषां मध्ये उपाध्याय धर्मकीर्ति
स्वकर्मक्षयार्थं लेखि ॥

[बडौदा, दा. पृ. ३९]

लेखांक ४९२ - पार्श्वपुराण

सांख्यः शिष्यति सर्वथैव क नं वैशेषिको रंकति ।
यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोयं प्रभाचंद्रमाः ॥
तत्पट्टमंडनं सूरिर्वादिचंद्रः व्यरीरचत् ।
पुराणमेतत् पार्श्वस्य वादिचंद्रशिरोमणिः ॥
शून्याब्दे रसाब्जांके वर्षे पक्षे समुज्ज्वले ।
कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा ॥

(हि. ५ कि. ९)

लेखांक ४९३ - ज्ञानसूर्योदय नाटक

मूलसंघे समासाद्य ज्ञानभूषं बुधोत्तमाः ।
दुस्तरं हि भवांभोधिं सुतरं मन्वते हृदि ॥ १ ॥

तत्पट्टामलभूषणं समभवहैगंवरीये मते ।
 चंचद्रहैकरः समातिचतुरः श्रीमत्प्रभाचंद्रमाः ॥
 तत्पट्टेजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रो यति-
 स्तेनायं व्यराचि प्रबोधतरणिर्मन्याब्जसंवोधनः ॥ २ ॥
 वसुवेदरसान्नांके वर्षे माघे सिताष्टमी दिवसे ।
 श्रीमन्मधुकनगरे सिद्धोयं बोधमरम्भः ॥ ३ ॥

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. २६८)

लेखांक ४९४ - श्रीपाल आख्यान

प्रगट पाट त अनुक्रमे भानु ज्ञानभूषण ज्ञानवंतजी ।
 तस पद कमल भ्रमर अविचल जस प्रभाचंद्र जयवंतजी ॥
 जगमोहन पाटे उदयो वादीचंद्र गुणालजी ।
 नवरस गीते जेणे गायो चक्रवर्ति श्रीपालजी ॥
 संवत सोल एकावनावर्षे कीधो ये परवंधजी ।

[जैन साहित्य और इतिहास पृ. २७०]

लेखांक ४९५ - यशोधरचरित

तत्पट्टविशदख्यातिर्वादिवृन्दमतस्त्रिका ।
 कथामेतां दयासिद्धयै वादिचंद्रो व्यरीरचत् ॥ ८० ॥
 अंकलेश्वरसुप्रामे श्रीधितामणिमंदिरे ।
 सप्तपञ्चरसान्नांके वर्षेकारि सुशास्त्रकम् ॥ ८१ ॥

(उपर्युक्त पृ. ७१२)

लेखांक ४९६ - पार्श्वनाथ छंद

मब्हा नयरे तोरो वास श्रीसंघनी तू पूरे आस ॥ ७२ ॥
 ...ज्ञानभूषण गुरु ज्ञानमंडार सरस्वतीगलमाहे शृंगार ॥ ७४ ॥
 तस पाटे दीठे आनंद प्रभा विराजित प्रभासुचंद्र ।
 वादिचंद्र वर सुधा सुलीह

ते गुरु बोले यह सुछंद सुनता मनता परमानंद ॥ ७५ ॥

(ना. ७)

लेखांक ४९७ - (पंचस्तवनावचूरि)

श्रीसंवत् १६६४ वर्षे श्रीसूर्यपुरे श्रीमदादिजिनचैत्यालये मूलसंघे भ. श्रीज्ञानभूषण भ. श्रीप्रभाचंद्र भ. श्रीवादिचंद्राः तदान्नाये आचार्यश्रीकमलकीर्तिस्तच्छिष्य ब्र. श्रीविद्यासागरस्येदं पुस्तकं ॥

[ना. ४८]

लेखांक ४९८ - पद्मावली

...महावादवादीश्वर-राजगुरु-वसुंधराचार्यवर्षहृन्धुवल्कुलशृंगारहार भ. श्रीमद्वादिचंद्रभट्टारकाणाम् ॥

(जैन सिद्धांत १७ पृ. ५२)

लेखांक ४९९ - चंद्रप्रभ मूर्ति

महीचंद्र

संवत् १६७९ वर्षे शाके १५५३ श्रीमूलसंघे नंदीसंघे सरस्वतीगच्छे-भ. श्रीवादिचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमहीचंद्रोपदेशात् हूंशङ्खातीय वीर्जल वास्तव्य मातर गोत्रे सं. श्रीवर्धमान... ॥

(सूत्र, दा. पृ. ४९)

लेखांक ५०० - सम्यग्ज्ञान यंत्र

सं. १६८५ वर्षे माघ सुदी ५ श्रीमूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये श्रीवादी-चंद्रस्तत्पट्टे भ. श्रीमहीचंद्रोपदेशात् सिचपुरा संघे संघवी बल्लभजी सं. हीरजी ज्ञानं प्रणमति ।

(सूत्र, दा. पृ. ४४)

लेखांक ५०१ - षोडशकारण पूजा

भैरुचंद्र

मूलसंघ मंडण वरहंसह महीचंद्र मुण्डिजण सुपसण्णह ।

भैरुचंद्र इय भासइ जिणशुइ रयण जीवयणे किय णिबलमइ ॥

(ना. ८३)

लेखांक ५०२ - पद्मावती मूर्ति

सं. १७२२ जेठ सुदी २ मूलसंघे म. श्रीमेरुचंद्रपट्टे साहश्रीसिद्धपुरा
 ज्ञातीय प्रेम जीवामार्हेसुत म. श्रीमहीचंद्रशिष्य ब्र. जयसागर प्रणमति ॥

(सूरत, दा. पृ. ५६)

लेखांक ५०३ - सीताहरण

मूलसंघे सरस्वतीवर गळे बलात्कारगण सार जी ।
 गंधार नयरे प्रत्यक्ष अतिशय कलियुगे छे मनोहार जी ॥
 ...प्रभाचंद्र गोर तनेया वानी अमिय रसाल जी ।
 वादीचंद्र वादी बहु जीत्या घट सरस्वती गुनमाल जी ॥
 महीचंद्र मुनि जनमन मोहन वानी जेह विस्तार जी ।
 परवादीना मान मुकाव्या गर्व न करे लगार जी ॥ .
 मेरुचंद्र तस पाटे सोहे मोहे भवियन मन जी ।
 व्याख्यान वानि अमिय रसाली सांभलो एके मन जी ॥
 गोरमहीचंद्र शिष्य जयसागरे रच्यु सीताहरण मनोहार जी ।
 ...संवत सत्तर वत्तीसा वरसै वैशाख सुद्ध वीज सार जी ।
 बुधवारे परिपूर्णज रच्यु सूरत नयर महार जी ॥
 आदिजिनेश्वर तणे प्रासादे पद्मावती पसाय जी ।
 सांभलता गाताय सहुने मन माहे आनंद थाय जी ॥

परिच्छेद ६ (ना. २५)

लेखांक ५०४ - अनिरुद्धहरण

तेह पाटे महीचंद्र भट्टारक दीठे जन मन मोहे जी ।
 मेरुचंद्र तस पाटे जाणो वाणी अमी रस सोहे जी ॥
 गोर महीचंद्र शिष्य एम बोले जयसागर ब्रह्मचारि जी ।
 ...संवत सत्तर वत्तीस माहे मागसिर मास भृगुवार जी ।
 सुदि तेरसि रचना रची पूर्णे ग्रंथ थयो सार जी ॥
 सूरत नयर माहे तम्हे जाणो आदि जिन गेह सार जी ।

पद्मावती मुझ प्रसन्न थई ने नित्य करो जयकार जी ।

(ना. ६)

लेखांक ५०५ - सगरचरित्र

महीचंद्र सूरिवर तेह पाटे जेन्ह जाने छे देस विदेस रे ।
 ब्रह्म जयसागर इम कहे गावे सगरनो रास मनोहार रे ।
 कांई संवत सत्तोत्तरो ते सार कांई माघ नवमी बुधवार रे ।
 अपर पछे रचना रची कांई गावे सह्यु नर नार रे ॥
 घोषा नयर सुहावनो श्रीआदीसुरने दरवार रे ।
 भने भनावे सांभले कांई तेह घरे जयकार रे ॥

[ना. ६]

लेखांक ५०६ - पद्मावली

...लघुशाखाहुं बहकुलगुंगारहारदिलीगुर्जरसिंहासनाधीशवलात्कार-
 गणविरुदावलीविराजमान भ. श्रीमेरुचंद्रगुरुणाम् ॥

[जैन सिद्धांत १७ पृ. ५२]

लेखांक ५०७ - आदिनाथमूर्ति

विद्यानंदि

श्रीजिनो जयति । स्वस्ति श्री १८०५ वर्षे शाके १६७५ प्रवर्तमाने
 वैशाखमासे शुक्लपक्षे चंद्रवासरे गुर्जरदेशे सूरतवंदरे जुग्यादिचैत्यालये
 श्रीमूलसंघे नंदीसंघे...भ. श्रीमहीचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमेरुचंद्रदेवाः तत्पट्टे
 भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीविद्यानंदीगुरुपदेशात् सूरतवास्त्वय
 रायकवाल जातीय धर्मधुरंधर... ॥

[मूल, दा. पृ. ३१]

लेखांक ५०८ - (आराधना-सकलकीर्ति)

संवत् १८२२ मिति मार्गसीर सुदि ८ बुधवारे नागपुरमध्ये श्रीमूल-
 संघे भ. श्रीविद्यानंदीजी तच्छिष्य ब्रह्मजिनदासेन लिखितं ॥

[ना. ९४]

- ५१३]

११. बलात्कार गण—सुरत शाखा

१९१

लेखांक ५०९ - (गणितसार संग्रह)

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १८४२ मिति वैशाख सुदि ११ म. श्रीविद्याभूषण इदं गणित
छत्तिसी म. श्रीदेवेंद्रकीर्तिनी प्रदत्तं शुभं भूयात् ।

(का. ६४)

लेखांक ५१० - पद्मावली

श्रीविद्यानंदीपट्टोदरधीराणां श्रीमत्खंडेलवालशातीयशुद्धवंशोद्भवानाम् भट्टारकोत्तंसश्रीमद्देवेंद्रकीर्तिभट्टारकाणां तपोराज्याभ्युदयार्थं
मन्यजनैः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु । इति
श्रीनंदिसंघविरुदावली श्रीसुमतिकीर्तिकृता संपूर्णा ॥

(जैनसिद्धांत १७ पृ. ५३)

लेखांक ५११ - पद्मावली

विद्याभूषण

खंडिल्यान्यशृंगारहाराणां देवेंद्रकीर्तिपट्टारसुरिविरुदावलिसमूह-
विराजमान श्रीमद्रविद्याभूषणभट्टारकाणाम् ।

[जैनमित्र १९-६-१९२४]

लेखांक ५१२ - पद्मावती मूर्ति

धर्मचंद्र

सं. १८९९ वैशाख सुद १२ गुरुवार श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बला-
त्कारण्ये कुंदकुंदाचार्यान्वये म. श्रीविद्यानंदि तत्पट्टे म. श्रीदेवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे
म. श्रीविद्याभूषणली तत्पट्टे म. श्रीधर्मचंद्र तत्पट्टे भाणचंद्र
उपदेशात् सा. वेणिलाल केसुरदास तत्सुता वाई इलाकोर नित्यं प्रणमति ।

[सुरत दा. पृ. ४३]

लेखांक ५१३ - पद्मावली

भट्टारकवरेण्यविद्याभूषणविद्यमानदत्तनंदिसंघपदानां गलाधिराज-
भट्टारकवरेण्यपरमाराध्यपरमपूज्यश्रीभट्टारकधर्मचंद्राणां तपोराज्याभ्युदयार्थं

भव्यजनैः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु ।

[जैनमित्र, १९-६-१९२४]

लेखांक ५१४ - विंध्यगिरि

अभयचंद्र

संवत् १५४८ वरुषे चैत्र वदि १४ द्ने भ. श्री. अभयचंद्रकस्य
शिष्य ब्रह्म धर्मरुचि ब्रह्म गुणसागर पं. की का यात्रा सफल ।

(जैन शिलालेख संग्रह भा. १. पृ. ३३४)

लेखांक ५१५ - यज्ञप्रभपूजा

जे नर निर्मल जे कुसुमांजलि मन वच काया सुद्ध करी ।

श्रीअभयचंद्र कहे निश्चय लहिये स्वर्ग राज कैवल्य पुरी ॥

(म. ५६)

लेखांक ५१६ - (गोमटसार टीका)

निर्ग्रन्थाचार्यवर्येण त्रैविद्याचक्रवर्तिना ।

संशोध्याभयचंद्रेणालेखि प्रथमपुस्तकः ॥

(अ. ४ पृ. ११६)

लेखांक ५१७ - षोडशकारण पूजा

अभयनंदि

सिरियंकजिणंदो सिरिदेविंदो विज्जानंदी मल्लिसुनी ।

सिरि लच्छीचंदो अभयचंदो अभयनंदि सुमति द्विगुणी ॥

(म. ३)

लेखांक ५१८ - दशलक्षण पूजा

ब्रह्मचर्य सुव्रत पर ब्राह्मी सुंदरी प्रथम वृषभ जिन सुतारक ।

श्रीअभयनंदिगुरु सुशील सुसागर सुमतिसागर जिनधर्मधर ॥

(म. ३)

लेखांक ५१९ - जंबूद्वीप जयमाला

अभयचंद्र रूपवंत गुणी अभयनंदि गुणधार ।

श्रीसुमतिसागर देवेन्द्र भणिया त्रिसुवनतिलक जयवंत ॥ ५२ ॥

[म. ३]

लेखांक ५२० - व्रत जयमाला

जय जय जिन तारन स्वामी नाम पूजा भुवि भुक्ति कर ।

श्रीअभयनंदिभयवारण संकर सुमतिसागर जिनधर्मधर ॥ २२ ॥

[म. ३]

लेखांक ५२१ - तीर्थ जयमाला

जय परमेश्वर बोधजिनेश्वर अभयनंदि मुनिवर शरण ।

जय कर्मविदारण भवभयवारण सुमतिसागर तव गुण-चरण ॥ २० ॥

[म. ३]

लेखांक ५२२ - महावीरमूर्ति

रत्नकीर्ति

सं. १६६२ वर्षे वैसाख वदी २ शुभदिने श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वये भ. श्रीअभयचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीअभय-नंदं तच्छिष्य आचार्यश्रीरत्नकीर्ति तस्य शिष्याणीं वाई वीरमती नित्यं प्रणमति श्रीमहावीरम् ।

(भा. प्र. पृ. १४)

बलात्कार गण - सूरत शाखा

इस शाखा का आरम्भ म. देवेन्द्रकीर्ति से हुआ। आप म. पद्मनन्दी के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा में आ चुका है। आप ने संवत् १४९३ की वैशाख कृ. ५ को एक मूर्ति स्थापित की (ले. ४२५)। आप ने उज्जैन के प्रान्त में प्रतिष्ठाएं करवाई तथा सातसौ घरों की रत्नाकर जाति की स्थापना की (ले. ४२६)। आप के शिष्य त्रिभुवनकीर्ति से जेरहट शाखा का आरम्भ हुआ।

देवेन्द्रकीर्ति के पट्टशिष्य विद्यानन्दी हुए। आप ने संवत् १४९९ की वैशाख शु. २ को एक चौबीसी मूर्ति, संवत् १५१३ की वैशाख शु. १० को एक मेरु तथा एक चौबीसी मूर्ति, संवत् १५१८ की माघ शु. ५ को दो मूर्तियां, संवत् १५२१ की वैशाख कृ. २ को एक चौबीसी मूर्ति तथा संवत् १५३७ की वैशाख शु. १२ को एक अन्य मूर्ति स्थापित की (ले. ४२७-३३)। संवत् १५१३ की चौबीसी मूर्ति आर्यिका संयमश्री के लिए घोघा में प्रतिष्ठित की गई थी^{११}।

विद्यानन्दी ने सुदर्शनचरित नामक संस्कृत ग्रन्थ लिखा (ले. ४३४)। साह लखराज ने पंचास्तिकाय की एक प्रति खरीद कर इन्हें अर्पित की (ले. ४३५)। इन के शिष्य ब्रह्म अजित ने मडौच में हनुमच्चरित की रचना की (ले. ४३६)। इन के अन्य शिष्य छाहड ने संवत् १५९१ में मडौच में धनकुमारचरित की एक प्रति लिखी (ले. ४३७)। इन के तीसरे शिष्य ब्रह्म धर्मपाल ने संवत् १५०५ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ४३८)।

पट्टावली के अनुसार राजा वज्रांग, गंग जयसिंह, तथा व्याघ्रनरेन्द्र ने आप का सन्मान किया^{१२}। आप अठसखे परवार जाति के थे। हरिराज

७२ विद्यानन्दी के अन्य उल्लेख देखिए (ले. २५७) तथा (ले. ३५६), नोट ४३ तथा (ले. ५२३)।

७३ वज्रांग और गंग जयसिंह कर्णाटक के स्थानीय राजा रहे होंगे। इन का ठीक राज्यकाल ज्ञात नहीं हो सका। व्याघ्रनरेन्द्र सम्भवतः किसी वाघेल वंशीय राजा का संस्कृत रूपान्तर है।

भट्टारक-संप्रदाय



मूरत के भ विद्यालन्दि (प्रथम) की
शिष्या आर्यिका जिनमती की मूर्ति (सूरत)

भट्टारक-संप्रदाय



काष्ठामंथ-नेदिनटगच्छ के भट्टारक मुण्डकीर्ति
 (मूरन-संवत् १७४४-७३)
 (संवत् १७४७ के हम्मलिखिन के चित्र की अनुकृति)

के कुल को आप ने उज्ज्वल किया। सम्मेदशिखर, चम्पापुर, पावापुर, गिरनार, प्रयाग आदि क्षेत्रों की आप ने वंदना की, तथा सहस्रकूट विन्ध्य स्थापित किया। श्रुतसागर आप के मुख्य शिष्य थे (ले. ४३९)।

श्रुतसागर सूरि ने महेन्द्रदत्त के पुत्र लक्ष्मण की प्रार्थना पर ज्येष्ठ जिनवर कथा लिखी (ले. ४४२), कल्याणकीर्ति के आग्रह से षोडश-कारण कथा लिखी (ले. ४५०), मतिसागर की प्रेरणा से मुक्तावली कथा लिखी [ले. ४५१], साष्ठी सौवर्णिका की प्रार्थना पर मेरुपंक्ति कथा लिखी [ले. ४५२] तथा श्रीराज की विनंति पर लक्षणपंक्ति कथा की रचना की [ले. ४५३]। मेघमाला, सप्त परमस्थान, रविवार, चंदनघण्टी, आकाशपंचमी, पुष्पांजलि, निर्दुःखसप्तमी, श्रवण द्वादशी, रत्नत्रय इन व्रतों की कथाएं भी आप ने लिखीं (ले. ४४०-४९)। औदार्यचिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णव के गद्य भाग की टीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका, महाभिषेक टीका तथा श्रुतस्कन्ध पूजा ये रचनाएं आपने लिखीं^{७४}। इन में तत्त्वत्रयप्रकाशिका की रचना आचार्य सिंहनन्दि^{७५} के आग्रह से हुई (ले. ४५४-५७)।

विद्यानन्दीके पट्टशिष्य मल्लिभूषण हुए। आप के समय संवत् १५४४ की वैशाख शु. ३ को खंभात में एक निपीदिका बनाई गई।^{७६} इस के लेख में आर्यिका रत्नश्री, कल्याणश्री और जिनमती का उल्लेख है (ले. ४५८)। मल्लिभूषण ने आचार्य अमरकीर्ति को पंचास्तिकाय की एक प्रति दी थी (ले. ४५९)। आप के शिष्य लक्ष्मण के लिए सावयधम्मदोहा पंजिका की एक प्रति संवत् १५५५ की कार्तिक शु. १५

७४ श्रुतसागर सूरि की अन्य रचनाओं के लिए विद्यानन्दि के उत्तराधिकारी मल्लिभूषण और लक्ष्मीचन्द्र का वृत्तान्त देखिए।

७५ सम्भवतः भानपुर शाखा में इन्दी का उल्लेख हुआ है।

७६ ब्र. शीतलप्रसादजी ने यह लेख पञ्जावती मूर्ति का कहा है, किन्तु उस लेखपर से वह झुल्लिका जिनमती की मूर्ति प्रतीत होती है।

को लिखी गई (ले. ४६०) । पट्टावली के अनुसार आप ने मंडपगिरि और गोपात्रल की यात्रा की तथा ग्यासदीन ने आप का सम्मान किया था^{७७} । आप पद्मावती के उपासक थे [ले. ४६१] ।

मल्लिभूषण के समय श्रुतसागरसूरि ने इल्दुर्ग के भानुभूपति^{७८} के मन्त्री भोजराज की पुत्री पुत्तलिका के साथ गजपन्थ और तुंगीगिरि की यात्रा की तथा वहीं पत्यविधान कथा की रचना की [ले. ४६३] । अक्षयनिधान कथा भी आप ने इन्हीं के समय लिखी [ले. ४६२] ।

भ. सिंहनन्दी ने अपने मंगलाष्टक में मल्लिभूषण का गुरुरूप में उल्लेख किया है । इन की एक रचना माणिकस्वामी विनती भी है [ले. ३६४-६५] । ब्रह्म नेमिदत्त ने अपने आराधना कथाकोश में मल्लिभूषण, सिंहनन्दी और श्रुतसागर को वन्दन किया है । इन ने पण्डित राघव के आग्रह पर अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ पूजा लिखी [ले. ४६६-६७] ।^{७९}

मल्लिभूषण के पट्टशिष्य लक्ष्मीचन्द्र हुए । इन के उपदेश से सांगणक ने संवत् १५५६ की चैत्र शु. १ को हंसपत्तन^{८०} में नागकुमारचरित की एक प्रति लिखी [ले. ४६८] । संवत् १५७५ की ज्येष्ठ कृ. ७ को घोघा में सभूवाई ने महापुराण की एक प्रति लक्ष्मीचंद्र के शिष्य नेमिचन्द्र को अर्पित की [ले. ४६९] । संवत् १५८२ की चैत्र शु. ५ को आप के शिष्य ज्ञानसागर के लिए आर्यिका विनयश्री ने महाभिषेक टीका की प्रति लिखी [ले. ४७०] । संवत् १६०५ में लक्ष्मीचंद्र के शिष्य सकलकीर्ति ने नयनन्दिदृष्ट सुदर्शनचरित की एक प्रति लिखी [ले. ४७१]

७७ मालवे का सुलतान-राज्यकाल १४६९-१५०० ई.

७८ ईडर के राव भाणजी-राज्यकाल १४४६-९६ ई.

७९ नेमिदत्त ने संवत् १५८५ में श्रीपालचरित लिखा । सुदर्शनचरित, रात्रिभोजनत्याग कथा तथा नेमिनाथ पुराण ये इन के अन्य ग्रन्थ हैं (अनेकान्त वर्ष ९ पृ. ४७६)

८० हंसापुर (जिला सुरत)

लक्ष्मीचन्द्र के समय श्रुतसागरसूरि ने यशस्तिलकचन्द्रिका, सहस्रनाम टीका, तत्त्वार्थ वृत्ति तथा षट्प्राभृतटीका की रचना की [ले. ४७२-७४]। इन की प्रशस्तियों से पता चलता है कि श्रुतसागर ने नीलकण्ठ भद्र आदि ९९ वादियों पर विजय प्राप्त की तथा सिद्धान्तसागर यति के लिए यशस्तिलकचन्द्रिका बनाई [१]

लक्ष्मीचन्द्र के समय ब्रह्म जिनदास^१ के शिष्य ब्रह्म शान्तिदास ने शान्तिनाथ बृहत्पूजा की रचना की। उस समय मुल्हेर में दयाचन्द्र भट्टारक थे (ले. ४७५)।

पट्टावली से पता चलता है कि म. लक्ष्मीचन्द्र भैरवराय, मल्लिराय, देवराय, वगराय आदि १८ राजाओं द्वारा सम्मानित हुए थे^२ तथा आप ने म. वीरसेन, म. विशालकीर्ति आदि से भी^३ सन्मान पाया था [ले. ४७६]।

लक्ष्मीचन्द्र के पट्टशिष्य दो थे। इन में अमयचन्द्र का वृत्तान्त इसी प्रकरण के अन्त में सगृहीत किया है। दूसरे पट्टशिष्य वीरचन्द्र थे। आप ने बोधसताणू तथा चित्तनिरोध कथा की रचना की [ले. ४७७-७८]। आप ने नवसारी के शासक अर्जुनजीयराज से सन्मान पाया^४ तथा सोलह वर्ष तक नीरस आहार सेवन किया [ले. ४७९]।

वीरचन्द्र के पट्टशिष्य ज्ञानभूषण हुए। आप ने संवत् १६०० में एक मूर्ति प्रतिष्ठित की तथा सिद्धान्तसारभाष्य की रचना की [ले. ४८०—

८१ श्रुतसागर के विषय में देखिए—पं. नाथूराम प्रेमी (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४०६) तथा पं. परमानन्द (अनेकान्त व. ९ पृ. ४७४)

८२ इन का वृत्तान्त ईडर शाखा के म. सकलकीर्ति और सुवनकीर्ति के वृत्तान्त में देखिए।

८३ तुलुव राजा बंगराय (तृतीय) का राज्यकाल १५३३-१५४५ ई. था। अन्य राजा कर्णाटक के स्थानीय शासक थे किन्तु उन का ठीक राज्यकाल शत नहीं हो सका।

८४ वीरसेन सम्भवतः कारंजा के सेनगण के म. गुणभद्र के शिष्य हैं। विशालकीर्ति कारंजा शाखा के विशालकीर्ति (प्रथम) हो सकते हैं।

८५ अर्जुन जीयराज का इतिहास में कुछ विवरण नहीं मिलता।

८१]। सुमतिकीर्ति की सहायता से आप ने कर्मकाण्ड टीका लिखी (ले. ४८३)। पंचास्तिकाय की एक प्रति पर आप का नाम अंकित है (ले. ४८२)। आप के शिष्य सुमतिकीर्ति के उपदेश से संवत् १६१६ की कार्तिक शु. ३ को गणितसारसंग्रह की एक प्रति दान की गई (ले. ४८४)। सुमतिकीर्ति ने चौरासी लक्ष योनि विनती की रचना की (ले. ४८५)। इन के अतिरिक्त रत्नभूषण आदि साधु ज्ञानभूषण के शिष्य थे। ज्ञानभूषण ने गिरनार, शत्रुंजय, तुंगीगिरि, चूलगिरि आदि क्षेत्रों की यात्रा की थी (ले. ४८६)।^{८६}

ज्ञानभूषण के पट्ट पर प्रभाचन्द्र भट्टारक हुए। आप ने त्रेपन क्रिया विनती लिखी (ले. ४८७)। आप के गुरुवन्धु सुमतिकीर्ति ने संवत् १६२५ में हांसोट में धर्मपरीक्षा रास की रचना की। आप ने शत्रुंजय पर शान्तिनाथ मन्दिर के निर्माण का तथा श्वेताम्बरों के साथ हुए वाद का उल्लेख किया है^{८७}। धर्मपरीक्षा के लिए पंडित हेम ने प्रेरणा की थी (ले. ४८८)। सुमतिकीर्ति ने संवत् १६२७ में माघ शु. १२ को कोदादा शहर में त्रैलोक्यसार रास की रचना पूर्ण की (ले. ४८९)।

प्रभाचन्द्र के पट्टपर वादिचन्द्र भट्टारक हुए। आप के समय संवत् १६३७ में उपाध्याय धर्मकीर्ति ने कोदादा में श्रीपालचरित्र की प्रति लिखी (ले. ४९१)। आप ने संवत् १६४० में वाल्मीकिनगर में पार्श्वपुराण की रचना की (ले. ४९२), संवत् १६४८ में मधुकनगर में ज्ञानसूर्योदय नाटक लिखा (ले. ४९३), संवत् १६५१ में श्रीपाल आख्यान पूरा किया (ले. ४९४), संवत् १६५७ में अंकलेश्वर में यशोधरचरित की रचना की तथा महुआ में पार्श्वनाथ छंद लिखे (ले. ४९५-९६)।

८६ आप के विषय में नोट ६४ तथा ६१ तथा १२१ देखिए।

८७ शत्रुंजय के शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण (ले. ३८८) के अनुसार संवत् १६८६ में हुआ किन्तु इस लेख से उस के पूर्व भी एक शान्तिनाथमन्दिर वहा था ऐसा प्रतीत होता है।

आप हूँबड जाति के थे (ले. ४९८) । आप की आम्राय मे ब्र. विद्यासागर ने संवत् १६६४ में पंचस्तवनावचूरि की एक प्रति सूरत में प्राप्त की (ले. ४९७) ।

वादिचन्द्र के पद पर महीचन्द्र आरूढ हुए । आप ने संवत् १६७९ में एक चन्द्रप्रभ मूर्ति तथा संवत् १६८५ मे एक सम्यग्ज्ञान यन्त्र स्थापित किया (ले. ४९९-५००) ।

महीचन्द्र के शिष्य मेरुचन्द्र हुए । आप के गुरुवन्धु जयसागर ने संवत् १७२२ मे एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ५०२) । इन ने संवत् १७३२ में सूरत में सीताहरण लिखा, संवत् १७३२ मे ही अनिरुद्ध हरण लिखा तथा घोघा में सगरचरित्र की रचना की (ले. ५०३-५) । पट्टावली से विदित होता है कि मेरुचन्द्र हूँबड जाति के थे (ले. ५०६) । आप ने षोडशकारण पूजा लिखी (ले. ५०१) ।

मेरुचन्द्र के बाद जिनचद्र और उन के बाद विद्यानन्दी पट्टाधीश हुए । आप ने संवत् १८०५ में सूरत में एक आदिनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ५०७) । आप के शिष्य जिनदास ने नागपुर में संवत् १८२२ में आराधना की एक प्रति लिखी (ले. ५०८) ।

विद्यानन्दि के पदशिष्य देवेन्द्रकीर्ति हुए । संवत् १८४२ में इन ने गणितसारसंग्रह की एक प्रति अपने शिष्य विद्याभूषण को दी । विद्याभूषण खंडेलवाल जाति के थे (ले. ५०९-११) ।

८८ वादिचन्द्र के लिए पं. नाथूराम प्रेमी का लेख देखिए (जैन साहित्य और इतिहास पृ. २६८) । चम्बई से काव्यमाला के १३ वें गुच्छक में प्रकाशित पवनदूत काव्य सम्भवतः आप की ही रचना है ।

८९ सगरचरित्र में भी रचना काल दिया है किन्तु उस का अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो सका ।

विद्याभूषण के बाद धर्मचन्द्र पद्माधीश हुए। इन के गुरुबन्धु भाणचंद्र ने संवत् १८९९ में पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ५१२)।^{१०}

सूरत शाखा की ही एक परम्परा में लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र से प्रारम्भ हुई। अभयचन्द्र ने पद्मप्रभपूजा लिखी है। संभवतः आप ने नेमिचन्द्र विरचित गोमटसारटीका की पहली प्रति लिखी थी। आप के शिष्य धर्महृदि तथा गुणसागर ने संवत् १५४८ में गोमटेश्वर के दर्शन किये (ले. ५१४-१६)।

अभयचन्द्र के शिष्य अभयनन्दि हुए। इन के शिष्य सुमतिसागर ने षोडशकारण पूजा, दशलक्षण पूजा, जंबूद्वीप जयमाला, व्रत जयमाला तथा तीर्थजयमाला ये पूजापाठ लिखे (ले. ५१७-२१)।

अभयनन्दि के शिष्य रत्नकीर्ति हुए। इन की शिष्या वीरमती ने संवत् १६६२ में एक महावीर मूर्ति स्थापित कराई (ले. ५२२)।


^{१०} ब्र. शीतलप्रसादजी के कथनानुसार धर्मचन्द्र के बाद क्रमशः चन्द्रकीर्ति, गुणचन्द्र और सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए [दानवीर माणिकचन्द्र पृ. ३८]

भट्टारक-संप्रदाय



बलात्कार गण- मूर्त-शाखा के भट्टारक विद्यानन्दि
(प्रथम) संवत् १४११-१५३७
(बडौदा में प्राप्त हस्तलिखित के संवत् १५२६ में बने हुए
चित्र की अनुकृति)


भट्टारक-संप्रदाय



सूरत के भ. विद्यानन्दि (प्रथम) द्वारा सं. १५२६
में स्थापित पंचभेरुकी मूर्ति—इसके कोनोंपर भ. पद्मानन्दि
(बलात्कारगण— उत्तर जाखा), भ. देवेन्द्रकीर्ति
(प्रथम) (व. मूरत जाखा), भ. विद्यानन्दि तथा
उनके शिष्य कल्याणनन्दिकी मूर्तियां बनी हैं ।

बलात्कार गण-सूचक शाखा-काल पट

- १ पद्मनन्दी (उत्तर शाखा)
- २ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १४९३]
- ३ विद्यानन्दी [संवत् १४९९-१५३७] त्रिभुवनकीर्ति
(जेरहट शाखा)
- ४ मल्लिभूषण [संवत् १५४४-१५५५]
- ५ लक्ष्मीचन्द्र [संवत् १५५६-१५८२]
- ६ वीरचन्द्र अभयचन्द्र (सं. १५४८)
- ७ ज्ञानभूषण [संवत् १६००-१६१६] अभयनन्दि
- ८ प्रभाचन्द्र [संवत् १६२५-१६२७] रत्नकीर्ति (सं. १६६२)
- ९ वादिचन्द्र [संवत् १६३७-१६६४]
- १० महीचन्द्र [संवत् १६७९-१६८५]
- ११ मेरुचन्द्र [संवत् १७२२-१७३२]
- १२ जिनचन्द्र
- १३ विद्यानन्दि [संवत् १८०५-१८२२]
- १४ देवेन्द्रकीर्ति [संवत् १८४२]
- १५ विद्याभूषण
- १६ धर्मचन्द्र [संवत् १८९९]



१२. बलात्कार गण-जेरहट शाखा

लेखांक ५२३ - हरिवंशपुराण

श्रुतकीर्ति

कुंदकुंदगणिणा अणुकम्मइ जायइ मुणिगण विविह सहम्मइ ।
 गण वलत्त वागेसरि गच्छइ णंदिसंघ मणहर मइसच्छइ ।
 पहाचंदगणिणा सुदपुण्णइ पोमणंदि तह पट्ट उवण्णइ ।
 पुणु सुभचंददेव कम जायइ गणि जिणचंद तह य विक्खायइ ।
 विज्जाणंदि कमेण उवण्णइ सीलवंत धहुगुण सुदपुण्णइ ।
 पोमणंदि सिस कामिण ति जायइ जे मंडलायरिय विक्खायइ ।
 मालवदेसे धम्मसुपयासणु मुणि देवेदकित्ति पिडभासणु ।
 तह सिसु धमियवाणि गुणधारउ तिहुवणाकित्ति पवोहणसारउ ।
 तह सिसु सुदकित्ति गुरुभत्तउ जेहि हरिवंसपुराणु पडत्तउ ।
 ...संवत्तु विक्कमसेण णरेसह सहसु पंचसय वावण सेसह ।
 मंडयगडु वर मालवदेसइ साहि गयासु पयाव असेसइ ।
 णयर जेरहट जिणहरू चंगउ गेमिणाहजिणविंबु अभंगउ ।
 गंधु सउण्णु तत्थ इहु जायउ चउविह संसुणि सुणि अणुरायउ
 माघ किण्ह पंचमि ससिवारइ हत्थणखत्त समत्तु गुणालइ ।

(अ. ११ पृ. १०६)

लेखांक ५२४ - परमेष्ठिप्रकाशसार

दह पण सय तेवण गय वासइ पुणु विक्कमणिवसंवच्छरहे ।
 तह सावणमासहु गुरुपंचमि सहु गंधु पुण्णु तय सहस तहे ॥
 मालव देस दुग्ग मंडवच्छु वट्टइ साहि गयासु महावळु ।
 साहि णसीरु णाम तह णंदणु रायधम्म अणुरायउ बहुगुणु ।
 तह जेरहट णयर सुपसिद्धउ जिण चेइहर मुणिसुपबुद्धइ ।
 गेमीसर जिणहर णिवसंतइ विरयउ एहु गंधु हरिसंतइ ।
 तेहि लिहाइहि णाणागंधइ इय हरिवंसपमुह सुपसत्थइ ।
 विरइय पढम तमहि वित्थारिय धम्मपरिक्ख पमुह मणहारिय ।
 इय परमिद्धिपयाससारे अरुहादिगुणेहि वण्णणालंकारे अप्पसुदसुद-
 कित्ति जहासत्ति महाकण्ठु विरयंतो णाम सत्तमो परिच्छेउ समत्तो ॥

(अ. ११ पृ. १०७)

लेखांक ५२५ - १ मूर्ति धर्मकीर्ति

सं. (१६) ४५ माघ सुदि ५ श्रीमूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. यशकीर्तिपट्टे भ. श्रीललितकीर्तिपट्टे भ. श्रीधर्मकीर्ति उपदेशात् पौरपट्टे छितिरा मूर गोहिल्लगोत्र साधु दीनू भार्या... ॥

(धूवोन, अ. ३ पृ. ४४५)

लेखांक ५२६ - चंद्रप्रभ मूर्ति

संमत १६६९ चैत्र सुद १५ रवौ मूलसंघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. यशोकीर्ति तत्पट्टे भ. ललितकीर्ति तत्पट्टे भ. धर्मकीर्ति उपदेशात्... ॥

(पा. ५१)

लेखांक ५२७ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १६६९ चैत सुदी १५ रवौ भ. ललितकीर्ति भ. धर्मकीर्ति तदुपदेशात् सा. पदारथ भार्या जिया पुत्र दो खेमकरण पमापेता नित्यं नमति ॥

(भा. प्र. पृ. ५)

लेखांक ५२८ - नंदीश्वरमूर्ति

संमत १६७१ वर्षे वैसाख सुद ५ मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती-गच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये भ. यशकीर्ति तत्पट्टे भ. ललितकीर्ति तत्पट्टे भ. धर्मकीर्तिउपदेशात् पौरपट्टे सा. उदयचंदे भार्या... उदयगिरेंद्र प्रतिष्ठा प्रसिद्धं ॥

(पा. ६०)

लेखांक ५२९ - हरिवंशपुराण

श्रीमूलसंघेजनि कुंदकुंदः सूरिर्महात्माखिलतत्त्ववेदी ।
सीमन्धरस्वामिपदप्रबन्दी पंचाह्वयो जैनमतप्रदीपः ॥
तदन्वयेभूद् यशकीर्तिनामा भट्टारको भापितजैनमार्गः ।
तत्पट्टवान् श्रीललितादिकीर्तिर्भट्टारकोजायत सत्क्रियावान् ॥
जयति ललितकीर्तिर्जातितत्त्वार्थसार्थो
नयविनयविवेकप्रोज्ज्वलो भव्यवन्धुः ।
जनपदशतमुख्ये मालबेलं यदाज्ञा

समभवदिह जैनद्योतिका दीपिकेव ॥
 तत्पट्टांशुजहर्षवर्षतरणिर्मट्टारको भासुरो
 जैनग्रंथविचारकेलिनिपुणः श्रीधर्मकीर्त्याह्वयः ।
 तेनेदं रचितं पुराणममलं गुर्वाज्ञया किंचन
 संक्षेपेण विबुद्धिनापि सुहृदा तत् क्षोध्यमेतद्भुवम् ॥
 वर्षे व्यष्टशते चैकाग्रसप्तत्यधिके रवौ ।
 आश्विने कृष्णपंचम्यां ग्रंथोयं रचितो मया ॥

[म. प्रा. पृ. ७६१]

लेखांक ५३० - पार्श्वनाथ मूर्ति

संमत १६८१ वर्षे माघ सुदी १५ गुरौ म. धर्मकीर्ति उपदेशात् पर-
 वारज्ञातौ... ॥

(पा. ९८)

लेखांक ५३१ - षोडशकारण यंत्र

सं. १६८२ मार्गसिर वदि-रवौ म. ललितकीर्तिपट्टे म. धर्मकीर्ति
 गुरूपदेशात् परवार धना मूर सा. हठीले भार्या दमा पुत्र दयाल भार्या
 केशरि भोजे गरीबे भालदास भार्या सुमा... ॥

(ग्रानपुरा, अ. ३ पृ. ४४५)

लेखांक ५३२ - ? यंत्र

संवत् १६८३ फाल्गुन सुदी ३ श्रीधर्मकीर्ति उपदेशात् सं. सुकुट
 भा. किशुन...पते नमन्ति ॥

[अहार, अ. १० पृ. १५६]

लेखांक ५३३ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सकलकीर्ति

संमत १७११ म. सकलकीर्ति सा. लाले पुत्रवंते प्रणमंति ॥

['पस्वार मंदिर, नागपुर]

लेखांक ५३४ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १७१२ मार्ग-वदि १२ श्रीमूलसंघे म. सकलकीर्ति...हरदा ॥

(बाजारगाव, जिला नागपुर)

लेखांक ५३५ - पार्श्वनाथ मूर्ति

संवत् १७१३ वर्षे मार्गशिर सुदी १० रवळ श्रीम. धवलकीर्ति म.
सकलकीर्ति...प्रणमंति नित्यम् ।

(नागयनपुर, अ. १० पृ. १५५)

लेखांक ५३६ - १ मूर्ति:

संवत् १७१८ वर्षे फाल्गुने मासे कृष्णपक्षे...श्रीमूलसंघे बलात्कार-
गणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये म. श्री ६ धर्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्री ६
पद्मकीर्ति तत्पट्टे म. श्री ६ सकलकीर्ति उपदेशेनेयं प्रतिष्ठा कृता तद्गुरु-
राघोपाध्याय नेमिचंद्रः पौरपट्टे अष्टशास्त्राश्रये धनामूले कासित्तल गोत्रे साहू
अधार भार्या लालमती... ॥

[पपौय, अ. ३ पृ. ४४५]

लेखांक ५३७ - षोडशकारण यंत्र

संवत् १७२० वर्षे फागुन सुदी १० शुक्र बलात्कारगणे...म. श्री-
सकलकीर्तिउपदेशात् गोलापूर्वांन्वये गोत्र पेंथवार पं परवति ... ॥

[अहार, अ. १० पृ. १५५]

लेखांक ५३८ - आदिनाथ स्तोत्र

सुरेंद्रकीर्ति

मूलसंघको नाथक सोहे सकलकीर्ति गुरु वंदो जू ।
तस पट पाट पटोधर सोहे सुरेंद्रकीर्ति मुनि गाजे जू ॥
संवत् सत्रासो छपण हे मास कार्तिक शुभ जानो जू ।
दास विहारी विनती गावे नाम लेत सुख पावे जू ॥ २२

(ना. ५५)

लेखांक ५३९ - षोडशकारण यंत्र

चंद्रकीर्ति

संवत् १६७५ पोह सुदि ३ भौमे श्रीमूलसंघे भ. ललितकीर्ति तत्पट्टे
मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत्पट्टे आचार्य श्रीचंद्रकीर्ति उपदेशात् साहु रूपा
भार्या पता... ॥

[अ. ११ पृ. ४११]

लेखांक ५४० - सम्यक्चारित्र यंत्र

संवत् १६८१ वरपे चैत्र सुदी ५ रवौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीललितकीर्ति
तत्पट्टे मंडलाचार्य श्रीरत्नकीर्ति तत्पट्टे आचार्य चंद्रकीर्तिस्तदुपदेशात् गोला-
पूर्वान्वये खागनाम गोत्रे सेठी भानु भार्या चंदनसिरी... ॥

(पा. १८)

बलात्कार गण-जेरहट शाखा

इस शाखा का आरंभ म. त्रिभुवनकीर्ति से हुआ। आप म. देवेन्द्र-कीर्ति के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त सूरत शाखा में आ चुका है। आप के शिष्य श्रुतकीर्ति ने संवत् १५५२ में ग्यासुदीन के राज्यकाल^{११} में जेरहट में हरिवंशपुराण लिखा (ले. ५२३)। श्रुतकीर्तिने दिल्ली-जयपुर शाखा के म. जिनचन्द्र और उन के शिष्य विद्यानन्दि का भी उल्लेख किया है।^{१२} इन ने संवत् १५५३ में जेरहट में ही परमेश्वरप्रकाशसार की रचना की।^{१३}

म. त्रिभुवनकीर्ति के बाद क्रमशः सहस्रकीर्ति-पद्मनन्दी-यशःकीर्ति-ललितकीर्ति और धर्मकीर्ति मद्धारक हुए।^{१४} धर्मकीर्ति ने संवत् १६४५ की माघ शु. ५ को एक मूर्ति, संवत् १६६९ की चैत्र पौर्णिमा को एक चन्द्रप्रभ मूर्ति तथा एक पार्श्वनाथ मूर्ति, और संवत् १६७१ की वैशाख शु. ५ को एक नन्दीश्वर मूर्ति स्थापित की। (ले. ५२५-२८)। आप ने संवत् १६७१ की आश्विन कृ. ५ को हरिवंशपुराण लिखा (ले. ५२९)। संवत् १६८१ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १६८२ में एक षोडशकारण यंत्र तथा संवत् १६८३ में एक और यंत्र आप ने स्थापित किया (ले. ५३०-३२)।

११ मालवा सुलतान-राज्यकाल १४६९-१५०० ई.

१२ डॉ. हीरालालजी जैन ने श्रुतकीर्तिकृत धर्मपरीक्षा का परिचय दिया है। (अनेकान्त वर्ष ११ पृ. १०६) आप के मत से श्रुतकीर्ति की गुरुपरंपरा प्रभाचंद्र-पद्मनन्दि-शुभचन्द्र-जिनचन्द्र-विद्यानन्दि-पद्मनन्दि-देवेन्द्रकीर्ति-त्रिभुवन-कीर्ति ऐसी है। दिल्ली-जयपुर तथा सूरत शाखा के कालपदों के अवलोकन से साफ होता है कि यहाँ आप ने दो समकालीन परम्पराओं को एकत्रित कर दिया है। नोट ४३ देखिए।

१३ श्रुतकीर्ति के विषय में पं. परमानन्द का लेख देखिए [अनेकान्त वर्ष १३ पृ. २७९] जिस में उन के योगधार का भी परिचय दिया है।

१४ त्रिभुवनकीर्ति के नाद की यह परम्परा पं. परमानन्द के एक नोट पर से ली गई है जिस में धर्मकीर्ति के एक और ग्रन्थ पद्मपुराण का उल्लेख है। (अनेकान्त वर्ष १२ पृ. २८)


धर्मकीर्ति के बाद पद्मकीर्ति और उन के बाद सकलकीर्ति भट्टारक हुए। इन के उपदेश से संवत् १७११ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १७१२ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति, संवत् १७१८ में एक अन्य मूर्ति तथा संवत् १७२० में एक षोडशकारण यन्त्र स्थापित किया गया (ले. ५३३-५३७)।

सकलकीर्ति के पट्ट पर सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। इन के शिष्य विहारीदास ने संवत् १७५६ में आदिनाथ स्तोत्र लिखा (ले. ५३८)।

ललितकीर्ति के एक और शिष्य रत्नकीर्ति थे। इन के शिष्य चन्द्रकीर्ति ने संवत् १६७५ में एक षोडशकारण यन्त्र तथा संवत् १६८१ में एक सम्यक्चारित्र यन्त्र स्थापित किया (ले. ५३९-४०)।


बलात्कार गण-जेरहट शाखा-कालपट

- १ देवेन्द्रकीर्ति (सूरत शाखा)
- ।
- २ त्रिभुवनकीर्ति [संवत् १५५२-५३]
- ।
- ३ सहस्रकीर्ति
- ।
- ४ पद्मनन्दी
- ।
- ५ यज्ञकीर्ति
- ।



परिशिष्ट १.

बलात्कार गण की शाखा वृद्धि



परिशिष्ट २

काष्ठा-संघ की स्थापना

मध्ययुगीन जैन साधुओं के इतिहास में काष्ठासंघ का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आचार्य देवसेन ने दर्शनसार में- जिसकी रचना संवत् ९९० में धारा नगरी में हुई थी-कहा है कि आचार्य विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने संवत् ७५३ में नंदियड-वर्तमान नांदेड (वम्बई प्रदेश)-में इस संघ की स्थापना की थी। इस संघ का सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख संवत् ११५२ में हुआ है। 'काष्ठासंघ महाचार्यवर्य देवसेन' की चरणपादुकाओं की स्थापना का इस लेख में निर्देश है।

चौदहवीं सदी के बाद इस संघ की अनेक परम्पराओं के उल्लेख मिलते हैं। भ. सुरेन्द्रकीर्ति के अनुसार-जिनका समय संवत् १७४७ है-ये परम्पराएं चार भेदों में विभाजित थीं-माथुर गच्छ, वागड गच्छ, लाडवागड गच्छ तथा नन्दीतट गच्छ। सुरेन्द्रकीर्ति स्वयं नन्दीतट गच्छ के भट्टारक थे।

आश्चर्यकी बात यह है कि बारहवीं सदी तक माथुर, वागड तथा लाडवागड इन परम्पराओं के जो उल्लेख मिलते हैं, उनमें इन्हें संघ की संज्ञा दी गई है; तथा काष्ठासंघ के साथ उन का कोई सम्बन्ध नहीं कहा है।

माथुर संघ के प्रसिद्ध आचार्य अमितगति हैं। आप ने संवत् १०५० से १०७३ तक कोई बारह ग्रन्थ लिखे। इन में से अधिकांश के अन्त में प्रशस्ति में माथुर संघ का यशोगान है; किन्तु काष्ठासंघ का नाम-निर्देश भी नहीं है।

इसी तरह लाडवागड-जिसे संस्कृत में लाटवर्गट कहा गया है-गण के तीन उल्लेख मिलते हैं। इस गण के आचार्य जयसेन ने संवत् १०५५ में सकलीकरहाटक-वर्तमान कन्हाड (वम्बई प्रदेश)-में धर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थ लिखा। प्रायः इसी समय इस गण के दूसरे आचार्य

१ जैन हितैषी, वर्ष १३, पृ. २५७-२५९। २ अनेकान्त, वर्ष १०, पृ. १०५। ३ दानवीर माणिकचन्द्र, पृ. ४७। ४ जैन साहित्य और इतिहास, पृ. २८३-२८५। ५ अनेकान्त वर्ष ८, पृ. २०१-२०३।

महासेन ने प्रद्युम्नचरित लिखा^१। तथा संवत् ११४५ में इस गण के आचार्य विजयकीर्ति के उपदेश से एक मन्दिर बनवाया गया^२। इन तीनों आचार्यों ने अपनी विस्तृत प्रशस्तियों में लाटवर्गटगण की पूरी प्रशंसा की है किन्तु काष्ठासंघ का कोई उल्लेख नहीं किया है।

बागड संघ के आचार्य सुरसेन के उपदेश से प्रतिष्ठापित की गई एक प्रतिमा पर जो शिलालेख मिलता है, उस में भी काष्ठासंघ का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रतिमा का समय संवत् १०५१ है^३। बागड संघ के दूसरे आचार्य यशःकीर्ति ने जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला नामक ग्रन्थ लिखा है। इस में भी काष्ठासंघ का कोई निर्देश नहीं है^४।

इन सब अनुल्लेखों पर से प्रतीत होता है कि सम्भवतः बारहवीं सदी तक माथुर, लाडवागड और बागड इन तीनों संघों का काष्ठासंघ से कोई सम्बन्ध नहीं था। यहा स्मरण रखना चाहिये की नन्दीतट-गच्छ के कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलते, यद्यपि इसी नाम के ग्राम में काष्ठासंघ की स्थापना कही गई है।

काष्ठासंघ का नाम दिल्ली के निकट जो काष्ठा नामक ग्राम है उसी पर से पड़ा है। इस ग्राम की स्थिति पहले काफी अच्छी थी। बारहवीं सदी में यहाँ टक्क वंश के शासकों की राजधानी थी^५। किन्तु इस से पहले इस ग्राम के कोई उल्लेख नहीं मिलते। इस से भी प्रतीत होता है कि माथुर इत्यादि संघों का बारहवीं सदी में एकीकरण हो कर ही काष्ठासंघ

६ पृ. १८३। ७ ए. इ., भा. २, पृ. २३७। ८ ज. ए. सो., भा. १९, पृ. ११०। ९ अनेकान्त, वर्ष २, पृ. ६८६।

१० स्टडीज इन इण्डियन लिटरी हिस्ट्री, भाग. १ पृ. २९०। (प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ 'मदनपाल निघंटु' की रचना इसी स्थान के टक्क शासक मदनपाल द्वारा की गयी। फीरोज तुगलक की माता यहाँ के टक्क शासक की पुत्री थी जिसके दो भाई सण्णपाल और मदनपाल पीछे मुसलमान हो गये थे। गुजरात के मुस्लिम शासक टाक इसी टक्क या टाक सण्णपाल व मदनपाल के वंशज थे।) दे., पी. वी. काणे-हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पूना, भा. १।)

की स्थापना हुई होगी ।

इस से देवसेन कृत दर्शनसार की स्थिति काफी संशयास्पद हो जाती है । यहां स्मरण दिलाना उचित होगा कि यह संशयास्पदता अन्य साधनों से पहले भी व्यक्त हो चुकी है^{११} । काष्ठासंघ के स्थापक कुमारसेन का समय दर्शनसार में संवत् ७५३ कहा गया है । किन्तु उनके गुरु विनयसेन के छोटे गुरुब्रन्धु जिनसेन का समय उनकी 'जयधवला टीका' की प्रशरित से शक ७५९ सुनिश्चित है^{१२} । इसी प्रकार माथुरसंघ की स्थापना दर्शनसार के अनुसार आचार्य रामसेन द्वारा संवत् ९५३ में हुई थी^{१३} । किन्तु संवत् १०५० में इस संघ के आचार्य अमितगति ने अपने पांच पूर्वाचार्यों का उल्लेख करते हुए भी रामसेन का स्मरण नहीं किया है^{१४} ।

ऐसी स्थिति में यही मानना उचित होगा कि माथुर आदि चार संघों का एकीकरण हो कर बारहवीं सदी में काष्ठासंघ की स्थापना हुई थी । सम्भवतः यह कार्य उन देवसेन का ही था जिन की चरणपादुकाएं संवत् १५४५ में स्थापित हुई थीं ।

इससे उनका 'महाचार्यवर्य' यह विशेषण भी सार्थक सिद्ध होता है ।

११ जैन हितैषी, वर्ष १३, पृ. २७१ ।

१२ कसाय पाहुड भा. १ प्रस्तावना, पृष्ठ ६९ ।

१३ जैन हितैषी, वर्ष, १३, पृ. २५९ ।

१४ जैन साहित्य और इतिहास, पृ. २८४ ।

१३. काष्ठासंघ-माधुरगच्छ

लेखांक ५४१ - रामसेन

तत्तो दुसपतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहो ।
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छं वण्णियं तेण ॥

(दर्शनसार ४०)

लेखांक ५४२ - सुभाषितरत्नसन्दोह

अमितगति

आशीर्विभ्रस्तकंतो विपुलशमभृतः श्रीमतः कान्तकीर्तिः ।
सुरैर्यातस्य पारं श्रुतसलिलनिधेर्देवसेनस्य शिष्यः ॥
विज्ञाताशेषशास्त्रो व्रतसमितिभृतामग्रणीरस्तकोपः ।
श्रीमान् मान्यो मुनीनाममितगतियतिस्त्यक्तनिःशेषसङ्गः ॥ ९१५
तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः ।
श्रीमान्माधुरसंघसाधुतिलकः श्रीनेमिवेणोभवत् ॥
शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धूतमोहद्विषः ।
श्रीमान्माधवसेनसूरिरभवत् क्षोणीतले पूजितः ॥ ९१७
दलितमदनशत्रोर्मव्यनिर्व्याजबन्धोः ।
शमदमयममूर्तिश्चन्द्रशुभ्रोरुकीर्तिः ॥
अमितगतिरभूद्यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद् ।
विरचितमिदमर्घ्यं तेन शास्त्रं पवित्रं ॥ ९१९
समारूढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनृपे ।
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाशदधिके ॥
समाप्ते पञ्चन्यामवति धरणीं मुञ्चन्नुपतौ ।
सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम् ॥ ९२२

(निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९०३)

लेखांक ५४३ - वर्धमान नीति

वन्दे मम गुरुं तं च नेमिवेणमुनीश्वरम् ।
परोपकारिणां धुर्यं चित्रं चारित्रमाश्रितम् ॥ ६९
माधवसेनं वन्दे मुनिश्रेष्ठं महीतले ।
नौमि यदिच्छयैवायं ग्रंथो हि निरसीयत् ॥ ७०

यामरसन्धोमचंद्रान्दे तपस्यस्यासिते दले ।

अमितगतिमुनि एतापि (?) जयन्ति जयशालिनः ॥ ७१

(जैन मित्र २-१२-१९२०)

लेखांक ५४४ - धर्मपरीक्षा

संग्रत्सराणां विगते सहस्रे सप्ततौ विक्रमपार्थिवस्य ।

इदं निषिद्धान्यमतं समाप्तं जैनेन्द्रधर्माभृतयुक्तिशास्त्रम् ॥

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. १८१)

लेखांक ५४५ - पञ्चसंग्रह

त्रिसप्तत्याधिकेन्द्रानां सहस्रे शकविद्विपः ।

मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्रं मनोरमम् ॥

[माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई]

लेखांक ५४६ - तत्त्वभावना

वृत्तविश्रुतेनेति कुर्वता तत्त्वभावना ।

सद्योमितगतरेष्टा निर्धृतिः क्रियते क्रे ॥

[प्र. मू. कि. कापडिया, सुरत]

लेखांक ५४७ - उपासकाचार

तस्माद्जायत नयादिव साधुवादः ।

शिष्टार्चितोमितगतिर्जगति प्रतीतः ॥

विज्ञातलौकिकहिताहितकृत्यवृत्तेः ।

आचार्यवर्षपदवीं दधतः पवित्राम् ॥ ६

अयं तद्वित्त्वानिव वर्षणं घनो ।

रजोपहारी विषणापरिष्कृतः ॥

उपासकाचारमिमं महामनाः ।

परोपकाराय महोन्नतोऽकृत ॥ ७

(अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला, बम्बई १९२२)

लेखांक ५४८ - द्वात्रिंशिका

यैः परमात्मामितगतिवंद्यः सर्वविविक्तो भृशमनबद्धः ।
शश्वदधीते मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ॥ ३२

(प्र. मू. कि. कापडिया, सुरत)

लेखांक ५४९ - आराधना

आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या
चिन्तामणिं वितरितुं बुधचिन्तनानि ।
अहाय जन्मजल्धिं तरितुं तरणं
मन्यात्मनां गुणवती ददतां समाधिम् ॥ १२

[जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३६]

लेखांक ५५० - अथूणा मंदिर लेख

छत्रसेन

...तस्य पुत्रास्त्रयोभूवन् भूरिशाल्मनिशारदाः ।
आलोकः साहसाख्यश्च तल्लुकाख्यः परोनुजः ॥ ८
यस्तत्राद्यः सहजविशदप्रज्ञया भासमानः ।
स्वांतादर्शस्फुरितसकलैतिह्यतत्त्वार्थसारः ॥
...यो माथुरान्वयनभस्तलतिग्मभानोः ।

व्याख्यानरंजितसमस्तसमाजनस्य ॥

श्रीछत्रसेनसुगुरोश्चरणारविंद- ।

सेवापरोभवदनन्यमनाः सदैव ॥ ११

आयुस्तप्तमर्हीद्रसारनिहितस्तोकांबुवन्नश्वरं ।

संघित्य द्विपकर्णचंचलतरां लक्ष्म्याश्च हृष्टा स्थितिं ।

ज्ञात्वा शास्त्रसुनिश्चयात् स्थिरतरे नूनं यशःश्रेयसी ।

तेनाकारि मनोहरं जिनगृहं भूमेरिदं भूषणम् ॥ २२

...वर्षसहस्रे याते षट्षष्ठयुत्तरशतेन संयुक्ते ।

विक्रमभानोः काले स्थलविषयमवति सति विजयराजे ॥ २५

विक्रम संवत् ११६६ वैशाख सुदि ३ सोमे वृषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥

(हि. १३ पृ. ३३५)

लेखांक ५५१ - विजौलियामंदिर लेख

गुणभद्र

श्रीमन्माथुरसंघेभूद् गुणभद्रो महामुनिः ।
कृता प्रशस्तिरेषा च कविकंठविभूषणा ॥ ८७
...प्रसिद्धिमगमदेवः काले विक्रमभास्वतः ।
षड्विंशद्वादशशते फाल्गुने कृष्णपक्षके ॥ ९१
चृतीयायां तियौ वारे गुरौ तारे च हस्तके ।
धृतिनामनि योगे च करणे तैतिले तथा ॥ ९२

(भा. २१ पृ. २२)

लेखांक ५५२ - देवी मूर्ति

ललितकीर्ति

संवत् १२३४ वर्षे माघ सुदी ५ बुधे श्रीमान् माथुरसंघे पंडिता-
चार्य धर्मकीर्ति शिष्य ललितकीर्तिः । वर्धमानपुरान्वये सा. प्रामदेव भार्या
प्राहिणी... ॥

[आमला Indian Culture वर्ष ११, पृ. १६८]

लेखांक ५५३ - पद्कर्मोपदेश

अमरकीर्ति

वारह सयइ ससत्तचयालिहि विक्रमसंवच्छरहु विसालहि ॥
गणहि मि भद्रवयहु पक्खंतरि गुरुवारम्मि चउइसि वासरि ॥
इक्के मासे इहु सम्मियउ सइं लिहियउ आलसु अवहत्थियउ ॥
परमेसर पइं णवरसभरिउ विरइयउ णेमिणाहहो चरिउ ॥
अण्णु वि चरित्तु सन्नत्थसहिउ पयइत्थु महावीरहो विहिउ ॥
तीयउ चरित्त जसहर णिवास पद्धडिया वंधे किउ पयासु ॥
टिप्पणउ धम्मचरियहो पयइत्तिह विरयउ जिह बुच्चोइ जइ ॥
सक्कयसिलोयविहि जणियदिहि गुंफियउ सुहासियरणणिही
धम्मोवएसचूडामणिक्खु तह ज्ञाणपईउ जि ज्ञाणसिक्खु ॥
छक्कम्मुवएस सहु पवंध किय अट्टसंख सइ सक्कसंध ॥
सक्कयपाइयकव्वय घणाइं अघराइं कियइं रंजियजणाइं ॥

[अ. ११ पृ. ४१४]

लेखांक ५५४ - नेमिनाथचरित

ताह रज्जिय बट्टंतए विक्कमकालि गए वारह सव चउआलए सुक्खु ।
सुहिवक्खमए भइवएहो सियपक्खेयारसि दिणि तुरिउ ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ५५५ - (पंचास्तिकाय)

गुणकीर्ति

संवत्सरोस्मिन् श्रीविक्रमादित्यगताब्दसंवत् १४६८ वर्षे आषाढ वदि
२ शुक्रदिने श्रीगोपाचले राजाश्रीवीरम्मदेवविजयराज्य-प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठा-
संघे माथुरगच्छे पुष्करगणे आचार्यश्रीभावसेनदेवाः तत्पट्टे श्रीसहस्रकीर्ति-
देवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तेषामान्ताये अत्रोतकान्वचपरमश्रावक-
वंशिलगोत्रीयसंघाधिपति महाराज तद्भार्या साध्वी जाल्ही एतेषां मध्ये
संघइ महाराजवधू साधुनरदेवपुत्री देवसिरी तथा इदं पंचास्तिकायसारग्रंथं
लिखापितं ॥

(का. ४१२)

लेखांक ५५६ - १ मूर्ति

सं. १४७३ श्रावण वदी १ श्रीकाष्ठासंघे भ. श्रीगुणकीर्ति सा.
जिनदास ॥

(मा. प्र. पृ. ६)

लेखांक ५५७ - (भविष्यदत्त पंचमी कथा)

यशःकीर्ति

संवत् १४८६ वर्षे आषाढ वदि ७ गुरुदिने गोपाचलदुर्गे राजा
झंगरसिह राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे आचार्य
श्रीसहस्रकीर्तिदेवाः तत्पट्टे आचार्यश्रीगुणकीर्तिदेवाः तच्छिष्य श्रीयशःकीर्ति-
देवाः तेन निजज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं इदं भविष्यदत्तपंचमीकथा लिखापितं ।

[अ. ८ पृ. ४६५]

लेखांक ५५८ - पांडव पुराण

सिरिकट्टसंघ माहुरहो गच्छ पुक्खरगणि सुणिवई विलच्छि ॥

संजायउ धीरजिणुककमेण परिवाडिय जइवर णिहयएण ॥
 सिरिदेवसेणु तह विमलसेणु तह धम्मसेणु पुणु भावसेणु ॥
 तहो पट्ट उवण्णउ सहसकित्ति अणवरय भमिय जइ जामु कित्ति ॥
 तह विक्खायउ गुणकित्ति णामु तवनेए जामु सरीरु खामु ॥
 तहो णियवंधउ जसकित्ति जाउ आयरिय पणासिय दोमु वाउ ॥

[अ. ७ पृ. १६३]

लेखांक ५५९- रिद्धनेमिचरिउ

गय तिहुयणसयंमु मुरठाणहो जं उव्वरिउ किंपि मुणियाणहो ॥
 तं जसकित्तिमुणिहि उद्वरियउ । णिएवि मुत्तु हरिवंसच्छरियउ ॥
 णियगुरुसिरिगुणकित्ति पसाए । किउ परिपुण्णु मणहो अणुराय ॥
 सरहसेणेदं सेठि आएसे । कुमरणयरी आविउ सविसेसे ॥
 गोवगिरिहे समीवे विसालए । पणियारहे जिणवरचेयालए ॥
 भइवमासि विणासियभवकलि । हुउ परिपुण्णु चउदिसि णिम्मलि ॥

[जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३१३]

लेखांक ५६० - आदिनाथ मूर्ति

संवत् १४९७ वर्षे वैसाख... ७ शुक्ले पुनर्वसुनक्षत्रे श्रीगोपाचलदुर्गे
 महाराजाधिराज राजा श्रीद्वंग(रसिंह) राज्य संवर्तमाने श्रीकाण्डसंघे साधुर-
 गच्छे पुष्करगणे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. यशःकीर्तिदेवाः प्रतिष्ठाचार्य
 पंडित रद्दधु तेषां आम्राये अम्रोतवंशे गोयलगोत्रे साधु... ॥

(अ. १० पृ. ३८०)

लेखांक ५६१ - सम्मइजिन चरिउ

सिरि अयरवालकवंसम्मि सारण ।
 ...दहएगपडिमाणपालण सणेहेण ।
 खेल्हादिहाणेण णमिउणं गुरु तेण ।
 जसकित्ति विणयत्तु मंडिय गुणोहेण ।
 ससिपट्टजिणेंद्रस्त पडिमा विसुद्धस्त ।
 काराविद्या मेइजि गोवायले तुंग ॥

(अ. १० पृ. १११)

लेखांक ५६२ - आदिपुराण

सिरिगुणकित्ति णामु जइपुंगमु तउ तवेइ जो दुविहु असंगसु ॥
 पुणु तहु पट्टिय वरजसभायणु सिरिजसकित्ति भव्वसुहदायणु ॥
 तहु पयपंकयाहि पणमंतउ जा बुह णिवसइ जिणपयभत्तउ ॥
 ता रिसिणा सो भणिउ विणोए हत्थु णिएवि सुसुहत्ते जोए ॥
 भो सिंघियसेणय सुसहाए होसि वियक्खणु मब्बु पसाए ॥
 इय भणेवि मंतक्खर दिण्णउ तेणारहिउ तं जि अछिण्णउ ॥
 चिरपुण्णे कइत्तगुणसिद्धउ सुगुरुपसाए हुवउ पसिद्धउ ॥

(हि. १३ पृ. १०४)

लेखांक ५६३ - १ यंत्र

मलयकीर्ति

संवत् १५०२ वर्षे कार्तिक सुदि ५ औमदिने श्रीकाष्ठासंधे म. श्रीगुण-
 कीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीयशकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीमल्लैकीर्तिदेवान्वये साहू वरदेवा
 तस्य भार्या जैणी ॥

(अहार, अ. १० पृ. १५६)

लेखांक ५६४ - १ मूर्ति

सं. १५१० माघ सुदि १३ सौमे श्रीकाष्ठासंधे आचार्य मलयकीर्ति-
 देवाः तयो प्रतिष्ठितम् ॥

(भा. प्र. पृ. १३)

लेखांक ५६५ - [समयसार]

गुणमद्र

गगनावनिभूतेन्दुगण्ये श्रीविक्रमाद्रते ।

अब्दे राधे तृतीयायां शुक्लायां बुधवासरे ॥ २

जिनालथैराढ्यगृहैर्विमानसमैर्वरैश्चुम्बितवायुमार्गः ।

अदीनलोको जनभित्तसौख्यप्रदोस्ति गोपाद्रिर्हिर्धिपूर्णः ॥ ३

श्रीतोभरानूकशिखामणित्वं यः प्राप भूपालशतार्चितांघ्रिः ।

श्रीराजमानो हतशत्रुमानः श्रीहुंगरेद्रोत्र नराधिपोस्ति ॥ ४

दीक्षापरीक्षानिपुणः प्रभावान् प्रभावयुक्तोद्यमदादियुक्तः ।

श्रीमाथुरानूकल्लामभूतो भूनाथमान्यो गुणकीर्तिसूरिः ॥ ५
 ...पट्टे तदीयेजनि पुण्यमूर्तिः श्रीमान् यशःकीर्तिरल्पगिष्यैः ॥ ६
 ...तेजोनिधिः सूरिगुणाकरोस्ति पट्टे तदीये मलयादिकीर्तिः ॥ ७
 ...पट्टे नतोस्थारिरनंगसंगभंगः कलेः श्रीगुणभद्रसूरिः ॥ ८
 आम्नाये वरगर्गोत्रतिलकं तेषां जनानंदकृन् ।
 यो अन्ययमुखसाधुमहितः श्रीजैनधर्मावृतः ॥
 दानादिव्यसनो निरुद्धकुनयः सम्यक्त्वरत्नांबुधिः ।
 जज्ञेसौ जिणदाससाधुरनघो दासो जिनांधिद्वयोः ॥ ९

(अ. २४)

लेखांक ५६६ - [पंचास्तिकाय]

संवत् १५१२ वर्षे माघ शदि २ बुधे श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे
 भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे श्रीमलयकीर्तिदेवाः
 तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः । भ. श्रीगुणमद्रेर्निजकर्मक्षयाय इदं पंचास्तिकाय-
 शास्त्रं ब्र. धर्मदासाय प्रदत्तं ॥

(का. ४१२)

लेखांक ५६७ - [ज्ञानार्णव]

संवत् १५२१ वर्षे असाढ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्गे तोमर-
 वंशे राजाधिराजश्रीकीर्तिसिंहराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे
 पुष्करगणे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ.
 श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः तद्दाम्नाये गर्गोत्रे... ॥

(अ. ५ पृ. ४०३)

लेखांक ५६८ - आदिनाथ मूर्ति

सं. १५२९ वै. सुदी ७ बुधे श्रीकाष्ठासंघे भ. श्रीमलयकीर्ति भ. गुण-
 भद्राम्नाये अग्रोत्कान्वये मित्तलगोत्र... ॥

(भा. प्र. पृ. ८)

लेखांक ५६९ - आदिनाथ मूर्ति

सं. १५३१ फाल्गुण सुदी ५ शुक्रे श्रीकाष्ठासंघे भ. गुणभद्राम्नाये
 वैसवाल सा. काल्हा भार्या जयश्री... ॥

(भा. प्र. पृ. ८)

लेखांक ५७० - नेमिनाथ मूर्ति

सं. १५३७ वैशाख सुदी १० बुधे काष्ठासंघे भ. मलयकीर्ति भ. गुण-
भद्राभाये अमोक्तान्वये गोकुलगोत्रे सा. राजू भार्या जाल्दी.....महाराज-
श्रीकल्याणमल्लराज्ये ॥

(भा. प्र. पृ. १४)

लेखांक ५७१ - चौबीसी मूर्ति

संवत् १५४८ वैशाख सुदि ५ काष्ठासंघे भ. गुणभद्रदेवा सा ल्ख्णा
सुत तिहुणा ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०६)

लेखांक ५७२ - [महापुराण-पुष्पदंत]

संवत् १५७५ वर्षे भाद्रवा सुदि बुद्धदिने कुरुजांगलदेसे सुलितान-
सिकंदरपुत्र सुलितान इनाहिसु राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये
पुष्कराणे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाभाये जैसवालु चौ. टोडरमल्ल इदं
वत्तरपुराणटीका लिखापितं ॥

(प्रस्तावना पृ. १५ माणिकचंद्र ग्रंथमाला, नम्बई)

लेखांक ५७३ - गुटक

स्वस्ति श्रीविक्रमार्कसंवत्सर १५७६ जेठ वदि १ पडिवा शुक्रदिने
कुरुजांगलदेशे सुवर्णपथनाम्नि सुदुर्गे सिकंदरसाहि तत्पुत्र सुलितान इनाहिसु
राज्य प्रवर्तमाने काष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्कराणे आचार्यश्रीमाहवसेनदेवाः
तत्पट्टे भ. उद्धरसेनदेवाः तत्पट्टे भ. देवसेनदेवाः तत्पट्टे भ. विमलसेनदेवाः
तत्पट्टे भ. धर्मसेनदेवाः तत्पट्टे भ. भावसेनदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्तिदेवाः
तत्पट्टे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. यशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. मलयकीर्ति-
देवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणचंद्र तच्छिष्य ब्रह्म मांडण
एषां गुरुणामाभाये...॥

(अ. ५ पृ. २५७)

लेखांक ५७४ - शान्तिनाथचरित्र

इह जोयणिपुरु पुरवरहं सारु जहु वण्णणि इह सक्कु वि असारु ।
 ...पसंतणिवइ संगहइ दंडु रायाहिराउ वट्ठरु पयंडु ।
 ...जहि सुणिवर सत्थइ वायरंति महजण्ण पूय सावय करंति ।
 ...तह कट्ट संघ माहुर वि गच्छि पुक्खरगण सुणिवर चइवि लच्छि ।
 जसमुत्ति वि जसकित्ति वि सुणिंदु मव्वयणकमलवियसणदिणेंदु ।
 तहु सीसु वि सुणिवरु मलयकित्ति अणवरय भमइ जगि जाह कित्ति ।
 तहु सीसु वि गुणगणरयणभूरि भुवणयलि सिध्दु गुणभइसूरि ।
 तहु पयभत्तउ साहु भोयराउ जाणिज्जइ ।
 गुणवट्टियइ णिवास जोयणिपुरि णिवसिज्जइ ॥
 ...पयाहँ मच्चि साहारणेण काराविउ ष्हु गंधु तेण ।
 कम्मक्खय वि णिमित्तँ सारउ संतिणाहचरिउ वि गुणारउ ।
 ...विक्कमरायहु ववगयकालइ रिसिवसुसरभुवि अंकालइ ।
 कत्तिप पढम पक्खि पंचमि दिणि हुउ पुरिपुण्णु वि उगंतइ इणि ॥

(अ. ५ पृ. २५४)

लेखांक ५७५ - (धनदचरित्र)

अथ संवत्सरेस्मिन् श्रीनृपविक्रमादित्यराज्ये सं. १५९० वर्षे मार्ग-
 शिर सुदि ११ दिने बृहस्पतिवारे अश्विनीनक्षत्रे परिघजोगे श्रीकुरुजांगल-
 देशे सुलितान मुगल काबली हमायुंराज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुर-
 गच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः
 तस्य शिष्य मुनि धर्मदास तस्य आम्राथे अत्रोतकवंशभूषणे गर्गोत्र दहीर-
 पुरवास्तव्य श्रावकाचारविचारणैकविदग्धान् सा. डाल् .. ॥

(अ. ५ पृ. ५०)

लेखांक ५७६ - (उत्तरपुराण-पुष्पदंत)

भानुकीर्ति

संवत् १६०६ वर्षे मार्गसिर वदि ८ अष्टमी तिथौ भृगुवासरे आदौ
 अश्लेषातारे मघानाम्नि नक्षत्रे शुभनाम्नि योगे भयाणाजनपदे अत्राह्याबाव
 शुभस्थाने सुरिसाह सलेमसाहि विजयराज्ये श्रीमत्काष्ठासंघ माथुरान्वये

पुष्करगणे भ. श्रीगुणकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीयशःकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. मलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीभानुकीर्तिस्तदन्वये अत्रोतकान्वये गोयलगोत्रे... एतेषां मध्ये सा रूपचंदेन उत्तरपुराणाख्यं शास्त्रं लिखाप्य भ. श्रीभानुकीर्तये दत्तं निजज्ञानावर्णीकर्मक्षयनिमित्तं ॥

(म. प्रा. पृ. ७२३)

लेखांक ५७७ - [भविष्यदत्तचरित]

कुमारसेन

संवत् १६१५ वर्षे फागुण सुदि सप्तमी बुधवासरे अक्षवरराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीभानुकीर्तिदेवाः तत्सिष्य मंडलाचार्य श्रीकुमारसेनदेवा तदाज्ञाये अत्रोतकान्वये गोइलगोत्रे .. ॥

(अ. ७ पृ. ५०)

लेखांक ५७८ - जंबूस्वामिचरित-राजमल्ल

श्रीमति काष्ठासंघे माथुरगच्छेथ पुष्करे च गणे ।
 लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमानेथ ॥ ६०
 तत्पट्टे परममलयकीर्तिदेवास्ततः परं चापि ।
 श्रीगुणभद्रःसूरिर्महारकसंज्ञकश्चाभूत् ॥ ६१
 तत्पट्टसुखसुदयाद्रिमिवानु भानुः
 श्रीभानुकीर्तिरिह भाति हतांधकारः ।
 उद्द्योतयन्निखिलसूक्ष्मपदार्थसाथान्
 महारको भुवनपालकपद्मबंधुः ॥ ६२
 तत्पट्टमब्धिमभिवर्धनहेतुरिन्दुः
 सौम्यः सदोदयमयो लसदंशुजालैः ।
 ब्रह्मप्रताचरणनिर्जितमारसेनो
 महारको विजयतेऽथ कुमारसेनः ॥ ६३

[अध्याय १]

लेखांक ५७९ - [जंबूस्वामिचरित-राजमल्ल]

अथ संवत्सरेस्मिन् श्रीनृपविक्रमादित्यगताब्दसंवत् १६३२ वर्षे चैत्र

सुदि ८ वासरे पुनर्वसुनक्षत्रे श्रीवर्गलपुरदुर्गे श्रीपातिसाहजलालदीनअक-
वरसाहिप्रवर्तमाने श्रीमत्काष्ठासंघे माधुरगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्यान्वये
भ. श्रीमलयकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमानु-
कीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीकुमारसेननामधेयास्तदान्नाथे अग्रोतकान्वये भटानि-
याकोलवास्तव्यसाधुश्रीनंदन...एतेषां मध्ये परमसुश्रावकसाधुश्रीटोडरेन
जंवूस्वामिचरित्रं कारापितं ॥

(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई)

लेखांक ५८० - पट्टावली

माधवसेन

श्रीमन्माधवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकाशोद्भसत्-
स्वात्मा लोकनिनीयमात्मपरमानंदोर्मिसंवर्दिनम् ।
ध्यायामि स्फुरदुग्रकर्मनिगणोच्छेदाय विष्वग्भवा-
वर्ते गुप्तिगृहे वसन्नहरहर्मुक्त्यै स्पृहावानिव ॥ २२

(भा. १ कि. ४ पृ. १०४)

लेखांक ५८१ - पट्टावली

विजयसेन

समजनि जनिताशः क्षिप्तदुष्कर्मपाशः
कृतशुभगतिवासः प्रोद्गतात्मप्रकाशः ।
जयति विजयसेनः प्रास्तकंदर्पसेनः
तदनु मनुजवंधः सर्वभावैरनिंद्यः ॥ २३

[उपर्युक्त]

लेखांक ५८२ - पट्टावली

नयसेन

तत्पट्टपूर्वाचलचंडरश्मिनीश्वरोभूजयसेननामा ।
तपो यदीयं जगतां त्रयेपि जेगीयते साधुजनैरजस्रम् ॥ २५
यद्यस्ति शक्तिर्गुणवर्णनायां मुनीशितुः श्रीनयसेनसुरैः ।
तदा विहायान्यकथां समस्तां मामोपवासं परिवर्णयन्तु ॥ २६

(उपर्युक्त)

लेखांक ५८३ - पट्टावली

श्रेयांससेन

शिष्यस्तदीयोस्ति निरस्तदोषः श्रेयांससेनो मुनिपुंडरीकः ।

अध्यात्ममार्गे खलु येन चित्तं निवेशितं सर्वमपास्य कृत्यं ॥ २७

(उपर्युक्तं पृ. १०५)

लेखांक ५८४ - पट्टावली

अनंतकीर्ति

तत्पट्टधारी सुकृतानुसारी सन्मार्गचारी निजकृत्यकारी ।

अनंतकीर्तिर्मुनिपुंगवोत्र जीयाज्जगल्लोकहितप्रदाता ॥ २९

[उपर्युक्तं]

लेखांक ५८५ - पट्टावली

कमलकीर्ति

प्रसुरवरकीर्तिः सर्वतोऽनंतकीर्तिः

गगनवसनपट्टे राजते तस्य पट्टे ।

सकलजनहितोक्तिः जैनतत्त्वार्थवेदी

जगति कमलकीर्तिर्विश्वविख्यातकीर्तिः ॥ ३१

(उपर्युक्तं)

लेखांक ५८६ - ? मूर्ति

संवत् १४४३ ज्येष्ठ सुदी ५ गुरौ महासारस्यज राजा नाथदेव राज्य-
प्रवर्धमाने काष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे प्रतिष्ठा...कमलकीर्तिदेव जैस-
वाल विसाल रागा(संघा)चार्य... ॥

[मसाद, जैनमित्र २-८-१९११]

लेखांक ५८७ - पट्टावली

क्षेमकीर्ति

अध्यात्मनिष्ठः प्रसरत्प्रतिष्ठः कृपावरिष्ठः प्रतिभावरिष्ठः ।

पट्टे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशास्यः श्रीक्षेमकीर्तिः कुमुदेन्दुकीर्तिः ॥ ३३

(मा. १ कि. ४ पृ. १०५)

लेखांक ५८८ - (प्रवचनसार)

हेमकीर्ति

विक्रमादित्यराज्येस्मिञ्चतुर्दशपरे शते ।

नवषष्ठया युते किन्तु गोपाद्रौ देवपत्तने ॥ ३

अनेकभूभुक्पदपद्मलभस्तस्मिन्निवासी ननु पाररूपः ।

शृंगारहारो भुवि कामिनीनां भूभुक्प्रसिद्धः श्रीवीरमेंद्रः ॥ ४

...श्रीकाष्ठसंधे जगति प्रसिद्धे महद्गुणौघे त्रयमाश्रुरान्वये ।

सदा सदाचारविचारदक्षे गणे सुरन्ये वरपुष्कराख्ये ॥ ८

मुनीश्वरोभून्नयसेनदेवः कृशाष्टकर्मा यशसां निवासः ।

पट्टे तदीये मुनिरश्वसेन आसीत्सदा ब्रह्मणि दत्तचेताः ॥ ९

पट्टे तदीये शुभकर्मनिष्ठोप्यनंतकीर्तिगुणरत्नवार्धिः ।

मुनीश्वरोभूज्जिनशासनंदुस्तत्पट्टधारी भुवि क्षेमकीर्तिः ॥ १०

पट्टे तदीये ननु हेमकीर्तिस्तपःप्रभानिर्जितभानुभानुः ।

रत्नत्रयालंकृतधर्ममूर्तिर्यतीश्वरोभूज्जगति प्रसिद्धः ॥ ११

...पारावारो हि लोके यो जनानिमिषसेवितः ।

देवकीर्तिमुनिः साक्षात् परं क्षारविवर्जितः ॥ १३

व्याख्यायैव गुरुः साक्षात् पशुधर्मविनिर्गतः ।

पद्मकीर्तिमुनिर्भाति परं रागविवर्जितः ॥ १४

...प्रतापचंद्रो हि मुनिप्रधानः स्वव्याख्यया रंजितसर्वलोकः ।

निर्यात्रितात्मीयमनोविहंगो विवादिभूभृत्कुलिशो नितांतः ॥ १६

गुणरत्नैरकूपारो भवभ्रमणशंकितः ।

हेमचंद्रो यतिः साक्षात् परं प्राहविवर्जितः ॥ १७

पद्मकीर्तिमुनेः शिष्यो गुणरत्नमहोनिधिः ।

ब्रह्मचारी हरीराजः शीलव्रतविभूषितः ॥ १९

(रायचंद्र शास्त्रमाला, बम्बई १९३५)

लेखांक ५८९ - आराधनासारटीका

अश्वसेनमुनीशोभूत् पारदृशवा श्रुतांबुधेः ।

पूर्णचंद्रायितं येन स्याद्वादविपुलांबरे ॥ १

श्रीमाश्रुरान्वयमभूदधिपूर्णचंद्रो

निर्घृतमोहतिमिरप्रसरो युनींद्रः ।
 तत्पट्टमंडनमभूत् सदन्तकीर्ति-
 ध्यानाभिदग्धकुसुमेषुरनंतकीर्तिः ॥ २
 काष्ठासंधे भुवनविदिते क्षेमकीर्तिस्तपस्वी
 लीलाध्यानप्रस्रमरमहामोहदावानलामः ।
 आसीद्दासीकृतरतिपतिभूपतिश्रेणिवेणी-
 प्रत्यमस्रवत्सहचरपदद्वंद्वपद्मस्ततोपि ॥ ३
 तत्पट्टोदयभूधरेत्तिमहति प्राप्तोदये दुर्जयं
 रागद्वेषमहांधकारपटलं संवित्करैर्दरिथन् ।
 श्रीमान् राजति हेमकीर्तितरणिः स्फीतां विकाशश्रियं
 भव्यांभोजचये दिगंबरपथालंकारभूतो दधत् ॥ ४
 विदितसमयसारज्योतिषः क्षेमकीर्ति (ते)-
 हिमकरसमकीर्तिः पुण्यमूर्तिर्विनेयः ।
 जिनपतिशुचिवाणीस्फारपीयूषवापी-
 स्नपनशमिततापो रत्नकीर्तिश्चकास्ति ॥ ५
 आदेशमासाद्य गुरोः परात्मप्रबोधनाय श्रुतपाठचंचु ।
 आराधनाया मुनिरत्नकीर्तिष्ट्रीकामिमां स्पष्टतमां व्यधत् ॥ ६
 [माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई]

लेखांक ५९० - चंद्रप्रभमूर्ति

कमलकीर्ति

संवत् १५०६ वर्षे ज्येष्ठ सुदी १५ शुके काष्ठासंधे श्रीकमलकीर्तिदेवाः
 तदान्नाये सा. थिरू स्त्री भानदे पुत्र सा. जयमाल जाल्हण ते प्रणमंति
 महाराज पुत्र गोशल ॥

(मा. प्र. पृ. १३)

लेखांक ५९१ - (भविसत्तकहा)

प्रमदांवरसद्द्रव्यसंमिते समये वरे ।
 कार्तिके भासि शुद्धायां पंचम्यां भौमवासरे ॥
 गोपाचलमहादुर्गे चतुर्वर्णसमाकुले ।
 निजधिरुपधितस्वर्गे पुरे जिनमतोदये ॥

तत्रास्ति नरेंद्रो हि धरे वादीभकेशरी ।
 हुंगरेंद्रोन्यराजेंद्रमंडलीमहितो महान् ॥
 श्रीकाष्ठासंधविख्यातमाथुरान्वयसन्मणौ ।
 गणेशगणसंभूतिसत्खनौ पुष्करे गणे ॥
 श्रीगौतमान्वयायातानंतकीर्तेः पदाग्रणीः ।
 पट्टाचार्यो हि तेजस्वी कंजकीर्तिरभूद्यमी ॥
 जैनागमाभ्यात्मविचारदक्षो
 व्यक्तीकृतात्मार्थपरार्थदक्षः ।
 तस्यास्ति पट्टे मुनिवृन्दवन्द्यः
 श्रीक्षेमकीर्तिर्वरपुण्यमूर्तिः ॥
 पट्टोदयाद्रिशिखरे मुनिहेमकीर्तेः
 प्राप्तोदयः कमलकीर्तिरखंडकीर्तिः ।
 साहित्यलक्षणविवादपट्टः प्रमाणी
 मिथ्यात्वघादिक्रमुदाकरचंडरश्मिः ॥
 तेपामात्राये..... ॥

[म. प्रा. पृ. ७५६]

लेखांक ५९२ - महावीर मूर्ति

सं. १५१० वर्षे माघ सुदि ८ सोमे काष्ठासंधे भ. कमलकीर्तिदेव
 अग्रोत्कान्वये गर्गगोत्रे तारन भा. देन्ही पुत्र सहय भा. वारु पुत्र वेमचंद्र
 प्रणमंति ॥

[मा. प्र. पृ. ५]

लेखांक ५९३ - १ मूर्ति

शुभचंद्र

संवत् १५३० वर्षे माघ सुदि ११ शुके श्रीगोपाचलदुर्गे महाराजा-
 श्रीकीर्तिसिंघदेव काष्ठासंधे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीहेमकीर्ति तत्पट्टे
 भ. कमलकीर्ति तत्पट्टे भ. शुभचंद्रदेव तदाम्नाए अग्रोत्कान्वये गर्गगोत्रे
 सं. ॥

[रणधंभौर, अ. ८ पृ. ४४८]

लेखांक ५९४ - हरिवंशपुराण-रङ्गधू

कमलकित्ति उत्तम खमंधारउ भव्वहि भवअंवेणिहितारउ ।
तत्सपट्टकणयद्विपरिट्ठिउ सिरिसुहचंदु सुतवउक्कंठिउ ॥

[अ. ११ पृ. २६८]

लेखांक ५९५ - दशलक्षण यंत्र

यशःसेन

सं. १६३९ वैशाख वदि ८ चंद्रवासरे श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे
पुष्करगणे भ. श्रीकमलकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीशुभचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. यशः-
सेनदेवाः तदान्नाये पद्मावतीपुरवालान्वये साव होरगू .. ॥

[फतेहपुर, अ.११ पृ. ४०८]

लेखांक ५९६ - अमरसेनचरित- माणिक्यराज

पद्मनंदी

सिरि खेमकित्तिपट्टहि पवीणु सिरिहेमकित्ति जि हयउ वामु ।
तहु पट्ट वि कुमरविसेण गामु
तहु पट्टि णिविट्ठिउ बुहपहाणु सिरिहेमचंदु मयतिमिरभाणु ।
तं पट्टि धुरंधरु वयपवीणु वर पोमणंदि जो तवह खीणु ।
तं पणविवि णियगुरु सीलखाणि
...विक्रमरायहु ववगइ कालइ लेसु मुणीस वि सर अंकालइ ।
धरणि अंक सहु चइत वि मासे सणिनारे सुयपंचमिदिवसे ॥

[अ. १० पृ. १६१]

लेखांक ५९७ - शिलालेख

यशःकीर्ति

विक्रमादित्य संवत् १५७२ वर्षे वैशाख सुदी ५ वार सोमे भ. श्रीजश-
कीर्ति राजश्रीकला भार्या सौनवाई विजयी राज इर्दा धूलेव ग्रामं प्रति
श्रीऋषभनाथ प्रणम्य.....श्रीकाष्ठासंघे बाजा न्यात काश्यपगोत्र राकडिया
हिसा मंडप नव चूकीय..... ॥

[केशरियाजी, वीर २ पृ. ४५९]

लेखांक ५९८ - लाटीसंहिता-राजमल्ल

श्रीमति काष्ठासंघे माथुरगच्छेथ पुष्करे च गणे ।
 लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमाने च ॥ ६४
 आसीत् सूरिकुमारसेनविदितः पट्टस्थभट्टारकः... ॥ ६५
 तत्पट्टेजनि हेमचंद्रगणभृत् भट्टारकोर्वीपतिः... ॥ ६६
 तत्पट्टेभवद्दहताभवयवः श्रीपद्मनंदी गणी... ॥ ६७
 तत्पट्टे परमाख्यया मुनियशःकीर्तिश्च भट्टारको
 नैर्ग्रथ्यं पदमार्हतं श्रुतवलादादाय निःशेषतः ।
 मर्षिर्दुग्धदधीक्षुतैलमखिलं पंचापि यावद्गमान्
 त्यक्त्वा जन्ममथं तद्गुणमकरोत् कर्मक्षयार्थं तपः ॥ ६८

[अध्याय १]

लेखांक ५९९ - मुगति शिरोमणि चूनडी

महेंद्रसेन

अरे राज लखली जहांगीरका फिरिय जगति तिस आनि हौ ।
 शशि रस वसु विंदा धरहौ संवत मुनहु सुजानहौ ॥
 गुरु मुनि माहेंद्रसेनजी पदपंकज नमुं तास हौ ।
 सहर सुहाया बूढियै कहत भगौतीदास हौ ॥ ३५

(म. ३६)

लेखांक ६०० - अनेकार्थ नाममाला

सोलह सय रु सतासियइ साढि तीज तम पाखि ॥
 गुरु दिन श्रवण नक्षत्र भनि प्रीति जोगु पुनि भापि ॥ ६६
 साहिजहांके राजमहि सिहरदिनगर मंगारि ।
 अर्थ अनेक जु नामकी माला भनिय विचारि ॥ ६७
 गुरु गुणचंदु अर्निद रिस्ति पंच महात्रतधार ।
 सकलचंद तिस पट्ट भनि जो भवसागर तार ॥ ६८
 तासु पट्ट पुनि जानिए रिस्ति मुनि माहिंद्रसेन ।
 भट्टारक भुवि प्रगट जसु जिनि जितियो राणि मैन ॥ ६९

... .. कवि सु भगौतीदासु ।
तिनि लघुमति दोहा करे बहुमति करहु न हासु ॥ ७०

[अ. ५ पृ. १५]

लेखांक ६०१ - ज्योतिषसार

वर्षे षोडशशतचतुर्नवतिमिते श्रीविक्रमादित्यके
पंचम्यां दिवसे विशुद्धतरके मास्याश्विने निर्मले ।
पक्षे स्वातिनक्षत्रयोगमहिते वारे बुधे संस्थिते
राजत्साहिसहावदीनमुवने साहिजहां कथ्यते ॥
श्रीमद्भारकपद्मनंदिसुधियो देवा वभूवुर्मुवि
काष्ठासंघशिरोमणीभ्युदयदे ख्याते गणे पुष्करे ।
गच्छे माथुरनाम्नि जोजतिवरा क्रीर्तिर्धनः सत्यदात्
तत्पट्टे गुणचंद्रदेवगुणिनस्तत्पट्टपूर्वाचले ॥
सूर्याभाः सकलादिचंद्रगुरवस्तत्पट्टशोभाकराः
संजाता हि महेंद्रसेनविपुला विद्यागुणालंकृताः ॥
...वर्धमानके देहरइं नौवन कोट हिसार ।
दास भगौतीने मन्यौ सो पुणु परोपकारि ॥

(म. २)

लेखांक ६०२ - वैद्यविनोद

श्रीमद्भारकमाहेद्रसेनगुरवे नमः ॥
...सत्रहसइं रुचिढोत्तरइं सुकल चतुर्दशि चैतु ।
गुरु दिन भनी पुरनु करिउ सुलितांपुरि सह जयतु ॥
लिखिउ अकवरावाद गिरु साहजहां के राज ।
साहनि महसंपइसरिसु देवकोसमजवाज ॥
कृष्णदासतनुरुह गुणी नथरी बुढियइ वासु ।
सुहव जु जोगीदास कउ कवि सु भगवतीदासुं ॥

(म. ३)

लेखांक ६०३ - बृहत् सीता सतु

देसकोस गजि बाज जासु नमहि नृप क्षत्रपति ।
जहांगीरकौ राज सीता सतु मै भनि किया ॥ ८०

गुरु गुणचंद आनंदसिंधु वखानिये ।
 सकलचंद तिस पट्ट जगत तिस जानिये ।
 तासु पट्ट जसु नाम खमागुनमंडनो ।
 परहां गुरु मुनि माहिंदसेन मुणहु दुख खंडणो ॥ ८१
 गुरु मुनि माहिंदसेन भगौती तिस पद पंकज रैन भगौती ।
 किसनदास बणिड तनुजभगौती तुरिये गहिड ब्रत मुनि जु भगौती ॥
 नगर बूढियै वसै भगौती जन्मभूमि है आसि भगौती ।

(अ. ११ पृ. २०५)

लेखांक ६०४ - (नवांककेवली)

श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीगुणचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ.
 श्रीसकलचंद्रदेवाः तत्पट्टे भ. श्रीमाहेंद्रसेनदेवाः तत्शिष्य पं. भगौतीदास
 तेनेदं गोतमस्वामि नवांककेवली लिपिकृतः । वाई मथुरा पठनार्थं लिखापितं
 अर्गलपुरस्थाने ॥

(म. ४)

लेखांक ६०५ - [द्वात्रिंशदिंद्र केवली]

श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमाहेंद्रसेन तत्शिष्य पं.
 भगौतीदासेन तेनेदं द्वात्रिंशत् इंद्रकेवली गौतमस्वामिगाथाकृतं । ततो
 वचनिका कृतं ॥

(म. ५)

लेखांक ६०६ - लाटीसंहिता

श्लोकार्ति

श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति ॥
 सहैकचत्वारिंशद्विरब्दानां शतषोडश ॥ २
 तत्रादि चान्धिनी मासे सितपक्षे शुभान्विते ।
 दशम्यां च दाशरथे शोभने रविवासरे ॥ ३
 अस्ति साम्राज्यतुल्योसौ भूपतिश्चाप्यकन्वरः ।
 महद्भिर्मंडलेशैश्च चुंबितांहिपदांबुजः ॥ ४
 अस्ति दैगंबरो घर्मा जैनः शमैककारणम् ।

तत्रास्ति काष्ठासंघश्च क्षालितांहःकदम्बकः ॥ ५
 तत्रापि माथुरो गच्छो गणः पुष्करसंज्ञकः ।
 लोहाचार्यान्वयस्तत्र तत्परंपरया यथा ॥ ६
 नाम्ना कुमारसेनोभूद्भट्टारकपदाधिपः ।
 तत्पट्टे हेमचंद्रोभूद्भट्टारकशिरोमणिः ॥ ७
 तत्पट्टे पद्मनंदी च भट्टारकनभौशुमान् ।
 तत्पट्टेभूद्भट्टारको यशस्कीर्तिस्तपोनिधिः ॥ ८
 तत्पट्टेक्षेमकीर्तिः स्यादद्य भट्टारकाग्रणीः ।
 तदाज्ञायै सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकनि ॥ ९
 तत्रत्यः श्रावको भारुः..... ॥ १०
 एतेषामस्ति मध्ये गृहवृषरुचिमान् फामनः संघनाथ—
 स्तेनोच्चैः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम छाटी ।
 श्रेयर्थं फामनीचैः प्रमुदितमनसा दानमानासनाचैः
 स्वोपज्ञा राजमहलेन विदितविदुषाज्ञायिना हैमचंद्रे ॥ ३८

(माणिकचन्द्र प्रथमाला, बम्बई १९२७)

लेखांक ६०७ — पट्टावली

त्रिभुवनकीर्ति

श्रीमच्छ्रीक्षेमकीर्तिः सकलगुणनिधिर्विष्टपे भूरिपूज्यः
 तेषां पट्टे समोदः समजनि मुनिभिः स्थापितो शास्त्रविद्भिः ।
 श्री...रे हिसारे...सुयतिततिवराः सत्क्रियोद्योतपुंजे
 सोनदं तासु सेव्यत्रिभुवनपुरतःकीर्तिपः सूरिराजः ॥ ४३

[भा. १ कि. ४ पृ. १०६]

लेखांक ६०८ — पट्टावली

सहस्रकीर्ति

धात्रीमंडलमंडनस्तु जयतात् श्रीसहस्रकीर्तिर्गुरुः
 राजद्राजक्यातिसाहिविदितो भट्टारकाभूषणः ।
 वर्षे वह्निनगांकचंद्रकमिते शुच्यार्यनम्रे दिने
 पट्टेभूत् स च यस्य वै त्रिभुवनाद्याकीर्तिपट्टे स्थिते ॥ ४५

(भा. १ कि. ४ पृ. १०८)

लेखांक ६०९ - दशलक्षण यंत्र

सं. १६८५ माह सुदि ५ गुरुवासरे श्रीकाष्ठासंचे माथुरगच्छे पुष्कर-
गणे लोहाचार्याम्नाये भ. श्रीयशःकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीक्षेमकीर्ति तत्पट्टे भ.
त्रिभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति शिष्य जयकीर्ति तदाम्नाये पातिसाह
श्रीसाहजांह खूरम दिल्ली राज्ये कयामखां वंशे फतेहपुरे दिवान अलीखां
तत्पुत्र दिवान श्रीदौलतखां राज्ये गर्गगोत्र सा. सांतू...भ. श्रीसहस्रकीर्ति-
उपदेशे सा. माला दशलक्षणीयंत्रं प्रतिष्ठापितं फतेहपुरमध्ये ।

(अ. ११ पृ. ४०८)

लेखांक ६१० - चरणपादुका

संवत् १६८८ वर्षे फागुण सुदि ८ शनिवासरे श्रीकाष्ठासंचे माथुर-
गच्छे पुष्करगणे तदाम्नाये भ. जसकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. क्षेमकीर्तिदेवाः
तत्पट्टे श्रीत्रिभुवनकीर्तिदेवाः तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति तस्य शिष्यणी अर्जिका
श्रीप्रतापश्री कुरुजंगल देशे सपीदों नगरे गर्गगोत्रे चो. इंद्र सज्जनस्य भार्या
४ प्रसुखो भार्या तस्य पुत्री दमोदरी द्वितीय नाम गुरुमुख श्रीप्रतापश्री...
पादुका करापित कर्मक्षयनिमित्तं शुभं भवतु ॥

(मा. ७ पृ. १६)

लेखांक ६११ - ऋषिमंडल यंत्र

सं. १७५५ फाल्गुण सुदि १२ बृहस्पतिवारे काष्ठासंचे माथुरगच्छे...
भ. त्रिभुवनकीर्ति तत्पट्टे भ. सहस्रकीर्ति तत् शिष्य दीपचंद तदाम्नाये
अप्रोकार पंचे हिसार वास्तव्य साह श्रीगिरधरदास तद् भार्या कतरणी... ॥

[अ. ११ पृ. ४०९]

लेखांक ६१२ - कूपलेख

महीचंद्र

श्रीभगवतजी सत्य सं. १७३९ वर्षे मिति जेष्ठसुदि ३ राज्य श्रीदिवान-
दीनदारखां गुरु श्री १०८ भ. श्रीमहीचंद्रजी व सकल आवक फतेहपुर का
पुन्यनिमित्त जलथानक करायो सर्वको शुभकारक भवत ॥

(अ. ११ पृ. ४०५)

लेखांक ६१३ - मंदिर लेख

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १५०८ मिति फागुन सुदि २ साह श्रावक तोहण देवराकी नीव डलवाई । संवत् १७७० मिति फागुन सुदि २ म. श्रीखेमकीर्ति त. म. सहस-
कीर्ति त. म. महीचंद्र त. म. देवेंद्रकीर्ति तत आम्नाय चौधरी सपमल तस्य
पुत्र चौधरी रुपचंद वा सकल पंच श्रावक मिलकर देहराकी सरस्मत कराई ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०५)

लेखांक ६१४ - शिखर माहात्म्य

जगत्कीर्ति

काष्ठासंघ ओर माथुर गच्छे पोष्कर गण कहो सुभ दछे ।
लोहाचार्य आमणाय जो कही हिसार पद मनोहर सही ॥ ३२
भट्टारक सहसकीर्ति जान भव्यपयोजप्रकासण भाण ।
तासु पद महेंद्रकीर्ति जाण विद्यागुणभंडार सुजाण ॥ ३३
देवेंद्रकीर्ति तत्पद बखाण शीलसिरोमणि की खाण ।
तिनके पद परम गुणवान जगतकीर्ति भट्टारक जान ॥ ३४
शिष्य लालचंद्र सुदि भाषा रचि बनावे ।
येक चित्त सुने पढे ते भव्य सिक्कू जाय ॥ ३५
संमत अठरासै भले व्यालिस ऊपर जान ।
पाछै फाल्गुण सुक्कू संपूर्ण ग्रंथ बखाण ॥ ३६

(ना. १०७)

लेखांक ६१५ - दशलक्षण यंत्र

ललितकीर्ति

सं. १८६१ शक १७२६ मिति वैशाख सुदी ३ शनिवार श्रीकाष्ठासंघे
माथुरगच्छे...म. देवेंद्रकीर्ति तत्पट्टे म. जगत्कीर्ति तत्पट्टे म. ललितकीर्ति
तदाम्नाये अग्रोतकान्वये गर्गोत्रे साहजी जठमलजी तत् भार्या कृपा...
श्रीवृहत् दशलक्षण यंत्र करापितं उद्यापितं फतेहपुरमध्ये जती हरजीमल
श्रीरस्तु सेखावत लक्ष्मणसिंहजी राज्ये ।

(अ. ११ पृ. ४०९)

लेखांक ६१६ - मंदिर लेख

संवत् १८८१ मिते मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठ्यां शुक्रवासरे काष्ठासंघे माथुरगच्छे.....भ. श्रीजगत्कीर्तिस्तत्पट्टे भ. श्रीललितकीर्तिजित्तदाम्नाये अग्रोत्कान्वये गोयल गोत्रे प्रयागनगरवास्तव्य साधुश्रीरायजीमल्ल साधुश्री-हीरालालेन कौशांबीनगरवाह्य प्रभासपर्वतोपरि श्रीपद्मप्रभजिनदीक्षाह्वान-कल्याणकक्षेत्रे श्रीजिनबिंबप्रतिष्ठा कारिता अंगरेजबहादुरराज्ये सुभं ।

[पभोसा, एपिग्राफिया इंडिका २ पृ. २४४]

लेखांक ६१७ - महापुराणटीका

वर्षे सागरनागभोगिकुमिते मार्गे च मासेऽसिते
पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रविदिने टीका कृतेयं वरा ।
काष्ठासंघवरे च माथुरवरे गच्छे गणे पुष्करे
देवः श्रीजगदादिकीर्तिरभवत् ख्यातो जितात्मा महान् ॥
तच्छिष्येण च मन्दतान्वितधिया भट्टारकत्वं यता
शुन्भद्वै ललितादिकीर्त्यभिधया ख्यातेन लोके ध्रुवम् ॥

(प्रस्तावना पृ. १५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५१)

लेखांक ६१८ - चंद्रप्रभमूर्ति

राजेंद्रकीर्ति

सं. १९१० मिति माघ सुदी १४ शनि काष्ठासंघे लोहाचार्याम्नाये भ. राजेंद्रकीर्तिदेवास्तदाम्नाये अग्रोत्कान्वये वातिलगोत्रे साधुश्रीसाखीलाल तस्युत्र मुनिसुव्रतदासेन सकलभ्रातृवर्गसिद्धयर्थे श्रीजिनबिंब प्रतिष्ठा कारापितं ॥

(भा. प्र. पृ. १)

लेखांक ६१९ - पार्श्वनाथ मूर्ति

सं. १९२३ मिति द्वितीय जेठ सुदि १० लोहाचार्याम्नाये भ. राजेंद्र-कीर्तिदेवास्तदाम्नाये अग्रोत्कान्वये ब्रासल गोत्रे साहू जिनवरदास ॥

(फतेहपुर, अ. ११ पृ. ४०७)

लेखांक ६२० - नेमिनाथ मूर्ति

संवत् १९२९ वैशाख सुदि ३ भ. राजेंद्रकीर्ति तदान्नाये अत्रोत्कान्वये साहु मूमीलाल भार्या श्रेयांशकुमारी तथा प्रतिष्ठा कारापितं ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६२१ - पट्टावली

मुनींद्रकीर्ति

एषो निजगुरुपट्टं प्राप्याध्यासीन्मुनींद्रशुभकीर्तिः ।

युगयुगश्वेदिकवर्षे वीरस्याहो गतो हि सुरलोकं ॥ ५३

(भा. १ कि. ४ पृ. १०७)

१८-

१५३

में^{१०१} अगरवाल साध्वी देवश्री ने पंचास्तिकाय की प्रति लिखवाई थी [ले. ५५५] । आप ने संवत् १४७३ में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ५५६) ।

गुणकीर्ति के पट्टशिष्य यशःकीर्ति हुए । आप ने ग्वालियर में हूंगर-सिंह के राज्यकाल में^{१०२} संवत् १४८६ में भविष्यदत्तपंचमीकथा की एकप्रति लिखी [ले. ५५७] । आप ने पांडवपुराण लिखा तथा त्रिसुवन स्वयंभू कृत अरिष्टनेमिचरित की एक अधूरी प्रति को स्वयं पूरा किया [ले. ५५८-५९] ।

यशःकीर्ति के शिष्य पंडित रङ्गू ने संवत् १४९७ में ग्वालियर में हूंगरसिंह के राज्यकाल में एक आदिनाय मूर्ति स्थापित की [ले. ५६०] । इन के सन्मतिजिनचरित से पता चलता है कि अगरवाल जाति के क्षुल्लक खेल्हा ने ग्वालियरमें चंद्रप्रभ की उत्तुंग मूर्ति करवाई थी [ले. ५६१] ।^{१०३} यशःकीर्ति से गुरुमन्त्र पा कर सिंहसेन ने आदिपुराण की रचना की [ले. ५६२] ।

यशःकीर्ति के पट्टशिष्य मलयकीर्ति हुए । आप ने संवत् १५०२ में एक यंत्र तथा संवत् १५१० में एक मूर्ति स्थापित की [ले. ५६३-५६४] ।

— मलयकीर्ति के अनन्तर गुणभद्र भट्टारक हुए । इन के आन्नाय में अगरवाल जिनदास ने संवत् १५१० में ग्वालियर में हूंगरसिंह के राज्यकाल में समयसार की एक प्रति लिखवाई [ले. ५६५] । संवत् १५१२ में गुणभद्र ने पंचास्तिकाय की एक प्रति ब्रह्म धर्मदास को दी [ले.

१०१-१०२ तोमरवंश का इतिहास अभी सुनिश्चिन नहीं हुआ है । वीरभदेव, हूंगरसिंह, कीर्तिसिंह और मानसिंह इन चार राजाओं के उल्लेख इसी प्रकरण में हुए हैं ।

१०३ पंडित रङ्गू की अन्य कृतियों के विवेचन के लिए पं. परमानन्द का एक लेख देखिए—अनेकान्त वर्ष १० पृ. ३७७

५६६) । इन के आम्नाय मे संवत् १५२१ में ग्वालियर मे कीर्तिसिंह के राज्यकाल^{१०५} मे ज्ञानार्णव की एक प्रति लिखी गई (ले. ५६७) । संवत् १५२९ और संवत् १५३१ मे आप ने दो आदिनाथ मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ५६८-६९) । संवत् १५३७ मे एक नेमिनाथ मूर्ति तथा संवत् १५४८ में एक चौबीसी मूर्ति भी आप ने स्थापित की (ले. ५७०-७१) । इन मे पहली प्रतिष्ठा कल्याणमल्ल के राज्यकाल^{१०५} में की गई थी । संवत् १५७५ में सुलतान इब्राहीम के राज्य काल में^{१०६} चौधरी टोडरमल ने गुणभद्र के आम्नाय में महापुराण की एक प्रति लिखी (ले. ५७२) ।

गुणभद्र के प्रशिष्य ब्रह्म मंडन ने संवत् १५७६ मे सोनपत में इब्राहीम के राज्य काल मे स्तोत्रादिका एक गुटका लिखा (ले. ५७३) । संवत् १५८७ मे आप के एक शिष्य ने शान्तिनाथ चरित्र लिखा^{१०७} (ले. ५७४) । संवत् १५९० मे हुमायून के राज्यकाल में गुणभद्र के शिष्य धर्मदास के आम्नाय में धनदचरित्र की एक प्रति लिखी गई (ले. ५७५) ।

गुणभद्र के पट्ट पर भानुकीर्ति भट्टारक हुए । संवत् १६०६ मे शाह सलीम^{१०८} के राज्य काल में साह रूपचंद ने अत्राद्याबाद में उत्तर-पुराण की एक प्रति आप को अर्पित की (ले. ५७६) ।

भानुकीर्ति के शिष्य कुमारसेन के आम्नाय मे संवत् १६१५ में अकबर के राज्यकाल मे भविष्यदत्तचरित की एक प्रति लिखी गई (ले. ५७७) । आप के आम्नाय में ही संवत् १६३२ मे आगरा मे अकबर

१०४ देखिए नोट १०१

१०५ कल्याणमल्ल कोई स्थानीय शासक रहे होंगे ।

१०६ दिल्ली के लोदी सुलतान-सन् १५१८-२६ ई.

१०७ इस ग्रन्थ के कर्ता के विषय में मतभेद है । एक मत से महिंदु या महीचंद्र इस के कर्ता हैं, किंतु अथातर के उल्लेखसे ज्ञात होता है कि इस के कर्ता दो हैं, महदू और वंभञ्जुण ।

१०८ दिल्ली के सूर वंश के शासक-१५४५-१५५४ ई.

का राज्य था उस समय भटानिया कोल निवासी साहु टोडर की प्रार्थना पर पण्डित राजमल्ल ने जम्बूस्वामी चरित की रचना की (ले. ५७९-८०) ।^{१०९}

माथुर गच्छ की दूसरी मध्यकालीन परम्परा माधवसेन के शिष्य विजयसेन से आरम्भ हुई । इन के बाद इस में क्रमशः मासोपवासी नय-सेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीर्ति तथा कमलकीर्ति भट्टारक हुए । कमलकीर्ति ने संवत् १४४३ में नाथदेव के राज्यकाल^{११०} में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ५८६) ।

कमलकीर्ति के बाद क्षेमकीर्ति और उन के शिष्य हेमकीर्ति हुए । देवकीर्ति, पद्मकीर्ति, प्रतापचन्द्र, हेमचन्द्र आदि मुनि इन के आश्रय में थे । पद्मकीर्ति के शिष्य हरिराज ने संवत् १४६९ में ग्वालियर में वीरम-देव के राज्यकाल में^{१११} प्रवचनसार की एक प्रति लिखी थी (ले. ५८८) । हेमकीर्ति के गुरुबन्धु रत्नकीर्ति ने देवसेनकृत आराधनासार पर संस्कृत टीका लिखी (ले. ५८९) ।

हेमकीर्ति के पट्टशिष्य कमलकीर्ति हुए । आप ने संवत् १५०६ में एक चंद्रप्रभ मूर्ति स्थापित की (ले. ५९०) । आप की आश्रय में संवत् १५०६ में ग्वालियर में इंगरसिंह के राज्यकाल में^{११२} भविसत्तकहा की एक प्रति लिखी गई (ले. ५९१) । आप ने संवत् १५१० में एक महावीर मूर्ति स्थापित की (ले. ५९२) ।

कमलकीर्ति के शुभचन्द्र और कुमारसेन ये दो पट्टशिष्य हुए ।

१०९ राजमल्ल पर विस्तृत विवेचन के लिए जम्बूस्वामीचरित (माणिक-चंद्र ग्रंथमाला) की पं. मुख्तार कृत प्रस्तावना देखिए । इसी प्रकार में ले. ६०६ व नोट ११५ भी देखिए

११० नाथदेव कोई स्थानीय शासक रहे होंगे । -

१११ देखिए पूर्वोक्त नोट १०१

११२ देखिए पूर्वोक्त नोट १०२

शुभचन्द्र ने संवत् १५३० में ग्वालियर में कीर्तिसिंह के राज्यकाल^{११३} में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ५९३)। रङ्गूरचित^{११४} हरिवंशपुराण से पता चलता है कि इन का मठ सोनागिरि में था (ले. ५९४)। इन के शिष्य यशः-सेन ने संवत् १६३९ में एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया (ले. ५९५)।

कमलकीर्ति के दूसरे पट्टशिष्य कुमारसेन हुए। इन के शिष्य हेमचन्द्र थे। कवि राजमल्ल इन्हीं की आम्नाय के थे।^{११५}

हेमचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दि हुए। इन के शिष्य मार्णिककराज ने संवत् १५७६ में अमरसेनचरित की रचना पूर्ण की (ले. ५९६)।

पद्मनन्दी के शिष्य यशःकीर्ति हुए। इन के समय संवत् १५७२ में केशरियाजी में सभामंडप बनवाया गया (ले. ५९७)। कवि राजमल्ल के कथनानुसार यशःकीर्ति ने दीर्घ काल तक नीरस आहार का ही सेवन किया था (ले. ५९८)।

यशःकीर्ति के पट्टशिष्य दो हुए-गुणचन्द्र और क्षेमकीर्ति। गुणचन्द्र के शिष्य सकलचन्द्र और उन के शिष्य महेन्द्रसेन हुए। इन के शिष्य भगवतीदास ने जहांगीर के राज्यकाल में संवत् १६८० में मुगति शिरोमणि चून्डी, शाहजहा के राज्यकाल में संवत् १६८७ में अनेकार्थ नाममाला, संवत् १६९४ में ज्योतिषसार, वैचविनोद, बृहत् सीता सतु तथा लघु सीता सतु की रचना की (ले. ५९९-६०३)। नर्वाक केवली तथा द्वात्रिंशदिन्द्र केवली इन शकुन ग्रन्थों की प्रतिलिपियां इन ने की थीं (ले. ६०४-६०५)।

यशःकीर्ति के दूसरे पट्टशिष्य क्षेमकीर्ति थे। इन के समय संवत् १६४१ में पण्डित राजमल्ल ने डौकनी निवासी साह फामन के लिए लाठी संहिता नामक ग्रन्थ लिखा (ले. ६०६) उस समय अकबर का

११३ देखिए पूर्वोक्त नोट १०४

११४ देखिए पूर्वोक्त नोट १०३

११५ देखिए पूर्वोक्त नोट १०९

राज्य था। क्षेमकीर्ति के शिष्यों में वैराट नगर के भी लोग थे। वहाँ का जिनमन्दिर चित्रों से अलंकृत किया गया था।

क्षेमकीर्ति के पट्टशिष्य त्रिभुवनकीर्ति हुए। इन का पट्टाभिषेक हिसार में हुआ था (ले. ६०७)। इन के बाद संवत् १६६३ में सहस्रकीर्ति पट्टाधीश हुए (ले. ६०८)। इन के शिष्य जयकीर्ति ने संवत् १६८५ में एक दशलक्षण यन्त्र स्थापित किया (ले. ६०९)। इन की शिष्या प्रतापश्री की समाधि सपीदों नगर में संवत् १६८८ में बनी (ले. ६१०)। इन के एक और शिष्य दीपचन्द्र ने संवत् १७५५ में एक ऋषिमंडल यंत्र स्थापित किया (ले. ६११)।

सहस्रकीर्ति के पट्टशिष्य महीचंद्र के समय संवत् १७३९ में फतेहपुर में एक कुंआ बनाया गया था (ले. ६१२)।

महीचंद्र के शिष्य देवेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७७० में फतेहपुर के एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया (ले. ६१३)।

देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य जगत्कीर्ति हुए। इन के शिष्य लालचंद ने संवत् १८४२ में संमेट शिखर माहात्म्य की रचना की (ले. ६१४)।

जगत्कीर्ति के शिष्य ललितकीर्ति हुए। आप के समय संवत् १८६१ में फतेहपुर में दशलक्षण व्रत का उद्यापन हुआ (ले. ६१५) तथा संवत् १८८१ में पभोसा में एक मन्दिर का निर्माण हुआ (ले. ६१६)। आप ने संवत् १८८५ में महापुराणटीका की रचना की (ले. ६१७)।^{११५}

ललितकीर्ति के पट्ट पर राजेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १९१० में एक चन्द्रप्रभ मूर्ति, संवत् १९२३ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा संवत् १९२९ में एक नेमिनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ६१९-२०)।

राजेन्द्रकीर्ति के बाद मुनीन्द्रकीर्ति पट्टाधीश हुए। इन का स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ (ले. ६२१)।

११६ ललितकीर्ति और कविवर वृन्दावनदासजी में अच्छे सम्बन्ध थे। इस विषय में पं. नाथूराम प्रेमी कृत वृन्दावनविलास की प्रस्तावना देखिए।

काष्ठासंघ-माथुर गच्छ-कालपट

१ रामसेन (सं. ९५३)

२ देवसेन

|

३ अमितगति

|

४ नेमिषेण

|

५ माधवसेन

|

६ अमितगति (सं. १०५०-१०७३)

|

७ शान्तिषेण

|

८ अमरसेन

|

९ श्रीषेण

|

१० चन्द्रकीर्ति

|

११ अमरकीर्ति (सं. १२४४-१२४७)

१२ छत्रसेन (सं. ११६६)

१३ गुणभद्र (सं. १२२६)

१४ धर्मकीर्ति

|

१५ ललितकीर्ति (सं. १२३४)

१६ माधवसेन

|

१७ उद्धरसेन

|

विजयसेन

(अगला पृष्ठ देखिए)

- १८ देवसेन
|
१९ विमलसेन
|
२० धर्मसेन
|
२१ भावसेन
|
२२ सहस्रकीर्ति
|
२३ गुणकीर्ति (सं. १४६८-१४७३)
|
२४ यशःकीर्ति (सं. १४८६-१४९७)
|
२५ मलयकीर्ति (सं. १५०२-१५१०)
|
२६ गुणभद्र (सं. १५१०-१५९०)
|
२७ गुणचन्द्र (सं. १५७६) भानुकीर्ति (सं. १६०६)
|
कुमारसेन (सं. १६१५-३२)

१७ विजयसेन
|
१८ नयसेन
|
१९ श्रेयांससेन
|
२० अनन्तकीर्ति
|
२१ कमलकीर्ति (सं. १४४३)
|
२२ क्षेमकीर्ति
|

२३ हेमकीर्ति (सं. १४६९)

२४ कमलकीर्ति (सं. १५०६-१५१०)

२५ कुमारसेन

शुभचन्द्र (सं. १५३०)

२६ हेमचन्द्र

यशःसेन

२७ पद्मनन्दि (सं. १५७६)

२८ यशःकीर्ति (सं. १५७२)

२९ क्षेमकीर्ति (सं. १६४१)

गुणचन्द्र

सकलचन्द्र

३० त्रिभुवनकीर्ति

महेन्द्रसेन

३१ सहस्रकीर्ति (सं. १६६३)

३२ महीचन्द्र (सं. १७३९)

३३ देवेन्द्रकीर्ति (सं. १७७०)

३४ जगत्कीर्ति (सं. १८४२)

३५ ललितकीर्ति (सं. १८६१-१८८५)

३६ राजेन्द्रकीर्ति (सं. १९१०-१९२९)

३७ मुनीन्द्रकीर्ति (सं. १९५२)

१४. काष्ठासंघ-लाडवागड-पुन्नाट-गच्छ

लेखांक ६२२ - हरिवंशपुराण

जिनसेन

दधार कर्मप्रकृति श्रुति च यो जिताक्षवृत्तिर्जयसेनसद्गुरुः ।
 प्रसिद्धवैयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारगः ॥ ३०
 तदीयशिष्योऽमितसेनसद्गुरुः पवित्रपुन्नाटगणाग्रणीर्गणी ।
 जिनेद्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभृता वर्षशताधिजीविना ॥ ३१
 सुशास्त्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता ।
 यदग्रजो धर्मसहोदरः शमी समग्रधीर्धर्म इवात्तविग्रहः ॥ ३२
 तपोमयी कीर्तिमशेषदिशु यः क्षिपन् व्रमौ कीर्तितकीर्तिषेणकः ।
 तदग्रशिष्येण शिवाग्रसौख्यभागरिष्टनेमीश्वरभक्तिभाविना ।
 स्वजन्तभाजा जिनसेनसूरिणा धियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः ॥ ३३
 शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पंचोत्तरेपूत्तरां
 पार्तीद्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणां ।
 पूर्वा श्रीमद्वन्तिभूश्रुति नृपे वत्सादिराजे परां
 सौराणामधिमंडलं जययुते वीरे बराहेऽवति ॥ ५२
 कल्याणैः परिवर्धमानत्रिपुलश्रीवर्धमाने पुरे
 श्रीपार्श्वार्चलयनन्नराजवसतौ पर्याप्रशेषः पुरा ।
 पश्चाद्दोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राञ्चार्चनावर्चने
 शान्तेः शान्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ॥ ५३

(पर्व ६६, माणिकचंद्र ग्रंथमाला, बम्बई १९३०)

लेखांक ६२३ - कडव दानपत्र

अर्ककीर्ति

श्रीयापनीय-नंदि-संघ-पुंनागवृक्षमूलगणे श्रीकित्या- (कीर्त्या) चार्था-
 न्वये बहुध्वाचार्येष्वतीतेषु व्रतसामितिगुप्तिगुप्तमुनिवृंदवदितचरण कृबिला-
 चार्यणामासीत् । तस्यान्तेवासी समुपनतजनपरिश्रमाहारः स्वदानसंतर्पितसम-
 स्नविद्वज्जनो जनितमहोदयः विजयकीर्तिनाम मुनिप्रभुरभूत् ।

अर्ककीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्मुनिसत्तमः ।

तस्य शिष्यत्वमायातो नायातो वशमेनसाम् ॥

तस्मै मुनिवराय तस्य विमलादित्यस्य शणेश्वरपीडापनोदाय मयूर-

खंडिमधिवसति विजयस्कंधावारे चाकिराजेन विज्ञापितो बल्लभेंद्रः इडिग-
विषयमध्यवर्तितं जालमंगलनामधेयग्रामं शकनृपसंबत्सरेषु शरशिखिमुनिषु
(७३५) व्यतीतेषु ज्येष्ठमासशुक्लपक्षद्शम्यां पुष्यनक्षत्रे चंद्रवारे मान्य-
पुरवरापरदिग्विभागालंकारभूतशिलाग्रामजिनेंद्रभवनाय दत्तवान्... ॥

(जैन गिलाखेल संग्रह भा. २ पृ. १३७)

लेखांक ६२४ - आराधना कथाकोष

हरिषेण

...पुनाटसंघांबरसंनिवासी श्रीमौनिमट्टारकपूर्णचंद्रः ॥ ३
 . .कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्धमानाख्यपुरेयसन् सः ॥ ४
 सारागमाहितमतिर्विदुषां प्रपूज्यो
 नानातपोविधिविधानकरो विनेयः ।
 तस्याभवद्गुणनिधिर्जनताभिवंद्यः
 श्रीशब्दपूर्वपदको हरिषेणसंज्ञः ॥ ५
 ...नानाशास्त्रविचक्षणो बुधगणैः सेव्यो विशुद्धाशयः
 सेनान्तो भरतादिरस्य परमः शिष्यो बभूव क्षितौ ॥ ६
 तस्य शुभ्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेणः ॥ ७
 आराधनोद्धृतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम् ।
 हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥ ८
 नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः (?) ।
 विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिदं स्फुटम् ॥ ११
 संबत्सरे चतुर्विंशे वर्तमाने खराभिधे ।
 विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके ॥ १३

(सिंधी जैन ग्रथमाला, बम्बई)

लेखांक ६२५ - धर्मरत्नाकर

जयसेन

मेदार्येण महर्षिभिर्विहरता तेपे तपो दुश्चरं
 श्रीखंडिल्लकपत्तनान्तिकरणाभ्यर्धिप्रभावात्तदा ॥
 शाठ्येनाप्युपतस्पृता सुरतरुप्रख्यां जनानां श्रियं
 तेनाजीयत लाडवागड इति त्वेको हि संघोऽनघः ॥

धर्मश्रोतानां विक्रान्तं सदा यत्र लक्ष्मीनिगमाः
 प्राप्नुश्चित्रं सकलकुमुदायन्युपेता विक्राष्टम् ।
 श्रीमान् नोभून्मुनिजनलुता धर्मसेनां गर्गीह्र-
 ल्मस्मिन् रत्नत्रिनयनदर्ताभून्योगान्जये ॥
 ...नेभ्यः श्रीशान्तिपेणः समजानं सुगुरुः पारशूर्धामरीरः ॥
 ...श्रीगोपमेनगुञ्जाधिरभूत्स तन्मान् ॥
 ...अज्ञानः कलिना जगन्मु वलिना श्रीभावमेनम्वतः ॥
 ततो ज्ञानः शिष्यः सकलजनवानन्दजननः
 प्रसिद्धः साधूनां जगति नयसेनाख्य इह सः ॥
 इदं चक्रं शास्त्रं जिनमममाराथार्थनिचिन्
 द्विप्राथं संतानां स्मृतिविमवाद् गर्भविक्रलः ॥
 वाणीन्द्रिज्यामसोमभिने संवन्मरे शुभं ।
 प्रथोऽयं सिद्धतां यातः सकर्त्तृकरहाटकं ॥

(अ. ८ क. १०३)

लेखांक ६२६ - प्रशुभचरित

महासेन

श्रीलाटवर्गद्वन्दनमस्तलपूर्णचंद्रः
 शाल्मर्णवल्गमुर्वीन्वपमां निवामः ।
 कान्ताकन्तावपि न यत्न्य श्रैर्विमिश्रं
 न्वात्मं ब्रभूव म मुनिद्वयसेनवामा ॥ १
 नीर्गागमांबुधिरत्वायत तस्य किष्यः
 श्रीमद्गुणाकरगुणाकरसेनसुरिः ।
 ...नच्छिष्यो विदितास्त्रिभोक्तसमयो वादी च जगमी कविः
 आसीत् श्रीमद्भमेनसूरिरनवः श्रीसुंजराजार्चितः ॥ ३
 श्रीसिधुग्राजस्य महत्तमेन श्रीरयटेनार्चितशदपद्यः ।
 चकार तेनाभिहितः प्रबंधं स पावनं निर्गुणमंगलस्य ॥ ४

(त्रैलोक्येय आर शनिहाट क. १८३)

लेखांक ६२७ - द्रवकुण्ड जिलालेख

विजयकर्ति

श्रीलाटभागद्वन्दनरोदणार्द्र-भाणिक्यभूतचरितो गुरुद्वयसेनः ॥

...जातः श्रीकुलभूषणोऽखिलवियद्वासोगणग्रामणीः
 सम्यग्दर्शनशुद्धबोधचरणालंकारधारी ततः ॥
 रत्नत्रयाभरणधारणजातशोभ-स्तस्माद्जायत स दुर्लभसेनसूरिः ॥
 आस्थानाधिपतौ बुधाद्विगुणे श्रीभोजदेवे नृपे
 सभ्येष्वंबरसेनपंडितशिरोरत्नादिषूद्यन्मदान् ।
 योनेकान् शतशो अजेष्ट पटुताभीष्टोद्यमो वादिनः
 शास्त्रांभोनिधिपारगोऽभवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः ॥
 गुरुचरणसरोजाराधनावान्प्रपुण्य-
 प्रभवदमलबुद्धिः शुद्धरत्नत्रयोऽस्मात् ।
 अजनि विजयकीर्तिः सूक्तरत्नावकीर्णा
 जलधिभुवभिवैतां यः प्रशस्ति व्यधत् ॥
 तस्मादवाप्य परमागमसारभूतं धर्मोपदेशमधिकाधिगतप्रबोधाः ।
 लक्ष्म्याश्च बंधुसुहृदां च समागमस्य मत्वायुषश्च वपुषश्च विनश्वरत्वं ॥
 प्रारब्धाधर्मकांतारविदाहः साधुदाहडः ।
 सद्विवेकश्च कूकेकः सूर्पटः सुकृतेः पटुः ॥
 शृंग्राभ्रोल्लिखितांबरं वरसुधासांद्रद्रवापांडुरं
 सार्थं श्रीजिनमंदिरं त्रिजगदानंदप्रदं सुंदरं ।
 संभूयेदमकारयन् गुरुशिरः संचारिकैत्वंवरं-
 प्रातेनोच्छलतेव वायुविहते दामादिशत् पदयताम् ॥
 अथैतस्य जिनेश्वरमंदिरस्य निष्पादनपूजनसंस्काराय कालान्तरस्फुटितत्रुटित-
 प्रतीकारार्थं च महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंहः स्वपुण्यराशेरप्रतिहतप्रसरं
 परमोपचयं चेतसि निधाय गोणीं प्रति विशोपकं गोधूमगोणीचतुष्टयवाप-
 योग्यं क्षेत्रं च महाचक्रग्रामभूमौ रजकद्रहपूर्वदिग्भागवाटिकां वापीसमन्वितार्थं
 प्रदीपमुनिजनशरीराभ्यंजनार्थं करघटिकाद्वयं च दत्तवान् ॥
 ...संवत् ११४५ भाद्रपद सुदि ३ सोमदिने ।

(एपिग्राफिथा इडिका २ पृ. २३७)

लेखांक ६२८ - पट्टावली

महेंद्रसेन

• त्रिषष्टिपुराणपुरुषचरित्रकर्ता स्वकीयतपस्तपनप्रकटप्रभावान् मेदपाट-

देशे प्रकटप्रभावं क्षेत्रपालं संबोध्य सकलमहामंडलेष्वश्रयं चकार तेषां श्रीमहेंद्रसेनदेवानां ॥

(म. ३८)

लेखांक ६२९ - पट्टावली

अनंतकीर्ति

चतुर्दशमतीर्थकरचरित्रकर्ता तेषां अनंतकीर्तिदेवानां ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६३० - पट्टावली

विजयसेन

तत्पट्टे श्रीविजयसेनभट्टारकाणां यैर्वाराणस्यां पांगुलहरिचंद्रराजानं प्रबोध्य तस्यैव सभायामनेकशिष्यसमूहसमन्वितं चंद्रतपस्विनं विजित्य महावाद्वादीति नाम प्रकटीचकार ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६३१ - पट्टावली

चित्रसेन

तदन्वये श्रीमल्लाटवर्गटगच्छवंशप्रतापप्रकटनयावज्जीवबोधोपवासैकांतरे नीरस्याहारेण तापनायोगसमुद्धारणधीरश्रीचित्रसेनदेवानां यैः पंचलाटवर्गटदेशे प्रतिबोध्य विधाय मिथ्यात्वमलनिरसनं चक्रे ततः पुत्राटगच्छ इति भांडागारे स्थितं लोके लाटवर्गटनामाभिधानं पृथिच्यां प्रथितं प्रकटीवभूव ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६३२ - पट्टावली

पद्मसेन

तदन्वये श्रीमत्लाटवर्गटप्रभावश्रीपद्मसेनदेवानां तस्य शिष्यश्रीनरेन्द्रसेनदेवैः किंचिदविद्यागर्वत असूत्रप्ररूपणादाशाधारः स्वगच्छान्निःसारितः कदाग्रहप्रसं श्रेणिगच्छमशिश्रियत् ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६३३ - रत्नत्रयपूजा

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणवीजं
जननजलधिपोतं भव्यसत्त्वैकपात्रं ।
दुरिततरुकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं
पिवतु नितविपक्षं दर्शनाख्यं सुधाम्बु ॥

इति श्रीलाडवागडीयपंडिताचार्यश्रीमन्नरेंद्रसेनविरचिते रत्नत्रयपूजा-
विधाने दर्शनपूजा समाप्ता ॥

(म. १११)

लेखांक ६३४ - वीतराग स्तोत्र

कल्याणकीर्तिरचितालयकल्पवृक्षं ..
पश्यन्ति पुण्यरहिता न हि वीतरागम् ॥ ८
श्रीजैनसूरिविनतक्रमपद्मसेनं
हेलाविनिर्दलितमोहनरेन्द्रसेनं... ॥ ९

(अ. ८ पृ. २३३)

लेखांक ६३५ - पट्टावली

त्रिभुवनकीर्ति

तस्य श्रीपद्मसेनस्य वर्याचार्यस्य धीमतः ।
पट्टोदयाचले चंद्रनिचंद्रविबुधाप्रणीः ॥
श्रीत्रिभुवनकीर्तिदेवाः वभूवुः ॥

(म. ३८)

लेखांक ६३६ - पट्टावली

धर्मकीर्ति

तत्पट्टोदयाद्रिप्रभावक भ. श्रीधर्मकीर्तिदेवानाम् ॥

(उपर्युक्त)

लेखांक ६३७ - मंदिरलेख

विक्रमादित्यसंवत् १४३१ वर्षे वैशाख सुदी अश्रयतिथौ बुधदिने
गुरु धाधेहा वाणि कृत्वा परि सरोवर लोकानि खंड्याला पगनो राज अ

विजयराज पालयति सति उदयराज शैल श्रीमज्जिनेन्द्राराधनतत्परपर्यन्त
बागढ प्रतिपात्रो श्रीसंघ भ. श्रीधर्मकीर्तिगुरूपदेशेन...काष्ठासंघे श्रीविमल-
नाथ का जिन विम्ब प्रतिष्ठितं ॥

(केशरियाजी, वीर-२ पृ. ४६०)

लेखांक ६३८ - (मूलाचार)

मलयकीर्ति

मुनीन्द्रोन्तकीर्तिस्तु धुर्यो विजयसेनकः ।
जयसेनो गणाध्यक्षो वादिशुण्डालकेसरी ॥ १५
प्रमाणनयनिक्षेपैर्हेत्वाभासादिभिः परैः ।
विजेता वादिबृन्दस्य सेनः केशवपूर्वकः ॥ १६
चरित्रसेनः कुशलो भीमांसावनितापतिः ।
वेदवेदांगतत्त्वज्ञो योगी योगत्रिदां वरः ॥ १७
तस्य पट्टे बभूव श्रीपद्मसेनो जितांगभूः ।
इमश्रुयुक्तसरस्वत्या विरुदं यस्य भासते ॥ १८
तत्पट्टे व्योमतारेशः संसृतेर्धर्मनाशकृत् ।
तपसा सूर्यवर्चस्को यमिनां पदमुत्तमम् ॥ १९
प्राप्तः करोत्वेते त्रिभुवनोत्तरकीर्तिभाक् ।
कल्याणं संपदः सर्वाः सर्वाभिरनमस्कृतः ॥ २०
श्रीधर्मकीर्तिर्भुवने प्रसिद्धस्तत्पट्टरत्नाकरचंद्रोचिः ।
पद्मार्कवेत्ता गतमानमायक्रोधारिलोभोऽभवदत्र पुण्यः ॥ २१
तस्य पादसरोजालिर्गुणमूर्तिर्विचक्षणः ।
मलयोत्तरकीर्तिर्वा मुदं कुर्याद्दिगंबरः ॥ २२
हेमकीर्तिर्गुणज्येष्ठो ज्येष्ठो मत्तः कुशाग्रधीः ।
धर्मध्यानरतः ज्ञान्तो दान्तः ससृत्तवाग्मसी ॥ २३
ततोऽनुजो मुनीन्द्रस्तु सहस्रोत्तरकीर्तियुक् ।
गुर्जरीं जगतीं शास्त्रो द्वौ यती महिमोदयौ ॥ २४
वयं त्रयोपि धीमन्तः साधीयांसो निरेनसः ।
धर्मकीर्तेर्भगवतः शिष्या इव रवेः कराः ॥ २५

...साधुफेरू स्ववचोभिरिति स्वामिन् विधीयते श्रीश्रुतपंचम्या उद्या-
पनमितीरितं श्रुत्वा सप्रमोदः श्रीधर्मकीर्तिमुनिपाय तन्मिचितं श्रीमूलाचार-

पुस्तकं लेखयांचकार पश्चात् तस्मिन् मुनिपतौ नाकलोकं प्राप्ते सति तच्छि-
ष्याय यमनियमस्त्राध्यायध्यानाध्ययननिरताय तपोधनश्रीमलयकीर्तये तत्स-
वहुमानं सोत्सवं सविनयमर्पयत् ।

-इदं मूलाचारपुस्तकं । सं. १४९३ ।

(अ. १३ पृ. १०९)

लेखांक ६३९ - पट्टावली

तत्पट्टे भ. श्रीमलयकीर्तिदेवानां यैर्निजबोधनशक्तितः एलदुग्गाधीश्वर-
राजश्रीरणमहं प्रतिबोध्य तरसुंदानगरे केकापिछायान् हटान् महाकायश्री-
शांतिनाथस्य प्रासादः कारितः ॥

(म. ३८)

लेखांक ६४० - पट्टावली

नरेन्द्रकीर्ति

तत्पट्टे कलबुर्गाधीश्वरसुलतानपिरोजस्याहसमस्यां पूरयित्वा पुनः
श्रीजिनचैत्यालये प्रतोलीं काराप्य कुशलानां राजराजगुरुनसुंधराचार्य प्रस्तरी-
नगराधीश्वरराजाधिराजवैजनाथेन संसेवितचरणारविंदसमस्तवादीभव-
श्रीकुण्डश्रीनरेन्द्रकीर्तिदेवानां यैस्तास्मिन्नेव श्रीपार्श्वनाथचैत्यालयं काराप्य
सहस्रकूटं संस्थाप्य श्रीपार्श्वनाथस्य पूजामहिमानं प्रकटीचके ।

[उपर्युक्त]

लेखांक ६४१ -

वाग्बर देश मझार नयर आंतरी सुभ सोहे ।
राजपाल रणमह सयल लोक मन मोहे ॥
रणमह राथ प्रतिबोधी कइ तव जैन विचक्षण ।
तिहां शांतिनाथ जिन चैत्य पोल निमित्त हठ कारण ॥
बहीं पिच्छने संघात पोली अग्रे करी स्थापण ।
भट्टारक कोटी मुगुट नरेन्द्रकीर्ति वंदितचरण ॥

[म. ४९]

लेखांक ६४२ - प्रतापकीर्ति

काष्ठासंघ शृंगार लाडवागह गच्छ सोहे ।
 नरेंद्रकीर्ति गुरुराय वादीपंचानन मोहे ॥
 कलवर्गा पातस्याह जैननि नमस्या पुरावी ।
 पीरोजसाहा माण पाळ्स्त्री अंतरिश्च चडावी ॥
 नन् पाट सोहे वादी विक्रत प्रतापकीर्ति मूरिवर जणे ।
 केदारभट्ट पाथरी नगर राजममा मांदि जीनिणे ॥

(न. ४९)

लेखांक ६४३ -

काष्ठासुसंघ शृंगार जु मोसन लाडवागह गच्छ दिवाकर रे ।
 वादि विक्रत वक्रांजुल हस्त से चामर पीछी छानतु रे ॥
 नरेंद्रसुकीर्ति वादिगजकेशरी अंतर्गच्छ पाळ्स्त्री चडावतु रे ।
 प्रतापसुकीर्ति वादिगजकेशरी मानव भूप सुपंडित रे ॥

(न. ४९)

लेखांक ६४४- विरुदावली

त्रिशुवनकीर्ति

श्रीमलयकीर्तिपद्मोधराणां ॥ श्रीछाटवर्गटगच्छविपुत्रगगनभातंडमंडलानां
 भट्टारकश्रीमन्नरेंद्रकीर्तिसद्गुरुचरणकमलागावनकुण्डलानाम् ॥ सकलविबुध-
 मुनिमंडलासिद्धिवचरणारविदानां ससुन्मूलिप्रमिथ्यात्पवस्कंदानां श्रीमन्-
 प्रतापकीर्तिप्रतिचक्रवर्तिनाम् ॥ तेषां पद्वे भट्टारक श्रीत्रिशुवनकीर्तिदेवगुण
 रत्नभूषणवर्तिनाम् ॥ तेषां सद्गुरुणासुपदेशेन अद्यह देवगिरिभट्टस्थान-
 वान्तव्येन श्रीमद्वयावनालज्जानीयमुन्वमंडनेन... ॥

(न. ११७)

काष्ठासंघ-लाडवागड-पुनाट गच्छ

इस संघ के आचार्य पहले पुनाट अर्थात् कर्णाटक प्रदेश में विहार करते थे-इस लिए इस का नाम पुनाट था। बाद में उन का प्रमुख कार्यक्षेत्र लाडवागड अर्थात् गुजरात प्रदेश हुआ इस लिए इस का नाम लाडवागड गच्छ पडा। इसी का संस्कृत रूप लाटवर्गट है। पुनाट और लाटवर्गट संघों की एकता (ले. ६३१) पर से प्रतीत होती है और इस की पुष्टि (ले. ७४७) से होती है जिस में लाडवागड गच्छ के कवि पामो ने अपना गच्छ पुनाट कहा है।

पुनाट संघ के प्राचीनतम ज्ञात आचार्य जिनसेन हैं। आप ने शक ७०५ में वर्धमानपुर के पार्श्वनाथमन्दिर तथा दोस्तटिका के शान्तिनाथ-मन्दिर में रहकर हरिवंशपुराण की रचना की (ले. ६२२)। इस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में श्रीवल्लभ, पूर्व में ब्रह्मराज और पश्चिम में जयवराह का राज्य चल रहा था। जिनसेन के गुरु कीर्तिषेण थे। वे पुनाट गण के अग्रणी अमितसेन के गुरुबन्धु थे। अमितसेन की गुरुपरम्परा में प्रन्थकर्ता ने अंगजानी आचार्यों के बाद ३० आचार्यों के नाम दिये हैं।

शक ७३५ में कीर्त्याचार्यान्वय के कूविलाचार्य के प्रशिष्य तथा त्रिजयकीर्ति के शिष्य अर्ककीर्ति को चाकिराज की प्रार्थना से ब्रह्मेन्द्र ने^{११} जालमगल नामक ग्राम दान दिया। अर्ककीर्ति ने अपना संघ यापनीय नन्दिसंघ तथा पुनागवृक्षमूलगण कहा है। सम्भवतः पुनागवृक्षमूलगण पुनाटसंघ का ही एक रूपान्तर है (ले. ६२३)।

पुनाट संघ के आचार्य हरिषेण ने सवत् ९८९ में वर्धमानपुर में विनायकपाल के राज्यकाल में^{१२} बृहत् कथाकोष की रचना की (ले. ६२४)। मौनि भट्टारक-हरिषेण-भरतसेन-हरिषेण ऐसी इन की परम्परा थी।

११७ यह संभवतः राष्ट्रकूट राजा गोविन्द (तृतीय) का उल्लेख है जिन की जात तिथिया ७८३-८१४ ई. हैं।

११८ ये खड्गशीय प्रतिहार राजा थे। सन् ९३१ का इन का एक उल्लेख मिल्य है। वर्धमानपुर का वर्तमान रूप बदवाण-मत्तान्तर से बदनावर सौराष्ट्र है।

झाडवागड संघ के आचार्य जयसेन ने संवत् १०५५ में सकली-करहाटक ग्राम में धर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थ लिखा ।^{११} इन की गुरुपरम्परा धर्मसेन-शान्तिपेण-गोपसेन-भावसेन-जयसेन इस प्रकार थी । इन के मत से इस संघ का आरम्भ मेदार्य की उग्र तपश्चर्या से हुआ था (ले. ६२५) जो खंडिल्य ग्रामके पास निवास करते थे ।

इस संघ के अगले आचार्य महासेन थे । आप ने प्रद्युम्नचरित नामक काव्य की रचना की । मुंजराज तथा सिन्धुराज के मन्त्री पर्पट ने आप का सम्मान किया था । जयसेन-गुणाकरसेन-महासेन ऐसी आप की परम्परा थी (ले. ६२६) ।

इस के अनन्तर आचार्य विजयकीर्ति का उल्लेख मिलता है । कछवाहा वंश के विक्रमसिंह ने संवत् ११४५ में एक जिनमन्दिर के लिए कुछ जमीन दान दी । यह मन्दिर विजयकीर्ति के शिष्य ढाहड, सर्पट, कूकेक आदि ने मिल कर बनाया था । इस दान की विस्तृत प्रशस्ति विजयकीर्ति ने लिखी (ले. ६२७) इन की गुरुपरम्परा देवसेन कुलभूषण-दुर्लभसेन-अम्बरसेन आदि वादियों के विजेता शान्तिपेण-विजयकीर्ति इस प्रकार थी ।

पट्टावली में उल्लिखित आचार्यों में महेंद्रसेन पहले ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं ।^{१२} इन ने त्रिपष्टिपुरुषचरित्र लिखा तथा मेवाड़ में क्षेत्रपाल को उपदेश दे कर चमत्कार दर्शाया (ले. ६२८) ।

महेंद्रसेन के शिष्य अनन्तकीर्ति ने चौदहवें तीर्थंकर का चरित्र लिखा (६२९) ।

११९ पं. परमानन्द ने इन्हें झाडवागड संघ के आचार्य कहा है । यहाँ स्पष्टतः ल की जगह गलनी में अ पढ़ा गया है । झाडवागड नाम के किसी संघ का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

१२० इन के पहले अंगझानी आचार्यों के बाद क्रम से विनयधर, सिंढसेन, वज्रसेन, महासेन, रत्रियेण, कुमारसेन, प्रभाचन्द्र, अकलंक, वीरसेन, सुमतिसेन, जिनसेन, वासवसेन, रामसेन, जयसेन, सिद्धसेन तथा केशवसेन का उल्लेख है ।

अनन्तकीर्ति के शिष्य विजयसेन ने वाणारसी में पागुल हरिचन्द्र राजा की सभा में^{१२१} चन्द्र तपस्वी का पराजय किया (ले. ६३०)। इन के शिष्य चित्रसेन के समय से इस संघ का पुनाट संघ यह नाम लुप्तप्राय हुआ (ले. ६३१)। चित्रसेन ने एकान्तर उपवासादि कठोर तपश्चर्या की।

इन के पट्टशिष्य पद्मसेन हुए। आप के शिष्य नरेन्द्रसेन ने शांख-विरुद्ध उपदेश करने वाले आशाधर को^{१२२} अपने संघ से बहिष्कृत किया (ले. ६३२)। नरेन्द्रसेन ने रत्नत्रयपूजा की रचना की (ले. ६३३)। इन के शिष्य कल्याणकीर्ति ने वीतरागस्तोत्र की रचना की (ले. ६३४)।

पद्मसेन के बाद क्रमशः त्रिभुवनकीर्ति और धर्मकीर्ति मद्दारक हुए। धर्मकीर्ति के समय संवत् १४३१ में केशरियाजी तीर्थक्षेत्र पर विमलनाथ मन्दिर का निर्माण हुआ (ले. ६३७)।

धर्मकीर्ति के तीन शिष्य हुए— हेमकीर्ति, मलयकीर्ति तथा सहस्रकीर्ति। ये तीनों गुजरात प्रदेश में विहार करते थे। दिल्ली के साह फेरू ने संवत् १४९३ में श्रुतपंचमी उच्चापन के निमित्त मूलाचार की एक प्रति मलयकीर्ति को अर्पित की (ले. ६३८)। मलयकीर्ति ने एलदुग्ग के राजा रणमल को उपदेश दे कर तरसुंबा में मूलसंघ का प्रभाव कम किया तथा शान्तिनाथ की विशाल मूर्ति स्थापित की (ले. ६३९)।^{१२३}

मलयकीर्ति के पट्टशिष्य नरेन्द्रकीर्ति हुए। आप ने कलबुर्गा के पिरोजशाह^{१२४} की सभा में समस्या पूर्ति कर के जिनमन्दिर का जीर्णोद्धार

१२१ कनीज के गाहडवाल राजा हरिश्चन्द्र— सन ११९३—१२०० ई.।

१२२ समय के अनुमान से पण्डित आशाधर का ही यह उल्लेख होना चाहिए। किन्तु इसे अन्य उल्लेखों से कोई पुष्टि नहीं मिलती।

१२३ ईडर के राजा रणमल— १३४५—१४०३ ई.। यही घटना ले. ६४१ में मलयकीर्ति के पट्टशिष्य नरेन्द्रकीर्ति के विषय में कही गई है।

१२४ बहामनी बादशाह फिरोज— सन १३९७—१४२२।

करने की अनुज्ञा प्राप्त की तथा प्रस्तरी में राजा वैजनाथ^{१२५} से सम्मान पा कर पार्श्वनाथ मन्दिर में सहस्रकूट जिनमूर्ति की स्थापना की (ले. ६४०)। अनुश्रुति के अनुसार आप ने आकाश मार्ग से गमन किया था (ले. ६४२)।

नरेन्द्रकीर्ति के पट्टशिष्य प्रतापकीर्ति हुए। आप ने पायरी नगर में केदारभट्ट को विवाद में पराजित किया। पंडित भूप ने आप की प्रशंसा की है तथा आप की पिच्छी चामर की थी ऐसा कहा है (ले. ६४२-४३)।

प्रतापकीर्ति के पट्टशिष्य त्रिसुवनकीर्ति हुए। इन की आश्रय के कुछ लोग देवगिरि में रहते थे (ले. ६४४)।^{१२६}

१२५ वैजनाथ का राज्य काल ज्ञात नहीं होता।

१२६ ज्ञात होता है कि इन के बाद इस परम्परा में कोई भट्टारक नहीं हुए क्योंकि इस आश्रय के श्रावकों ने नन्दीतट गच्छ के भट्टारकों द्वारा अनेक प्रतिष्ठाएं करवाने के उल्लेख मिले हैं। देखिए ले. ६८४-८६ आदि।

काष्ठासंघ-पुष्पाट-लाडवागड गच्छ-कालपट

जयसेन

अमितसेन

कीर्तिषेण

जिनसेन (सं. ८४०)

कूविलाचार्य

विजयकीर्ति

अर्ककीर्ति (संवत् ८७०)

मौनिभट्टारक

हरिषेण

भरतसेन

हरिषेण (संवत् ९८९)

धर्मसेन

शान्तिषेण

गोपसेन

जयसेन (संवत् १०५५)

जयसेन

गुणाकरसेन

महासेन

देवसेन

|

कुलभूषण
 |
 दुर्लभसेन
 |
 शान्तियेण
 |
विजयकीर्ति (संवत् ११४५)
महेन्द्रसेन
 |
 अनन्तकीर्ति
 |
 विजयसेन
 |
 चित्रसेन
 |
 पद्मसेन
 |
 त्रिभुवनकीर्ति
 |
 धर्मकीर्ति (संवत् १४३१)
 |
 मलयकीर्ति (संवत् १४९३)
 |
 नरेन्द्रकीर्ति
 |
 प्रतापकीर्ति
 |
 त्रिभुवनकीर्ति

१५ काष्ठासंघ-बागड गच्छ

लेखांक ६४५ - ? मूर्ति

सुरसेन

श्रीसुरसेनोपदेशेन सिंहैक्यशोराजनोन्नैकै सहोदरैः संसारभयभीतैरेत-
ज्जिनविभं कारितं इति ॥ जयति श्रीवागटसंघः ॥ संवत् १०५१ कृष्ण
गणेश...।

(फटरा, जर्नेल आफ एशियाटिक सोसायटी भा. १९ पृ. ११०)

लेखांक ६४६ - जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला

यशःकीर्ति

आसि पुरा वित्थिण्णे बायडसंघे ससंकसो (ओ) ।
मुणिरामइत्ति धीरो गिरिव णईसुब्ब गंभीरो ॥ १८
संजाड तस्स सीसो विबुहो सिरिविमलइत्ति विक्खाओ ।
विमलपरात्ति रवडिया धवलिया घूणिय गयणाययले ॥ १९
जसइत्ति णाम पयडो पयपयरुहजुजलपडियभन्वयणो ।
सत्यमिणं जणहुल्लहं तेण हहिय समुद्धरियं ॥ २६

(अ. २ पृ. ६०६)

काष्ठासंघ-बागड गच्छ

काष्ठासंघ के चार गच्छो मे एक बागड गच्छ भी है। इस के उल्लेख सिर्फ दो मिले हैं। सम्भवतः यह गच्छ लाडबागड गच्छ मे जल्दी ही विलीन हो गया था।

इस गच्छ के आचार्य सुरसेन के उपदेश से सिंहराज आदि बन्धुओ ने संवत् १०५१ मे एक जिनमूर्ति स्थापित की थी (ले. ६४५)।

रामकीर्ति के प्रशिष्य तथा विमलकीर्ति के शिष्य यशःकीर्ति इस संघ के दूसरे ज्ञात आचार्य है। आप ने जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला नामक मन्त्र-शास्त्र के ग्रन्थ की रचना की थी (ले. ६४६)। इन का समय अनुमानतः १५ वी सदी है।

१६. काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ

लेखांक ६४७ -

सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।
णंदिअहे घरगामे कट्ठो संघो मुणेअब्बो ॥

(दर्शनसार ३८)

लेखांक ६४८ -

रामसेन

रामसेनोति विदितः प्रतिबोधनपंडितः ।
स्थापिता येन सज्जातिर्नरसिंहाभिधा भुवि ॥

(पट्टावली, दा. पृ. ४७)

लेखांक ६४९ -

नरसिंहपुर वर नयर तजीय ते तीर्थी पडुता ।
गाम हु नाम न्याती रवी तली सुपत्ति सत्ता ॥
वीसहगोत्र ते थीर करी तव थापिय ।
नरसिंहपुरा सगुण नाम जिनधर्मज्ज आपीय ॥
श्रीशांतिनाथ सुपसालय करी श्रीरामसेन उवएम धरी ।
भूमंडल नीयर तारु रुद्धि वृद्ध सावय घरी ॥ १६१

(म. ४९)

लेखांक ६५० -

नेमिसेन

श्रीरामसेन मुनिराय नयर नरसिंहपुर पाभी ।
नरसिंहपुरा वर ज्ञाति प्रतिबोधी मुखगामी ॥
तत्पट्टे नेमिसेन पद्मावति आराधी ।
भट्टपुरा कुलवंत जैनधर्म प्रति साधी ॥
नेमिसेन वादी विकट परमत वादी जीतये ।
जयसागर एवं वदति श्रीकाष्ठासंघ कुल दीपये ॥ ३३

(म. ४९)

लेखांक ६५१ - शीतलनाथ मूर्ति

सोमकीर्ति

संवत् १५३२ वर्षे वैशाख सुदि ५ रवौ काष्ठासंघे नन्दीतटगच्छे भ. श्रीभीमसेन तत्पुत्रे सोमकीर्ति आचार्यश्रीवीरसेनसुरियुक्त प्रतिष्ठितं नार-सिंहनाथिय बोरडेकगोत्रे चापा भार्या परगू ।

(अ. ४ पृ. ५०२)

लेखांक ६५२ - यशोधरचरित

नन्दीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीरामदेवसेनस्य ।

जातो गुणार्णवौकाः श्रीमांश्च श्रीभीमसेनेति ॥ ५३

निर्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोधरसंज्ञिकं ।

श्रीसोमकीर्तिमुनिना विशोभ्याधीयतां बुधाः ॥ ५४

वर्षे षट्त्रिंशसंख्ये तिथिपरिगणिना युक्तसंवत्सरे वै ।

पंचम्यां पौषकृष्णे दिनकरदिवसे चोत्तराभे हि चंद्रे ॥

गौडिल्यां भेदपाटे जिनवरभवने शीतलेन्द्रस्य रम्ये ।

सोमादीकीर्तिनेदं नृपवरचरितं निर्मितं शुद्धभक्त्या ॥ ५५

(प्रस्तावना पृ. २६, कारजा जैन सीरीज; १९३१)

लेखांक ६५३ - १ मूर्ति

सं. १५४० वर्षे वैशाख सुदि १० बुध श्रीकाष्ठासंघे भ. श्रीसोमकीर्ति प्र. भट्टेज राजा कामिकगोत्रे सा. ठाकुरसी भा. रूषी पुत्र योधा प्रणमति ।

(भा. ७ पृ. १६)

लेखांक ६५४

विमलपुराण

गुर्जर देस मझारि गढ पावापुर दुर्धर ।

सुलतान पीरोजसाह खान वजीर घन समुधर ॥

तेह सभा शृंगार नर सुर भूपति देखत ।

पद्मा देवि प्रसन्न पालखी अंतरीक्ष पेखत ॥

सकलवादीभक्तुंभपंचानन वादवादि सेवत चरण ।

अवसागर एवं वदति श्रीसोमकीर्ति मंगलकरण ॥ ३५

(म. ४९)

लेखांक ६५५ - विमलपुराण

रत्नभूषण

चिन्त्याने जगतीनेले त्रिसुवनस्वामिस्तुतभूम्नहात् ।
 काष्ठासंघमुनामानि प्रभुग्वी विद्यागो सुरिराद ॥
 नारंगार्णवपारसो बृहद्यगाः श्रीरामसेनो जिन- ।
 ध्यानागोविनिप्रधुनवृजिनो भालुलभोराशिषु ॥ १
 तन्क्रमेण गणभूवरभानुः योनकीर्तिरिच शीतभयूस- ।... ॥ २
 नत्यदे विजयमेतमर्दनो वाचिनास्त्रिज्जनः क्रमसोयः ॥ ३
 नत्यदृ सुरिराजः मकम्भगुर्णानधिः श्रीयगःकीर्तिविवः ।
 तत्सादांभोजपदपुत्मकञ्जशिसुखो वादिनागोर्जसिद्धः ॥
 मंजुसे प्रांतसेनोदय इति वचसां विस्तरं स प्रवीणः ।
 नत्यदृवा नांलिमस्तत्रिसुवनमहिमा नन्सुस्त्रप्रांतकीर्तिः ॥ ४
 राजने रजनिनायशुक्रांको नत्यदोदयनगाहिनदीपिः ।
 तर्कनादकृष्णगामदक्षा रत्नभूषणमहाकविगालः ॥ ५
 श्रीमद्भोहाकरेऽभुन् परमपुराकरे हर्षनामा वर्णयान् ।
 नत्यलो साधुशीला गुणगणसदने वीरिकाण्येन साध्वी ॥
 पुत्रः श्रीकृष्णदासो गतिप इव तयोर्जहाचारीश्वरः ।
 मस्कीर्ती राजने वै वृषभानिनदामोचधदपस्तमानः ॥ ६
 गूजरे जनपदे पुरे कृतः कल्पवृक्षमिव एकवन्तरान् ।
 वर्धमानयशसा मया पुरोः पत्कजाहितसुचेतसा ध्रुवं ॥ ८
 वेदधियद्वन्द्वमिनेथ वषे पक्षे सिने नामि नमन्यसेमे ।
 एकादशी सुकृष्णश्रयागे श्रीच्यान्तिने निर्मिते पञ एव ॥ १०

(अष्टाव १०, श्रीनार्ह देवकरः अकन्य १)

लेखांक ६५६ - ज्येष्ठजिनवग्पूजा

त्रिसुवनकीर्ति पदंकेल वारिण ।
 रत्नभूषण सुरि महा कश्चिया । १ २९
 प्रज्ञ कृष्ण जिनदास चित्तमिया ।
 लज्जयकार की उचरिया ॥ १८

(ज. १९०५)

लेखांक ६५७ -

गादी मूढा अति भला काष्ठासंघ मंगलकरण ।
जयसागर एवं वदति श्रीरत्नभूषण वंदो चरण ॥ ८

(म. ४९)

लेखांक ६५८ -

एसा करियदे वाजा दिगंबर राजा कच्छलनयरी प्रवेशतही ।
कहि जयसागर विद्या आगर रत्नभूषण गुरु आवतही ॥ ७

(म. ४९)

लेखांक ६५९ - तीर्थजयमाला

जय जिनवर स्वामी पय सर नामी कर जोडी मन भाव धरी ।
जयसागर वंदो पाप निकंदो रत्नभूषण गुरु नमस्करी ॥

(म. ११६)

लेखांक ६६० - पार्श्वपंचकल्याणिक

विबुधनरनिषेव्यः पंचकल्याणकाले ।
विमलतरजलाद्यैरर्चितो भव्यशुद्धैः ॥
जयजलनिधिपारै रत्नभूषाख्यवंद्यो ।
निखिलभुवनकीर्तिः पार्श्वनाथोऽवताद् व ॥ २६

(म. २७)

लेखांक ६६१ - पार्श्वमूर्ति

जयकीर्ति

सं. १६८६ वर्षे चैत्र वदी ३ भौमे भ. श्रीरत्नभूषण भ. जयकीर्ति
हूचढहातीय पार्श्वनाथं प्रणमति ।

(वडौदा दा. पृ. ६७)

लेखांक ६६२ - आदिनाथ पूजा

केशवसेन

कुमुमांजलि किल रत्नभूषणमाप्रणम्य कबीश्वरं ।

सूरिकेगवसेन गवं संयज्ञं विननीश्वरं ॥

(ना. ६३)

लेखांक ६६३ -

वीरावाड मान उदर सर मान हंस कल ।
 - हर्षसाह कुल भाण प्रकटचस सदा सुनिर्मल ॥
 कुमति किरिट घट सिंह ब्रह्म मंगल बड सोदर ।
 नरपनिपूजितपाय कणकचंपकवपुसुंदर ॥
 काष्ठासंघ गिरिराज रवि कविराज जन जय धरण ।
 सकलसूरिसिरसुगुटमनी केगवसेन सूरि सुखकरण ॥ ८८

(म. ४९)

लेखांक ६६४ -

केगवसेन सूरिंद्र चंद्रमुख मदनमनोहर ।
 याचक गुण गायंत ब्रह्म मंगल जस सोदर ॥
 कळोलकीर्ति वादीभहरि इंदार मझ सूरिपद-धरण ।
 प्रात प्रात तस जपता सकलसंघ-मंगल-करण ॥ ९०

(म. ८९)

लेखांक ६६५ - (हरिवंशपुराण-श्रीभूषण) विश्वकीर्ति

श्री संवन् १७०० श्रीकाष्ठासंघे भ. मोमकीर्ति तत्पट्टे भ. विजयसेन
 तत्पट्टे भ. यगःकीर्ति तत्पट्टे भ. उदयसेन तत्पट्टे भ. त्रिसुयनकीर्ति तत्पट्टे भ. रत्न-
 भूषण तत्पट्टे भ. जयकीर्ति तत्पट्टे भ. केगवसेन तच्छिष्य विश्वकीर्तिलिखितं ॥

(कारंजा)

लेखांक ६६६ - (न्यायदीपिका)

सं. १६९६ श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे भ. रत्नभूषण तत्पट्टे भ.
 जयकीर्ति तत्पट्टे भ. केगवसेन तत्पट्टे भ. विश्वकीर्ति तच्छिष्य पं. मनजी
 लिखितं मालासा ग्रामे ॥

(कारंजा)

लेखांक ६६७ - अतिशय जयमाला

धर्मसेन

पद्मत्वारिगतशुभगुणगणै राजते योरिहंता ।
 स्वस्वस्थाने स्थितनरसुरान् वर्षते धर्मतोयं ॥
 तस्मै देयो जलकुसुमभरैर्दीपसद्घूपकैश्च ।
 काष्ठासंघे भुवनविदिते धर्मसेनैः सूरिभिः ॥ ९

(म. २४)

लेखांक ६६८ -

काम क्रोध परिहरवि काष्ठासंघमंडन भयो ।
 क्वि वीरदास सचूं चवी धर्मसेन मट्टारक ज्यो ॥ २

(भा. ७ पृ. १६)

लेखांक ६६९ - ? मूर्ति

विश्वसेन

सं. १५९६ वर्षे फा. वदि २ सोमे श्रीकाष्ठासंघे नरसिंघपुरा ज्ञातीय
 नागर गोत्रे म. रत्नस्त्री भा लीलादे .नित्यं प्रणमति म. श्रीविश्वसेन
 प्रतिष्ठा ॥

(भा. ७ पृ. १६)

लेखांक ६७० - आराधनासारटीका

इति आराधनाटीका समाप्ता । म श्रीविश्वसेनेन लिखिता । श्रीकाष्ठा-
 संघे नन्दीतटगच्छाधिराज म श्रीविमलसेन तत्पट्टे म. श्रीविशालकीर्ति-
 गुरुभ्यो नमः ।

(ना. १०२)

लेखांक ६७१ -

काष्ठासंघ गुरुराय लक्ष्मीसेनह गुरु भणिण ।
 धर्मसेन तस पाटि-नाम वस श्रवणे सुणिण ॥
 विमलसेन विख्यातकीर्ति राय राणा रीझे ।
 सर्व सौख्य संपत्ति नाम परभाती लीजे ॥

श्रीविशालकीर्ति पट्टोद्धरण नंदियलगच्छ उद्योतकर ।
श्रीविश्वसेन भवियण जयो सयल संघ वंद्य पर ॥ ३

(म. ४९)

लेखांक ६७२ -

लीधो संयम रयण मयण मच्छरमे हलान्यो ।
तीनइ अवसरी श्रीपाल साहि कुल कलश चढान्यो ॥
श्रीहुंगरपुरनयरी प्रही दीक्षा दिगंबर ।
उत्सव हुई अनेक भोज घर भोजतने पर ॥
श्रीविसालकीर्ति निज करकमली पद प्रमाणती अप्पयो ।
कर्म सीकला दीन दीन प्रतप्यो विश्वमेन गुरु थप्पयो ॥ १६०

(म. ४९)

लेखांक ६७३ -

रूपवंत राजान शील संजम तु छलि ।
चात्यु दक्षण खेत्र संजम तु महिअलि गलि ॥
श्रीकाष्ठसंघ नंदीयलगच्छ विद्यागुण बखाणीइ ।
सूरि विद्याभूषण कहि विश्वसेन जगि जाणीइ ॥ ५

(म. ४९)

लेखांक ६७४ - सीताहरण

विजयकीर्ति

काष्ठासंघ गृंगार विविध विद्यारससागर ।
नंदीतटगच्छ काठ्य पुराण गुण आगर ॥
सूरि विश्वसेन पाटि प्रगट सूरि विजयकीर्ति वंदित चरण ।
महेंद्रसेन एवं वदति राम सीता मंगलकरण ॥ १६०

(म. ८५)

लेखांक ६७५ - बारामासी

काष्ठासुमंघ नंदीतट मंडित विश्वसेनगुरु गाजतुही ।
विजयकीर्ति तस पाट प्रभाकर महेंद्रसेन शिष्य राजतुही ॥ १३

(म. ८५)

लेखांक ६७६ - पार्श्वमूर्ति

विद्याभूषण

सं. १६०४ वर्षे वैशाख वदी ११ शुके काष्ठासंघे नन्दीतटगच्छे
विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये भ. श्रीविशालकीर्नि तत्पट्टे म. श्रीविश्वसेन
तत्पट्टे भ. श्रीविद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं हुंबड ज्ञातीय गृहीतदीक्षा वार्ड अनंत
मती नित्यं प्रणमति ।

(बडोदा द. पृ. ६७)

लेखांक ६७७ - पार्श्वमूर्ति

संवत् १६३६ श्रीकाष्ठासंघे भ. विद्याभूषण प्रतिष्ठितं हुंबड सा
जयवंत ।

(ज. प्र. किल्लेटोर, नागपुर)

लेखांक ६७८ - द्वादशानुप्रेक्षा

विद्याभूषण इम कहे जे चितए दिउ रात ।

द्वादशानुप्रेक्षा भली धन्य धन्य तेहनी माय ॥ १७

(म. १२०)

लेखांक ६७९ -

श्रेष्ठी सुजाण हरदाससुत काष्ठासंघमानंदकर ।

विश्वसेन पट्टि भल्लु सूरि विद्याभूषण वंदु प्रवर ॥ ४

(म. ४९)

लेखांक ६८० -

विश्वसेन सिष्यह सुगुण ज्ञान दान दाता चतुर ।

कवि राजनभट्ट समुच्चरड विद्याभूषण वंदू प्रवर ॥ १६७

(म. ४९)

लेखांक ६८१ - श्रीभूषण

संवत् षट दश मसे पढ्यू पंचोत्तर प्राक्रम ।

सीतांवर सह कोय हठी हठ यासह हाकिम ॥

पाढी करी पोशाल देअनीकालो दीधो ।
 मत्तचोरासीमाही उत्तर कोने नधि कीधो ॥
 पुछीयु तन जागीरने वली धर्म पूछ्यो सुदा ।
 दिगंबर धर्म दीवानधी श्रीभूषणे राख्यो सदा ॥ १०७

(म. ४९)

लेखांक ६८२ - पार्श्वमूर्ति

शक १५०१ मा. तिथि ८ काष्ठासंघे भ. श्रीश्रीभूषण सदुपदेशात्
 प. जयवंत ।

(ल. से. पिंजरकर, नागपुर)

लेखांक ६८३ - शांतिनाथ पुराण

विद्याभूषणपट्टकंजतरणिः श्रीभूषणो भूषणो ।
 जीयाञ्जीवदयापरो गुणनिधिः संसेवितः सज्जनैः ॥
 काष्ठासंघसरित्यतिः शशधरो वादी विशालोपमः ।
 सद्बृत्तोर्कधरोऽतिसुंदरतरो श्रीजैनमार्गानुगः ॥ ४६१
 संवत्सरे पोढशनामधेये एकोनगतपष्ठियुते वरेण्ये ।
 श्रीमार्गशीर्षे रचितं मया हि शास्त्रं च वर्षे विमलं विशुद्धम् ॥ ४६२
 त्रयोदशीसद्विसे विशुद्धं वारे गुरौ शांतिजिनस्य रम्यं ।
 पुराणमेतद् विमलं विशालं जीयाञ्छिरं पुण्यकरं नराणाम् ॥ ४६३
 श्रीगुरैरेष्यस्ति पुरं प्रमिद्धं सौजित्रनामाभिघमेव सारं ।
 श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्रं जिनभूतिरम्यम् ॥ ४६६

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४५)

लेखांक ६८४ - पद्मावती मूर्ति

संमत १६६० वर्षे फाल्गुण शुद्धि १० श्रीकाष्ठासंघे लाडवागढगच्छे
 भ. प्रतापकीर्त्याम्नाये वधेरवाल ज्ञानीय...प्रणमंति श्रीकाष्ठासंघे नंदीतट-
 गच्छे भ. श्रीश्रीभूषण प्रतिष्ठितं ।

(व. हि. जोगी, नागपुर)

लेखांक ६८५ — रत्नत्रय यंत्र

संवत् १६६५ वर्षे माघ सुदि १० शुक्ले श्रीकाष्ठासंधे भ. श्रीभूषण-
प्रतिष्ठितं वीर्यचारित्रयंत्रं नित्यं प्रणमंति ।

(नादगाव, अ. ४ पृ. ५०४)

लेखांक ६८६ — चंद्रप्रभ मूर्ति

संवत् १६७६ वर्षे माघ वदी ८ श्रीकाष्ठासंधे लाडवागडगच्छे भ.
श्रीप्रतापकीर्त्याम्नाये वधेरवालज्ञातौ धोरखंड्यागोत्रे धर्मजी सा भार्या अंबाई
तयोः पुत्र लखमण सा प्रमुख पंच पुत्रा सभार्या सपुत्रा श्रीचंद्रप्रभुं प्रणमंति ।
श्रीकाष्ठासंधे नन्दीतटगच्छे भ. श्रीभूषणप्रतिष्ठितं वहादुरपुरे ।

(परवार मन्दिर, नागपुर)

लेखांक ६८७ — द्वादशांग पूजा

अर्चे आगमदेवतां सुखकरां लोकत्रये दीपिकां ।
नीराज्य प्रतिकारकैः क्रमयुगं संपूज्य बोधप्रदां ॥
विद्याभूषणसद्गुरोः पदयुगं नत्वा कृतं निर्मलं ।
सच्छ्रीभूषणसंज्ञकेन कथितं ज्ञानप्रदं बुद्धिदं ॥

(म. २६)

लेखांक ६८८ —

माकुही मात कृष्णासाह तात श्रीभूषण विख्यात दिन दिनह दीवाजा
वादीगजघट्ट दीयन सुथट्ट न्यायकु हट्ट दीवादीव दीपाया ॥ १२९

(म. ४९)

लेखांक ६८९ —

काष्ठादिसंधमंडन तिलक श्रीभूषण सूरिवर जयो ।
सुविवेक ब्रह्म एवं वदति सकल संघ मंगल भयो ॥ १७६

(म. ४९)

लेखांक ६९० -

काष्ठासंघ गच्छपति राउ देखो सब लोके सुरतको आनंद पायो ।
वादीचंद्रको मान उतारि करीव देखो श्रीभूषण सुरेश्वर आयो ॥ १६

(म. ४९)

लेखांक ६९१ -

जिम श्रीभूषण देखी करी तिम वादीचंद्र रडथड पडे ।
कवि राजमल्ल कहे सांभलो मूलसंघ हैडे रहे ॥ ११०

(म. ४९)

लेखांक ६९२ -

काष्ठासंघकुल अभिनवो श्रीभूषण प्रकट सदा ।
सोमविजय एवं वदति नृत्य करे नारी मुदा ॥ १०३

(म. ४९)

लेखांक ६९३ - श्रावकाचार

संक्षेपि कहा मि त्रेहपन भेद । विस्तार सिद्धांत कहि ते वेद ॥
श्रीभूषण गच्छनायक सीस । हेमचंद्र संबोध कही पणवीस ॥ २५

(म. २८)

लेखांक ६९४ -

श्रीभूषणसूरिराज दिनकरसम भाज अधिक ब्रह्मण्डला जय जयकरण ।
नेमिजिनस्वामी चंग सकलकर्मनु मंग शिव ब्रह्म कियु संग गुणमेन सरण ॥१०

(म. ४९)

लेखांक ६९५ -

काष्ठासंघ गच्छाभरण श्रीभूषण कहिये सुगुण ।
हर्षसागर एवं वदति सकलसंघ-मंगल-करण ॥ १०१

(म. ४९)

लेखांक ६९६ - नेमि धर्मोपदेश

काष्ठासंघ उदयगिरि जाण । विद्याभूषण गच्छपति माण ॥
 तस पद मंडन निर्मलमती । श्रीभूषण गिरु या गच्छपती ॥
 तास शिष्य बोले मनहार । ब्रह्म ज्ञानसागर सुविचार ॥ ४१

(म. २९)

लेखांक ६९७ - नेमिनाथ पूजा

श्रीकाष्ठसंघोदयवासरेश-श्रीभूषणाद्यैर्मुनिभिः प्रवंद्यः ।
 श्रीनेमिनाथो जगतां सुखाय भूयात् सदा ज्ञानसमुद्रबंधः ॥

(म. २९)

लेखांक ६९८ - गोमटदेव पूजा

यो हर्ताखिलकर्मणां भुजवली कर्ता सदा शर्मणां ।
 यो दाता त्वभयस्य संसृतिवने त्राता जगत्तारकः ॥
 काष्ठासंघमहोदयाद्रिदिनकृत्श्रीभूषणाद्यैः स्तुतः ।
 ब्रह्मज्ञानसमर्चितो भवहरः पायात् सतां सर्वदा ॥

(म. ११४)

लेखांक ६९९ - पार्श्वनाथ पूजा

श्रीभूषणं नाम परं पवित्रं श्रीपार्श्वनाथं धरणेद्रूप्यं ।
 श्रीज्ञानपाथोनिधिपूज्यपादं स्तुवे सदा मोक्षपदार्थसिद्धयै ॥

(म. ११३)

लेखांक ७०० - जिन चउवीसी

भावसहित जे पढी त्रिकाळ । तास मनोवाञ्छित गुणमाल ॥
 श्रीभूषण गुरु पद आधार । ब्रह्म ज्ञानसागर कहे सार ॥ ५१

(म. ७६)

लेखांक ७०१ - द्वादशी कथा

रोग शोक संतापह टले । मनवांछित पद पूरण मले ॥
श्रीभूषण सुत द्वारा लहे । ब्रह्म ज्ञानसागर इम कहे ॥ ३६

(ना. ३)

लेखांक ७०२ - दशलक्षण कथा

भट्टारक श्रीभूषण वीर । तिनके चेला गुणगंभीर ॥
ब्रह्म ज्ञानसागर सुविचार । कही कथा दशलक्षण सार ॥ ३७

[जैन व्रतकथा संग्रह, दिल्ली, १९२१]

लेखांक ७०३ - अक्षरवावनी

काष्ठासंघ समुद्र विविध रत्नादिक पूरित ।
नंदितदगल्ल भाण पाप मिथ्यामत चूरित ॥
विद्यागुणगंभीर रामसेन मुनि राजे ।
तास अनुक्रम धीर श्रीभूषण सूरि गाजे ॥
कलियुगमां श्रुतकेवलि पट्टदर्शनगुरु गल्लपति ।
तास शिष्य एवं वदति ब्रह्म ज्ञानसागर शक्ति ॥ ५३
वंश वघेर प्रसिद्ध गोत्र एह भणिले ।
श्रावक धर्म पवित्र काष्ठासंघ गणिले ॥
संघपति वापु नाम लघु वय बहु गुणधारी ।
दयावंत निर्दोष सव जनकु सुखकारी ॥
उसकी प्रीत विशेषथे पढनेकु वावनी करी ।
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति आगमतत्त्वर असूत भरी ॥ ५४

(म. ७५)

लेखांक ७०४ - राखीबंधन रास

विद्याभूषण गुरु गल्लपती । श्रीभूषण शिष्ये शुभ मती ॥
ब्रह्म ज्ञान बोले मनोहार । राखीबंधन कथा विचार ॥ ७६

(ना. ८)

लेखांक ७०५ - पल्यविधान कथा

काष्ठासंघे परमसुरेंद्र । श्रीभूषणगुरु हितकर चंद्र ॥
तस पदपंकज-मधुकर रहे । ब्रह्म ज्ञानसागर इम कहे ॥ ८०

(ना. ८)

लेखांक ७०६ - निःशल्याष्टमी कथा

काष्ठासंघ कुलांबरचंद्र । श्रीभूषणगुरु परमानंद ॥
तस पदपंकज-मधुकर सार । ज्ञानसमुद्र कहे सार ॥ ६२

(ना. ८)

लेखांक ७०७ - श्रुतस्कंध कथा

ए व्रतनु फल एहउ जाण । श्रीनिणराज कहु बखाण ॥
श्रीभूषणपद वंदी सदा । ब्रह्म ज्ञानसागर कहे मुदा ॥ ४८

(ना. ८)

लेखांक ७०८ - मौन एकादशी कथा

काष्ठासंघ उदयगिर भान । सकल कला विद्या गुण जान ॥
विश्वसेन गच्छपति गुणवंत । विद्याभूषण सुरिवर संत ॥ ७६
श्रीभूषण भट्टारक सार । दयावंत विद्यामंडार ॥
तास सिस्थ मनभावे करी । ब्रह्म ज्ञान कथा उचरी ॥ ७७

(ना. ८)

लेखांक ७०९ - पार्श्वनाथ पुराण

चंद्रकीर्ति

काष्ठासंघे गच्छनंदीतटीयः श्रीमद्विद्याभूषणाख्यश्च सूरिः ।
आसीत्पट्टे तस्य कामांतकारी विद्यापात्रं दिव्यचारित्रधारी ॥
यद्व्रततो नैति गुरुर्गुरुत्वं श्लाघ्यं न गच्छत्युशनोपि बुद्धया ।
भारत्यपि नैति माहात्म्यमुग्रं श्रीभूषणः सूरिवरः स पायात् ॥
श्रीमद्देवगिरौ मनोहरपुरे श्रीपार्श्वनाथालये ।
वर्षेऽधीपुरसैकमेव इह वै श्रीविक्रमांके सरे ॥

सप्तम्यां गुरुयासरे श्रवणमे वैशाखमासे सिते ।
 पार्श्वधीशपुराणमुत्तममिदं पर्याप्तमेवोत्तरम् ॥
 इति त्रिजगदेकचूडामणिश्रीपार्श्वनाथपुराणे श्रीचंद्रकीर्त्याचार्यप्रणीते भगव-
 निर्वाणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पंचदशः सर्गः ॥

(जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४६)

लेखांक ७१० - पद्मावती मूर्ति

संवत् १६८१ वर्षे फाल्गुन सुदि २ काष्ठासंघे भ. चंद्रकीर्ति...
 नरसिगपुराज्ञातीय सा सज्जन.. ।

(अ. ४ पृ. ५०४)

लेखांक ७११ - पार्श्वनाथ पूजा

श्रीभूपणालंकृतविश्वसेन-नरेन्द्रसूनुर्जिनपार्श्वनाथः ।
 श्रीचंद्रकीर्तिः सततं पुनातु वाणारसीपत्तनमंडनं वः ॥

(म. ५६)

लेखांक ७१२ - नंदीश्वरपूजा

अस्ति श्रीकाष्ठसंघो यतिजनकलितो गच्छनंदीसटाको ।
 विद्यापूर्वे गणांतेऽजनिपत गुरवो रामसेनाश्च तस्मिन् ।
 तद्वशे रेजिरे वै मुनिगणसहिताः सूरयो विश्वसेना ।
 विद्याभूपाख्यसूरिर्जिनमतिरभवत्तत्पदांभोधिचंद्रः ॥
 तत्पट्टोदयभूधरैकतरणिः पंचेष्वरण्यारणिः ।
 श्रीश्रीभूपणसूरिराट् विजयते सर्वज्ञविद्याचणः ॥
 तच्छिष्यो जिनपादपद्मधुपः श्रीचंद्रकीर्तिर्वरं ।
 तेनाचार्यवरेण निर्मितमिदं नांदीश्वरायार्चनं ॥

(म. ११२)

लेखांक ७१३ - ज्येष्ठजिनवर पूजा

काष्ठासंघमहोदयाद्रिमिहिरः श्रीभूपणाद्यैः स्तुतः ।
 पाथोभिर्घृतदुग्धाद्व्यद्विभिक्षोरसेस्तर्पितः ॥

ज्येष्ठे मासि समर्चितः पुरुपतिर्दिव्यार्चनैश्चाष्टधा ।
देयाद् वः सततं सुमुक्तिविभव श्रीचंद्रकीर्तिस्तुतः ॥

(म. ११५)

लेखांक ७१४ - षोडशकारण पूजा

एतान्युत्तमकारणानि सततं देयासुरत्यद्भुतं ।
राज्यं प्राण्यमनेककुंजरघटाश्वस्यंदनाग्रेसरं ॥
लक्ष्मीछत्रसुचामरासनयुतां स्वर्गापवर्गाश्रियं ।
भव्येभ्यः प्रियदर्शनव्रतगुणश्लाघ्येभ्य एवोत्तमं ॥
एतद् व्रतं यः सततं विधत्ते संमोदते संयजते त्रिकालं ।
संभावयत्यर्चनवस्तुभेदैः यात्येष मोक्षं किल चंद्रकीर्तिः ॥

(म. ७)

लेखांक ७१५ - सरस्वतीपूजा

सकलसुखनिधानं विश्वविद्याप्रधान । बहुतरमहिमानं चंद्रकीर्तीशमानं ।
पठति परमभक्त्या यः सदा शुद्धभावः । स इह सुसमयश्रीभूषणः
स्यात् सदैव ॥

(म. १०९)

लेखांक ७१६ - जिन चउवीसी

श्रीभूषणसूरि वंदित पद वीरनाथ विद्याभरण ।
सकलसंघ जयकार कर चंद्रकीर्ति चर्चितचरण ॥ २४

(म. ४४)

लेखांक ७१७ - पांडव पुराण

इष्ट देव वंदि करी भाव शुद्धि मन आनण ।
चंद्रकीर्ति एवं वदति कथा भारती वर्णण ॥ १

(म. ८६)

लेखांक ७१८ - गुरुपूजा

ईदृग्विधान् मुनिवरान् खलु चंद्रकीर्तीन्
स्तुत्वा च ये परिणमन्ति च संयजन्ते ॥

ध्यायंति ते सुरनरोरगराजसौख्यं
भुक्त्वा भवंति विबुधाः किल सौख्यभाजः ॥

(म. ११०)

लेखांक ७१९ -

दक्षिणमें राजत वादिवज्रांकुश चंद्रसुकीर्ति ये चिद्घन री ।
दिगंबरमें यह सोभित वादि जु मानत पंडित चिद्घन री ॥ २५

(म. ४९)

लेखांक ७२० -

कर्णाटक देश मनोहर सुंदर सोभत नरसिंहपाटन रे ।
कावेरीके तीर जु आवत संघहे त्रास पड्यो सब विद्वनु रे ।
चंद्रकीर्ति सुवादि विकटाहि जानिके मान भट्टसुपंडित बोलतु रे ।
बोलत लक्ष्मण वादके कारण भट्ट सुकृष्ण ये आवतु रे ॥ १९
प्रथम सुवचनमें वादि जु खंडत कृष्णसुभट्ट ये हारतु रे ।
न्यायके युक्तिसु बोलत वादि रे चंद्रसुकीर्ति जय पावतु रे ॥
वाजत ढोल तबल निसानसु मानत भूपति सिर आनतु रे ।
काष्ठासंघ दिवाकरकु येह देखन आवत चारुसुकीर्तिय रे ॥ २०

(म. ४९)

लेखांक ७२१ - चौरासी लक्षयोनि विनती

काष्ठासंघ विख्यात प्रसिद्ध गच्छ नंदीतट सार ।
विश्वसेन विश्वाभरण विद्याभूषण गुरु भवतार ॥
श्रीभूषण प्रताप घणो महिमंडल दूजो भान ।
चंद्रकीर्ति तस पट्ट विराजे माने वादी सब आन ॥
श्रीगुरुचरण नामी करी विनवे लक्ष्मण जिनराज ।
हवे कर्मबंध छेदो प्रभु अवर नहीं मुझ काज ॥ २९

(म. १५)

लेखांक ७२२ - बारामासी

मुगति बरी श्रीनेमि जिनेश्वर राजुल स्वर्ग सुख पावत रे ।
 विद्याभूसन पाट दिवाकर सूरि श्रीभूसन सोभत रे ॥
 काष्ठासुसंघ विख्यात प्रसिद्ध ये नन्दीतट गछ सुहावत रे ।
 चंद्रसुकीर्तिके सिष्य विराजत बोलत लक्ष्मण पंडित रे ॥ १३

(ना. १२३)

लेखांक ७२३ - तीन चउबीसी विनती

काष्ठासंघ उदयाचल भान । सूरि श्रीभूषण पट्ट बखान ॥
 चंद्रकीर्ति सूरेश्वर जान । तास शिष्य लक्ष्मण बोले बान ॥ १९

(म. २०)

लेखांक ७२४ - पार्श्वनाथ विनती

काष्ठासंघे गुणह गंभीर । सूरिश्रीभूषण पट्ट सुधीर ।
 चंद्रसुकीर्ति नमित नरसीस । सेवक लखमन चरन विसेस ॥ १२

(म. ३२)

लेखांक ७२५ -

राजकीर्ति

चंद्रसुकीर्ति पट्टोघर राजसुकीर्ति राया मण रंजी ।
 वानारसि मध्य विवाद करी धरी मान मिध्यातको मनकुं भंजी ॥
 पालखी छत्र सुखासन राजित भ्राजित दुर्जन मनकु गंजी ।
 हीरजी ब्रह्म के साहिव सद्गुरु नाम लिये भवपातक भंजी ॥ २१८

(म. ४९)

लेखांक ७२६ -

गादी लाल गुलाल राजकीर्ति गुरु वैसे सही ।
 हेमसागर एवं वदति मिध्या तिभिर छेदे सही ॥ ११४

(म. ४९)

लेखांक ७२७ - रविवार व्रत कथा

श्रीभूषण गुरु काष्ठासंघ । चंद्रकीर्ति गुरु जग जसवंत ॥
राजकीर्ति गौतम सम जाण । ब्रह्म ज्ञाननि कियो बख्खान ॥ ४३

(म. २५)

लेखांक ७२८ - (लाडवागड गच्छ पट्टावली)

भ. श्रीराजकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेन विजयराजे भ. राजकीर्ति
तत्सिष्य पं. हाजी लिखितं ॥ इति श्रीगुर्वावली समाप्ता ॥

(म. ३८)

लेखांक ७२९ - पद्मावती मूर्ति

लक्ष्मीसेन

शके १५६१ वर्ष फाल्गुण वदी १० शनिश्चरे काष्ठासंघे लाडवागड-
गच्छे पुष्करगणे लोहाचार्यान्वये श्रीनरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. प्रतापकीर्त्याम्नाये
बघेरवाल ज्ञाति बोरखंड्या गोत्र सा भावा भार्या गोमाई तयोः पुत्र सा पामा
द्वितीय पुत्र देयासा नित्यं प्रणमंति श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे
रामसेनान्वये भ. श्रीलक्ष्मीसेन प्रतिष्ठितं ।

(पा. ११५)

लेखांक ७३० - बाहुवली मूर्ति

संमत १७०३ वर्षे ज्येष्ठ वदी १० शुक्रे श्रीकाष्ठासंघे लाडवागडगच्छे
लोहाचार्यान्वये वराहप्रदेशे कारंजीनगरे प्रतापकीर्ति आम्राय बघेरवाल
ज्ञातिय सावला गोत्र सा श्रीपससा भार्या पद्माई . एते समस्त श्रीकाष्ठा-
संघे नंदीतटगच्छे रामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ. श्रीविश्वसेन तत्पट्टे भ.
विद्याभूषण तत्पट्टे भ. श्रीभूषण तत्पट्टे भ. चंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. राजकीर्ति
तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ठितं ॥

(ना. १३)

लेखांक ७३१ - पार्श्वमूर्ति

इंद्रभूषण

शके १५८० माघ सुदी ५ सोमे कारजानगरे काष्ठासंघे नन्दीतटगच्छे
म. इंद्रभूषणप्रतिष्ठितं वधेरवाल ज्ञांति गोवल गोत्रे.. ॥

(ना. २६)

लेखांक ७३२ - यन्नावती मूर्ति

शके १५८० माघ सुदी ५ सोमवार काष्ठासंघे नन्दीतटगच्छे म.
श्रीइंद्रभूषण प्रतिष्ठितं वधेरवाल ज्ञातौ वोरखंडिया गोत्रे तेऊजी... ॥

(मा. स. महाजन, नागपुर)

लेखांक ७३३ - विंध्यगिरि लेख

संवत् १७१८ वर्षे वैसाख सुदि ७ सोमे श्रीकाष्ठासंघे मण्डि [नन्दि]
तटगच्छे...श्रीराजकीर्तिः तत्पट्टे म. श्रीलक्ष्मीसेन तत्पट्टे म. श्रीइंद्रभूषण
तत्पट्टे शोसू [श्रीसुरेन्द्रकीर्ति ?] वधेरवाल जाती वोरखल्ल वाई-पुत्र पंभा
धनाई...सपरिवारे गोमट स्वामिचा जात्रा सफल ॥

(जैन त्रिलालेख संग्रह १, पृ. २३०)

लेखांक ७३४ - कोकिल पंचमी कथा

काष्ठासंघ गृछाधिप राय । इंद्रभूषण गुरु प्रणमी पाय ॥
हर्षसहित श्रीपति ब्रह्मा कहे । सकलसंघ धर लक्ष्मी वहे ॥ ५६
संमत संत्तरसे छेतीस । चैत्र सुधी पढवानो दीस ॥
कथासंबंध संपूरण थयो । सकल संघने मंगल भयो ॥ ५७

(ना. ८)

लेखांक ७३५ - गोमटस्वामी स्तोत्र

इति परमजिनेद्रो गोमटाख्यो जिनोव्यात्
कुगतजिननदुःखाद्दः सदा संस्तुतोसौ ।
सुकृतसदनकाष्ठासंघमुख्येद्रभूषा-
भिषविहितनिदेशाद् भूपतिप्राज्ञमिश्रैः ॥ ९

(म. ३१)

लेखांक ७३६ -

इंद्रभूषण सूरिराय पाय विद्वज्जन वंदित ।
 राजकीर्तिनो शिष्य वैश्यमत दूरे स्थापित ॥
 सकलदेशमाहे प्रगट कविजनमाहे मानती ।
 जिनसेन कहे मूलसंघ सेनगण वारवार करती स्तुती ॥ १४

(म. ४९)

लेखांक ७३७ -

श्रीकाष्ठासंघ नाम प्रथम गोत्र पंचवीस ।
 मूलसंघ उपदेश गोत्र अंते सत्तावीस ॥
 वधेरवाळ बढ ज्ञाति गोत्र वाचण गुणपूरा ।
 धर्मधुरंधर धीर परम जिण मारग सुरा ॥
 महाव्रतधारक श्रीभट्टारक लक्ष्मीसेनय जानिये ।
 गुरु इंद्रभूषण गंगसमसुगुण नरेंद्रकीर्ति बखाणिए ॥ ११२

(म. ४९)

लेखांक ७३८ - गुरुस्तुति

स्वस्ति स्यात्पदलांछिते वरगणे काष्ठादिसंघे सुधीः
 ख्यातः प्रीतमना नृणां बहुमतः श्रीराजकीर्तिस्तवः ।
 लक्ष्मीसेनविमुस्ततोथ विलसच्छ्रीजैनभूषामणिः
 जीयाद् वासवभूषणश्च सुकृतेर्बीजस्य रक्षामणिः ॥

(म. १०८)

लेखांक ७३९ -

काष्ठासंघ गळांवर ए मुनि सुंदर इंडु सो इंद्रभूषण विराजे ।
 मुमत्यन्धि कहे गळपति समो अन्य कोइ नहीं अवनी मान पावे ॥१४

(म. ४९)

लेखांक ७४० -

श्रीराजकीर्ति सिष्यह सुगुण लक्ष्मीसेन पट्टोधरण ।

नरेंद्रसागर इत्थं वदति श्रीइंद्रभूषण तारण तरण ॥ ८९

(म. ४९)

लेखांक ७४१ -

न्यायप्रमान सुखाय जु बोलत वादिगजांकुस मर्दतु रे ।
ब्रह्म रूपाब्धि कहे जु यनीपेरे इंद्रभूषण सोभतु रे ॥ १२

(म. ४९)

लेखांक ७४२ -

इंद्रभूषण हे सुर दूर कृत अन्य मतेंद्रह ।
काष्ठासंघ शृंगार हार तस मध्य मुनेंद्रह ॥
जिनदास कहे सुर कुर मनमथ वादी मारये ।
कुवादवादींद्र उंद्र सकलही हारये ॥ १४८

(म. ४९)

लेखांक ७४३ -

चारित्रपात्र त्रिसुवनविदित सील सौख्य शोभे सदा ।
द्विज विश्वनाथ डम उच्चरे इंद्रभूषण सेवो मुदा ॥ १२१

(म. ४९)

लेखांक ७४४ - रत्नत्रय यंत्र

सुरेंद्रकीर्ति

संवत् १७४४ सके १६०९ फाल्गुण सुद १३ श्रीकाष्ठासंघे लाह-
बागडगच्छे भ. प्रतापकीर्त्याम्नाये वचेरवालज्ञातौ गोवाल गोत्रे सं. पदाजी
भार्या तानाई ..प्रणमंति । श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे भ. इंद्रभूषण तत्पट्टे
भ. सुरेंद्रकीर्तिः ॥

(ना. ५७)

लेखांक ७४५ - मेरु मूर्ति

संवत् १७४७ शाके १६१२ प्रमोदनाम संवत्सरे ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे
सातम बुधवासरे नंदीतटगच्छे भविष्य [विद्या] गणे भ श्रीरामसेनान्वये

तत्पट्टे भ. श्रीविशालकीर्ति...तत्पट्टे भ. श्रीदेवेंद्रभूषण तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रकीर्ति प्रतिष्ठितं ॥

(सूक्त, दा. पृ. ४६)

लेखांक ७४६ - रत्नत्रय यंत्र

संवत् १७४७ सके १६१२ ज्येष्ठ वदी ७ भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टे भ. सुरेंद्रकीर्ति प्रतिष्ठितं । श्रीकाष्ठासंघे लाडवागढगच्छे पुष्करगणे लोहाचार्या-
न्वये भ. श्रीनरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. श्रीप्रतापकीर्ति आम्नाये नबेरवाल ज्ञाति
गोवाल गोत्रे सं. वापु पुत्र सं. भोज...श्री अबहनगर प्रतिष्ठितं ॥

(ना. ६०)

लेखांक ७४७ - भरत भुजबली चरित्र

श्रीकाष्ठांवर संग गंग सम निर्मल कहिये ।
क्षालित पाप कलंक पंक गणधर मुनि सहिये ॥
लोहाचार्य वर मुनी गुणी सहु शास्त्रह ज्ञाता ।
कलयुग जानी चार गछ थापे सुभ हाता ॥
पुन्नाट वागह गछ जु नंदीतट माथुर ये ।
गण चार नाम जु जुवा तेहना पति भासुर ये ॥ २१७
पुन्नाटसंज्ञक गछ स्वल पुष्करगण राणो ।
विनयंधर सुरेश ईश तद्वंशे मानो ॥
प्रतापकीर्ति भट्टारक तर्कशिरोमणि धामह ।
तत्पट्टे अतिमुहन भुवनकीर्ति अभिरामह ॥
गछ नंदीतट विद्यागण सुरेंद्रकीर्ति नित वंदिये ।
तस्य शिष्य पामो कहे दुखदरिद्र निकंदिये ॥ २१८
सक सोढस सत चौद बुद्ध फाल्गुण सुदपक्षह ।
चतुर्थिदिन चरित्र धरित पूरण करी दक्षह ।
कारंजो जिनचंद्र इंद्रवंदित नमि स्वार्थे ।
संघवी भोजनी प्रीत तेहना पठनार्थे ॥
बलि सकलश्रीसंघने येथि सहू वांछित फले ।
चक्रिकाम नामे करी पामो कह सुरतरु फले ॥ २१९

(म. ८७)

लेखांक ७४८ - अष्टद्रव्य छप्पय

काष्ठासंघ-उदयाचल दिनमनिसम गुरु वंदिए ।
सुरेद्रकीर्ति पत्कज भ्रमर पामो कहे अर्षक दिए ॥ ९

(ना. १२३)

लेखांक ७४९ - नवकार पचीसी

गळ नंदीतट नाम धरातल काष्ठासंघ विद्यागण धारै ।
रामसुसेन परंपरमाहि सुरेंद्रकीरति भट्टारक वारै ॥
संवत सत्तरसै वरसै फुनि अंक एकावन मान विचारै ।
आदिजिनेद्र कला अधिकी धनसागरकी मति एम बधारै ॥ २४
वागड देस वसै नगरी अभिधान गिरीपुर इंद्रपुरीसी ।
कोटडिया किरपाल नरोत्तम हुंवड न्याति विसेसहि वीसी ॥
आदिजिनेद्रभुवनविचै जिनमूरति राजत कंचनकीसी ।
ब्रह्म भणे धनसागरजी तिहां पूरि भई नवकारपचीसी ॥ २५

(म. ८१)

लेखांक ७५० - विहरमान तीर्थकर स्तुति

गुज्जर खंडमें है गुजरात तिहां पुर राजपुरादिक नामी ।
हुंवड भट्टपुरा मनोहार जिनोकत मारगके विसरामी ॥
सवत सत्तर त्रेपनमांहि तिहां श्रिय संघको आग्रह पामी ।
जोडि रची धनसागर सीतलनाथ जिनेसरके सिर नामी ॥ २६
काष्ठासुसंघ विख्यात वरिष्ठ नंदीतटगळ विद्यागणवारक ।
रामसुसेनपरंपरमाहि सुवासवभूषण दूषणवारक ॥
पट्ट प्रभाकर है तिनकौ विद्यमान सुरेद्रकीर्ति भट्टारक ।
तेह समे धनसागर ब्रह्म कवित्त बखान करै सुखकारक ॥ २७

(म. ८२)

लेखांक ७५१ - चौवीसी मूर्ति

संवत १७५३ वर्षे त्रैसाख सुदि ७ सनौ श्रीकाष्ठासंघे लाडवागडगच्छे
लोहाचार्यान्वये तदनुक्रमे भ. श्रीप्रतापकीर्ति तदात्राये वधेरवालझातौ

गोवाल्लगोत्रे संघवी भोज भार्या पद्माई...श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे राम-
सेनान्वये तदनुक्रमे भ. इंद्रभूषण तत्पट्टे भ. सुरेंद्रकीर्ति ॥

(ना. ५५)

लेखांक ७५२ - केशरियाजी मंदिर

संवत् १७५४ वर्षे पौषमासे कृष्णपक्षी पंचम्यां बुध श्रीकाष्ठासंघे
नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ. श्रीराजकीर्ति
तत्पट्टे भ. श्रीलक्ष्मीसेन तत्पट्टे भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टे भ. श्रीसुरेंद्रकीर्त्यु-
पदेशान् दसा हूमड ज्ञातीय वृद्धशाखायां विश्वेश्वरगोत्रे सहा अल्हावंश...
इत्यादि सपरिवार सह संघवी पाहर तेन लघु प्रासाद कारपिता शुभं भवतु ॥

(वीर २ पृ. ४६०)

लेखांक ७५३ - केशरियाजी मंदिर

स्वस्तिश्री संवत् १७५६ वर्षे शाके १६५ (२) ९ प्रवर्तमाने सर्व-
जितनाम संवत्सरे मासोत्तम मासे कृष्णपक्षे १३ तिथौ शुक्रवासरे श्रीकाष्ठा-
संघे लाहवागडगच्छे लोहाचार्यान्वये तदनुक्रमेण भ. श्रीप्रतापकीर्ति आम्नाये
श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये तदनुक्रमेण भ.
श्रीश्रीभूषण.....भ. श्रीइंद्रभूषण तत्पट्टकमलमधुकरायमान भ. श्रीसुरेंद्र-
कीर्ति विराजमाने प्रतिष्ठितं वधेरवालज्जाति गोवाल्लगोत्र संघवी श्रीअल्हा
भार्या कुडाई .. ।

(वीर २ पृ. ४६०)

लेखांक ७५४ - पार्श्वपुराण

काष्ठासंघ प्रसिद्ध गच्छ नंदीतट नायक ।
विद्यागण गंभीर सकल विद्या गुण गायक ॥
रामसेन आम्नाय इंद्रभूषण भट्टारक ।
तत्पट्टोद्धर धीर सुरेंद्रकीर्ति भट्टारक ॥
तद्वदन विनिर्गत अमृतसम सदुपदेश वानी सुनी ।
षट्चरण पास जिनवरतणा जोड्या धनसागर गुणी ॥ १४४
देश वराह भ्रार नगर कारंजा सोहे ।
चंद्रनाथ जिन चैत्य मूल नायक मन मोहे ॥

काष्ठासंध सुगल लाडवागद वद भागी ।
 वधेरवाल विख्यात न्यात श्रावक गुणरागी ।
 जिनधर्मी जमुना मंघपति सुत पूजा संघपति वचन ।
 चित्तमै धरी अत्याग्रह थकी रची सुधनसागर रचन ॥ १४५
 षोडश शत एकवीस शालिवाहन शक जाणो ।
 रस भुज भुज भुज प्रमित वीर जिन शाक वखाणो ॥
 विक्रम शाक विषक्त वरस सत्रासे बीते ।
 उत्तर छप्पनमांदि असित आश्विन वी दीजे ॥
 कृतमंगल मंगलवार दिन मंगल मंगल तेरसी ।
 धनसागर पासजिनेसका षट्पद वचन कहे रसी ॥ १४६

(म. ८३)

लेखांक ७५५ - पद्मावती पूजा

श्रीमच्छंभुनाथस्य चंचच्चैत्यालये वरे ।
 काष्ठासंधे गुणोपेते गच्छे नंदीतटाह्वये ॥ १
 विद्यानामगणे रम्ये भट्टारकपुरंदराः ।
 श्रीमद्रामसेनाह्वा अभूवन् सर्वसिद्धिदाः ॥ २
 तदन्वयवियच्छोभाकरणे सूर्यतुल्यभाः ।
 जाता भट्टारका भव्याः श्रीशंभुभूषणाह्वयाः ॥ ३
 तत्यादांबुजशृंगाभाः श्रीमत्सुरेद्रकीर्तयः ।
 चक्रे पद्मावतीपूजा तैः श्रीसूर्यपुरे वरे ॥ ४
 श्रीमहक्षिणदेशीयः अंजनपुरवास्तव्यः ।
 हिरासंघपतिः परं ॥ ५
 तत्सुतोप्यतिधर्मिष्ठः पुंजाख्यः सद्गुणोद्धृतिः ।
 तस्याग्रहवशाद्रम्या नानापद्यसमन्विता ॥ ६
 वह्निमुन्येश्वरात्रीश १७७३ प्रमिते वत्सरे मुदा ।
 रचौ च कृष्णपंचम्यां मासे भाद्रपदाह्वये ॥ ७

(ना. ८२)

लेखांक ७५६ - कल्याणमंदिर स्तोत्र

काष्ठांवर गण गयण रयण अति सौम्याकारं ।

भट्टारक मुनि दक्ष इंद्रभूषण गुणधारं ॥
 तास पट्ट उदयाद्रि कीर्ति सुरेंद्र विचारी ।
 क्रियापात्र परधान भव्यजने हितकारी ॥
 कुमुदचंद्र कृत स्तुति प्रवर तास कवित कीधा मुदा ।
 सुरेंद्रकीर्ति गच्छपति कहे भणता सुखसंपत्ति मदा ॥ ४५

(म. ८८)

लेखांक ७५७ - एकीभाव स्तोत्र

भट्टारक गुणपूर इंद्रभूषण जगभूषण ।
 पट्टधर परधान सदा राजे गतदूषण ॥
 सुरेंद्रकीर्ति गच्छपति कक्षा एकीभाव तणो कथित ।
 भनता सुनता दिनप्रति ते नर पामे मुगति दिन ॥ २६

(न. ८८)

लेखांक ७५८ - विपापहार स्तोत्र

गणनाथक गुरुराज इंद्रभूषण मनिपूरा ।
 सकलसंध परिचार धर्ममारगमां मूरा ॥
 सुरेंद्रकीर्ति गच्छपति प्रवर पट्टोद्धर पदवीधरण ।
 विपापहार कृत कवित वर भव्यजीव जग उद्धरण ॥ ४०

(न. ८८)

लेखांक ७५९ - भूपाल स्तोत्र

श्रीजिनमार्ग त्रिसुद्ध गळ काष्टांवर दाख्यो ।
 विविध क्रियाकलाप सकलगुणपूरण भाख्यो ॥
 भट्टारक मुनिराज इंद्रभूषण गळधारी ।
 नाम पट्ट सुविशाल सदा सोमे आचारि ॥
 सुरेंद्रकीर्ति मुनिपति सकल नित्य ध्यान जिनवर करे ।
 भूपाल कवितरचना रची भनता महु पातक हरे ॥ २७

(म. ८८)

लेखांक ७६० - गुरुपादुका

विजयकीर्ति

खस्तिश्री सं. १८१२ माघ सुदी ५ गुरौ काष्ठासंघे श्रीविजयकीर्ति-
गुरुपदेशात् सुरेन्द्रकीर्तिगुरुपादुका नित्यं प्रणमति ।

(सूत, दा. पृ. ५२)

लेखांक ७६१ - शीतलनाथ मूर्ति

खस्तिश्री नृपविक्रमात् १८१२ माघ सुदी ५ गुरौ श्रीमत् काष्ठासंघ
नन्दीतटगच्छे विद्यागणे श्रीरामसेनान्वये भ. श्रीलक्ष्मीसेन तत्पट्टे भ.
श्रीविजयकीर्तिविजयराज्ये सुरतवंदरे वास्तव्य मेवाढा ज्ञाती लघुशाखायां
सा सनाथा विशनदास सुत विठल भ्राता मूलजी इत्यादि पुत्रपौत्रादि विह
सह श्रीशीतलनाथविभ नित्यं प्रणमति ।

(सूत, दा. पृ. ५०)

लेखांक ७६२ - गुरुपूजा

श्रीमत् श्रीभूषणाख्यः तदुपरि शशिकीर्त्युत्तरे राजकीर्तिः ।
सेनांतश्चेदिरादिस्तदनु शतमखस्योत्तरे भूषणेति ॥
श्रीमानेव सुरेन्द्रकीर्तिरभवत् लक्ष्मी च सेनो ह्यतः ।
तत्पट्टे जयतामसौ विजयकीर्त्याख्यः सदा बुद्धिमान् ॥

(ना. ५७)

लेखांक ७६३ - अकृत्रिम चैत्यालयवावनी

सकलकीर्ति

देश वराढ मझारि नगर अंजनपुर सोमै ।
तिहां जिनवरना चैत्य पद्मप्रभ मन मोहै ॥
पूज करै अति सार श्रावक-विविध प्रकारी ।
संघ चतुर्विध ढान देइ शक्ति अनुसारी ॥
संबत्सर अष्टादश सही पौढग ऊपरि जानए ।
आश्विन मास सुभ सुद्ध पक्ष पंचम्यां गुरुवार वखाणए ॥ ५५
काष्ठासंघ त्रिख्यात गळ नन्दीतट जानो ।
सुरेन्द्रकीर्ति गुरु सार तत पट नाम वखानो ॥

सकलकीर्ति सोभत गच्छपति महाछवि छाजे ।
 तस पदमधुकर जाणि ब्रह्म चंद्र अनुराजे ॥
 बुधि ओछी विस्तार बहु पंडित जन सब समझ करी ।
 क्षमाभाव तुम्हे कीजिए चैत्य वावनी अनुमरी ॥ ५६

(ना. १२३)

लेखांक ७६४ - सरस्वतीमूर्ति

देवेंद्रकीर्ति

संवत् १८८१ वर्षे माघ मासे शुद्ध ५ सोम श्रीकाष्ठासंघे भ. सुरेंद्र-
 कीर्ति तत्पट्टे भ. देवेंद्रकीर्ति राजोमान ज्ञाति वघेरवाल... ॥

(ना. ५०)

लेखांक ७६५ - नवग्रहयन्त्र

संवत् १८८५ मार्गशिर्ष वद १२ गुरु दिने श्रीकाष्ठासंघे लाडवागड-
 गच्छे भ. प्रतापकीर्ति आम्नाये नंदीतटगच्छे भ. सुरेंद्रकीर्ति तत्पट्टे भ. देवेंद्र-
 कीर्ति राज्यमान ज्ञाति वघेरवाल गोत्र बोरखंड्या सा खेमाना सुत पूनासा
 यंत्रं प्रणमंति ॥

(मा. च. नहाजन, नागपुर)

लेखांक ७६६ - पुरन्दर-व्रतकथा

काष्ठासंघ उद्योतनिधान । सुरेंद्रकीर्ति गुरु नाम वखाण ॥
 तस पट्टे अनि रलियावनी । देवेंद्रकीर्ति यनिशिरोमणी ॥ ५७
 तास सेवक बोले सुजान । खेमा सुत सा पूना वान ॥
 मंदबुद्धि अक्षर जो सही । कर लीज्यो तुम्हे सुद्धे सही ॥ ५८

(म. ४६)

काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ

इस गच्छ का नाम नन्दीतट ग्राम (वर्तमान नान्देड-बम्बई राज्य) पर से लिया गया है। देवसेन कृत दर्शनसार के अनुसार यहीं कुमारसेन ने काष्ठासंघ की स्थापना की थी (ले. ६४७)। इस गच्छ का दूसरा विशेषण विद्यागण है जो स्पष्टतः सरस्वतीगच्छ का अनुकरण मात्र है। तीसरा विशेषण रामसेनान्वय है। इन के विषय में कहा गया है कि नरसिंहपुरा जाति की स्थापना इन ने की तथा उस शहर में शान्तिनाथ का मन्दिर बनवाया (ले. ६४८-४९)। इन के शिष्य नेमिसेन ने पद्मावती की आराधना की तथा भट्टपुरा जाति की स्थापना की (ले. ६५०)।

इतिहास काल में रत्नकीर्ति के पट्टशिष्य लक्ष्मीसेन से नन्दीतट गच्छ का वृत्तान्त उपलब्ध होता है।^{११७} इन के दो शिष्यों से दो परम्पराएं आरम्भ हुईं। भीमसेन और धर्मसेन ये इन दो शिष्यों के नाम थे।

भीमसेन के पट्टशिष्य सोमकीर्ति हुए। आप ने संवत् १५३२ में वीरसेनसूरि के साथ एक शीतलनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ६५१), संवत् १५३६ में गोडिळी में यशोवरचरित की रचना पूरी की (ले. ६५२) तथा संवत् १५४० में एक मूर्ति स्थापित की (ले. ६५३)। आप ने सुलतान पियोजशाह के राज्यकाल में पावागढ में पद्मावती की कृपा से आकाश गमन का चमत्कार दिखलाया था (ले. ६५४)।^{११८}

सोमकीर्ति के बाद क्रमशः विजयसेन, यशःकीर्ति, उदयसेन, त्रिभुवनकीर्ति तथा रत्नभूषण भट्टारक हुए। रत्नभूषण के शिष्य कृष्णदास ने कल्पवल्ली^{११९} पुर में संवत् १६७४ में विमलनाथपुराण की रचना की। इन के पिता का नाम हर्षसाह तथा माता का नाम वीरिका था। (ले.

१२७ रत्नकीर्ति के पहले पट्टावली में उपलब्ध होनेवाले नामों के लिए देखिए— दानवीर माणिकचन्द्र पृ. ४७

१२८ सोमकीर्ति ने प्रद्युम्नचरित तथा सप्तव्यसन कथा इन दो ग्रन्थों की रचना क्रमशः संवत् १५३१ तथा संवत् १५२६ में की थी (अनेकान्त वर्ष १२ पृ. २८) १२९ कलोल (जिला पंचमहाल— गुजरात)

६५५)।^{१३०} रत्नभूषण के दूसरे शिष्य जयसागर ने ज्येष्ठजिनवर-पूजा, पार्श्वनाथ पंच कल्याणिक तथा तीर्थजयमाला की रचना की (लं. ६५६-६०)।^{१३१}

रत्नभूषण के बाद जयकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६८६ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (लं. ६६१)।

जयकीर्ति के पट्ट पर केशवसेन भट्टारक हुए। इन के बन्धु का नाम मगल था तथा पट्टाभिषेक इंद्रोरे में हुआ था।^{१३२} इन की रची आदिनाथपूजा उपलब्ध है (लं. ६६२-६४)।

केशवसेन के पट्टपर विश्वकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १७०० में हरिवंशपुराण की एक प्रति लिखी (लं. ६६५) तथा आप के शिष्य मनजी ने संवत् १६९६ में न्यायटीपिका की एक प्रति लिखी। (लं. ६६६)

नन्दीतट गच्छ की दूसरी परम्परा लक्ष्मीसेन के शिष्य धर्मसेन से आरम्भ होती है। इन की लिखी हुई अनिशयजयमाला उपलब्ध है। श्रीरदास ने इन की प्रशंसा की है (लं. ६६७-६८)।

धर्मसेन के बाद क्रमशः विमलसेन और विशालकीर्ति भट्टारक हुए। इन के शिष्य विश्वसेन ने संवत् १५९६ में एक मूर्ति स्थापित की (लं. ६६९)। इन की लिखी आराधनासारटीका उपलब्ध है (लं. ६७०)। विशालकीर्ति ने इंगरपुर में इन्हें अपना पद सौंपा था (लं. ६७२)। दक्षिणदेश में भी इन का विहार हुआ था (लं. ६७३)। विजयकीर्ति और विद्याभूषण ये इन के दो पट्टशिष्य थे। विजयकीर्ति के शिष्य महेन्द्रसेन ने सीताहरण और चागमासी ये दो कान्य लिखे हैं (लं. ६७४-७५)।

१३० कृष्णदास ही सम्भवतः भट्टारक के गवंगन हैं—(लं. ६६३) में इन के माता पिता के नाम देखिए।^१

१३१ सम्भवतः ज्ञानभूषण के शिष्यरूप में (लं. ४८६) में इन्हीं रत्नभूषण का उल्लेख हुआ है।

१३२ पूर्वोक्त नोट १३० देखिए।

विश्वसेन के पट्टशिष्य विद्याभूषण ने संवत् १६०४ में तथा संवत् १६३६ में दो पार्श्वनाथ मूर्तियां स्थापित कीं (ले. ६७६-७७)। इन ने द्वादशानुप्रेक्षा की रचना की (ले. ६७८)। हरदाससुन तथा राजनभट्ट ने इन की प्रशंसा की है (ले. ६७९-८०)।

विद्याभूषण के बाद श्रीभूषण पट्टावीश हुए। संवत् १६३४ में इन का श्वेताम्बरो से वाद हुआ था और उस के परिणामस्वरूप श्वेताम्बरो को देशत्याग करना पडा था (ले. ६८१)। इन ने संवत् १६३६ में एक पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित की (ले. ६८२)। सोजित्रा में संवत् १६५९ में शान्तिनाथपुराण की रचना आप ने पूरी की (ले. ६८३)। आप ने संवत् १६६० में एक पद्मावतीमूर्ति, संवत् १६६५ में एक रत्नत्रय यन्त्र तथा संवत् १६७६ में एक चन्द्रग्रह मूर्ति स्थापित की (ले. ६८४-८६)। आप की लिखी द्वादशांगपूजा उपलब्ध है (ले. ६८७)। आप के पिता का नाम कृष्णसाह तथा माता का नाम माकुही था (ले. ६८८)। आप ने वादिचंद्र को वाद में पराजित किया था (ले. ६९०-९१)। विवेक, राजमल्ल और सोमविजय ने आप की प्रशंसा की है (ले. ६८९-९२)। आप के शिष्य हेमचन्द्र ने श्रावकाचार नामक छोटीसी कविता लिखी है (ले. ६९३)। गुणसेन और हर्षसागर ने भी आप की प्रशंसा की है (ले. ६९४-९५)।

श्रीभूषण के प्रधान शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागर थे। इन ने सृष्टपति ब्राह्म के लिए अक्षर वावनी लिखी (ले. ७०३)। नेमि धर्मोपदेश, नेमिनाथ-पूजा, गोमटदेव पूजा, पार्श्वनाथ पूजा, जिन चतुर्वीर्या, द्वादशी कथा, दश-लक्षण कथा, राखी बन्वन रास. पत्यविधान कथा, नि.शस्याष्टमी कथा. श्रुतस्त्व कथा, मौन एकादशी कथा ये इन की अन्य रचनाए हैं (ले. ६९६-७०८)।^{१११}

१३३ पं. नाथूराम प्रेमी ने श्रीभूषण की साम्यवादिता पर प्रकाश डाला है— देखिए जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४०। इस में इन के प्रतिबोध चिन्तामणि नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया गया है।

श्रीभूषण के बाद चन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने संवत् १६५४ में देवगिरि में पार्श्वनाथ पुर्णग लिखा था (ले. ७००)। आप ने संवत् १६८१ में एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ७१०)। पार्श्वनाथ पूजा, नन्दीश्वरपूजा, अष्टजिनवरपूजा, षोडशकारण पूजा, सगन्धी पूजा, जिन चउवीसी, पांडवपुराण तथा गुरुपूजा ये रचनाएं चन्द्रकीर्ति ने लिखीं (ले. ७११-१८)। चन्द्रकीर्ति ने दक्षिण की यात्रा करते समय कावेरी के तीर पर नगमिहपट्टन में छुग्गभट्ट को बाद में पुराजित किया। इस समय चारुकीर्ति भट्टारक भी उपस्थित थे (ले. ७२०)।

चन्द्रकीर्ति के शिष्य लक्ष्मण ने चौगामी लक्ष्म योनि विनती, वाराणसी, तीन चउवीसी विनती, तथा पार्श्वनाथ विनती की रचना की (ले. ७२१-२४)। पंडित चिदम्ब ने चन्द्रकीर्ति की प्रशंसा की है (ले. ७१९)।

चन्द्रकीर्ति के पट्ट पर राजकीर्ति भट्टारक हुए। आप ने बागारसी में विवाह में जय प्राप्त किया। हीरजी और हेनमागर ने आप की प्रशंसा की है (ले. ७२५-२६)। इत्ये ज्ञान ने इन के समय रविवाग् व्रत कथा लिखी (ले. ७२७) तथा इन के शिष्य पं. हाजी ने लाडवागड गण्ड की पद्मावती की एक प्रति लिखी (ले. ७२८)।

राजकीर्ति के पट्टशिष्य लक्ष्मीसेन हुए। आप ने शक १५६१ में पद्मावती मूर्ति, तथा संवत् १७०३ में बाहुवती मूर्ति स्थापित की (ले. ७२९-३०)।

लक्ष्मीसेन के बाद इन्द्रभूषण भट्टारक हुए। आप ने शक १५८० में एक पार्श्वनाथ मूर्ति तथा एक पद्मावती मूर्ति स्थापित की (ले. ७३१-३२)। आप के कुछ शिष्यों ने संवत् १७१८ में गोमटेकर की यात्रा की (ले. ७३३)।^{१३३} इन के शिष्य श्रीपति ने संवत् १७३६ में कोकिल

१३८ मूल मूल सं प्रतीत होता है कि यह यात्रा सुन्दरकीर्ति के समय हुई किन्तु संवत् निर्देश इन्द्रभूषण के समय के लिए ही अधिक उचित है।

पंचमी कथा लिखी (ले. ७३४) । इन की आज्ञा से भूपतिमिश्र ने गोमटस्वामी स्तोत्र लिखा (ले. ७३५) । जिनसेन, नरेन्द्रकीर्ति, सुमति-सागर, नरेन्द्रसागर, रूपसागर, जिनदास एव द्विज विश्वनाथ ने इन्द्रभूषण की प्रशंसा की है (ले. ७३६-४३) । इन के समय बघेरवाल जाति के ५२ गोत्रो मे २५ गोत्र काष्ठासघ के अनुयायी थे (ले. ७३७) ।

इन्द्रभूषण के बाद सुरेन्द्रकीर्ति भट्टारक हुए । आप ने संवत् १७४४ मे रत्नत्रय यन्त्र, संवत् १७४७ मे मेरुमूर्ति तथा इस वर्ष भी एक रत्नत्रय यन्त्र स्थापित किया (ले. ७४४-४६) । आप के शिष्य पामो ने संवत् १७४९ में भरत मुजबलि चरित्र की रचना की (ले. ७४७) । इन ने अष्टद्रव्य छप्पय भी लिखे (ले. ७४८) । सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य धनसागर ने संवत् १७५१ में नवकार पचीसी लिखी तथा संवत् १७५३ मे विहरमान तीर्थकर स्तुति की रचना की (ले. ७४९-५०) सुरेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७५३ मे चौबीसी मूर्ति स्थापित की तथा संवत् १७५४ तथा संवत् १७५६ मे केशरियाजी क्षेत्र पर दो चैत्यालयो की प्रतिष्ठा की (ले. ७५१-५३) । आप के पूर्वोक्त शिष्य धनसागर ने संवत् १७५६ में पार्श्वपुराण लिखा (ले. ७५४) । सुरेन्द्रकीर्ति ने संवत् १७७३ में पद्मावती पूजा लिखी (ले. ७५५) । आप ने कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विषापहार, भूपाल इन चार स्तोत्रो का छप्पयो मे रूपान्तर किया (ले. ७५६-५९) ।

सुरेन्द्रकीर्ति के तीन पट्टशिष्य ज्ञात है । लक्ष्मीसेन, सकलकीर्ति और देवेन्द्रकीर्ति ये उन के नाम थे । लक्ष्मीसेन के पट्ट पर विजयकीर्ति भट्टारक हुए । आप ने संवत् १८१२ मे सुरेन्द्रकीर्ति की चरणपादुकाएं स्थापित की तथा एक शीतलनाथ मूर्ति भी स्थापित की (ले. ७६०-६२) ।

सुरेन्द्रकीर्ति के दूसरे शिष्य सकलकीर्ति थे । इन के शिष्य चन्द्र ने संवत् १८१६ मे अकृत्रिम चैत्यालय बावनी लिखी (ले. ७६३) ।

सुरेन्द्रकीर्ति के तीसरे पट्टधर देवेन्द्रकीर्ति हुए। आप ने संवत् १८८१ में एक सरस्वती मूर्ति तथा संवत् १८८५ में एक नवग्रह यन्त्र की स्थापना की (ले. ७६४-६५)। देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य पुना ने पुरन्दर व्रत कथा की रचना की (ले. ७६६)।

काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ-कालपट

रत्नकीर्ति

लक्ष्मीसेन

मीमसेन

धर्मसेन

[अगला पृष्ठ देखिए]

सोमकीर्ति [संवत् १५२६-१५४०]

विजयसेन

यशःकीर्ति

उदयसेन

त्रिभुवनकीर्ति

रत्नभूषण [संवत् १६७४]

जयकीर्ति [संवत् १६८६]

केशवसेन

विश्वकीर्ति [संवत् १६९६-१७००]

